



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 14—जनवरी 20, 2006 (पौष 24, 1927)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 14—JANUARY 20, 2006 (PAUSA 24, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2006

थल सेना शाखा

विद्युत एवं यांत्रिकी इंजीनियर कोर

सं. 14, दिनांक 7 दिसम्बर 2005—राष्ट्रपति, कर्नल (सेवानिवृत्त)
श्री आर एल मकाड़िया को दिनांक 21 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से ईएमई कोर,
रक्षा मंत्रालय में अधिशासी अभियंता के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री वी के त्यागी को दिनांक 04 जुलाई
2005 (पूर्वाह्न) से ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय में अधिशासी अभियंता के पद
पर नियुक्त करते हैं।

एन के कश्मीरा
सचिव

सं. 15, दिनांक 13 दिसम्बर 2005—राष्ट्रपति, सहर्ष यथा संशोधित थल
सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सर्जन सब लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

राहुल नागा (एम आर-08131ए) ए एम सी, 21 फरवरी 2005

सोमनाथ पान (एम आर-08132एच) ए एम सी, 21 फरवरी 2005

राहुल त्यागी (एम आर-08159ए) ए एम सी, 21 फरवरी 2005

सिरत पाल (एम आर-08160पी) ए एम सी, 21 फरवरी 2005

तरुन पारिक (एम आर-08161एक्स) ए एम सी, 21 फरवरी 2005

कौशिक रॉय (एम आर-08166डब्ल्यू) ए एम सी, 21 फरवरी 2005

अभिषेक कुमार शर्मा (एम आर-08183डब्ल्यू) ए एम सी, 21 फरवरी
2005

अरुण गुप्ता (एम आर-08184 वाई) ए एम सी, 21 फरवरी 2005

रमाकान्त (एम आर-08185एफ) ए एम सी, 21 फरवरी 2005

सिद्धार्थ त्यागी (एम आर-08186के) ए एम सी, 21 फरवरी 2005

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर, डिप्टी स. से. चि. से. (कार्मिक)

सं. 16, दिनांक 13 दिसम्बर 2005—राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष
नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले. के. पद पर दिनांक 11 जून 2005 से)

निम्नलिखित 116 नियमित पाठ्यक्रम (116 डाइरेक्ट इन्ट्री, 106 एन डी ए तथा 83 ए सी सी) के कैडेटों को सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 11 जून 2005 से स्थायी रूप से सेना निर्देश ए/एस/74 (डाइरेक्ट इन्ट्री) सेना निर्देश 53/78 को वि से नि/ए/एस/74 को साथ पढ़ा जाए (एन डी ए), सेना निर्देश 55/73 (ए सी सी) के अन्तर्गत स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

अश्वनी सुडयाल 66811एल, इन्फैन्ट्री
 बैस गुरुचरण शीतल चन्द्रा 66812एन, इन्फैन्ट्री
 हिमांशु अवस्थी 66813डब्ल्यू, ए सी
 उदित भास्कर 66814वाई, इंजीनियर
 राघवेन्द्र प्रताप सिंह 66815 एफ, आर्टी
 गौरव गोपीनाथ 66816के, इंजीनियर
 रविराज बालकृष्ण नलावडे 66817एम, इन्फैन्ट्री
 पी एल राघवेन्द्र 66818पी, इन्फैन्ट्री
 संतोष कुमार यादव 66819एक्स, आर्टी
 वरुण राय 66820एक्स, आर्टी
 मनीष सोम 66821एम, इन्फैन्ट्री
 अभिषेक कुमार शर्मा 66822पी, इन्फैन्ट्री
 अजय कुमार गुप्ता 66823ए, आर्टी
 भूपेन्द्र सिंह गुंसाई 66824एच, इन्फैन्ट्री
 आशुतोष पाण्डेय 66825 एल, इन्फैन्ट्री
 वरुण सोनी 66826एन, इन्फैन्ट्री
 जोग अभिषेक सुरेश 66827डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 पी वी मोहन 66828वाई, ए सी
 रमानी रूषिकेश बल्लभभाई 66829एफ, इन्फैन्ट्री
 राकेश सिंह शिशोदिया 66830डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 गाडगोल अमित अनिल 66831वाई, ए ए डी
 प्रशान्त पूनिया 66832एफ, मैक
 पंकज कुमार 66833के, इन्फैन्ट्री
 विवेक शाही 66834एम, ए एस सी
 पटेल कल्पेशकुमार बाबूभाई 66835पी, इन्फैन्ट्री
 प्रतीक राय 66836एक्स, इन्फैन्ट्री
 सिद्धार्थ शाह 66837ए, इन्फैन्ट्री
 विशाल कुमार सिंह 66838एच, इन्फैन्ट्री
 यश पाल श्याम 66839एल, इन्फैन्ट्री
 संतोष पाठक 66840ए, आर्टी
 त्रिलोकी नाथ प्रेम 66841एच, इन्फैन्ट्री
 आकाश कुमार 66842ए, इन्फैन्ट्री

पियूष कुमार वर्मा 66843एन, एसी
 शरथ नायर 66844डब्ल्यू, आर्टी
 सतीश पाटील 66845वाई, इन्फैन्ट्री
 प्रदीप सिंह राठौड़ 66846एफ, आर्टी
 हनूमंतु गणेश कुमार 66847के, ए ए डी
 साहिल शर्मा 66848एम, इंजीनियर
 भानू प्रताप 66849पी, इन्फैन्ट्री
 यज्ञेश नारायण त्रिपाठी 66850के, सिगनल
 सौभ्यंजन मानसिंह 66851एम, इंटर
 शिवेश सिंह 66852पी, इन्फैन्ट्री
 राघवेन्द्र प्रताप सिंह सोलंकी 66853एक्स, ए सी
 संदीप शर्मा 66854ए, ई एम ई
 राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी 66855एच, इन्फैन्ट्री
 ठोन्द्र बहादुर क्षेत्री 66856एल, इन्फैन्ट्री
 दीपक तोमर 66857एन, इन्फैन्ट्री
 विशाल शर्मा 66858डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 जितेन्द्र कुमार 66859वाई, ए सी
 अपूर्व श्रीवास्तव 66860एन, ए ए डी
 देशमुख अभिजीत लक्ष्मीकांत 66861डब्ल्यू, आर्टी
 मुनीष शर्मा 66862वाई, इन्फैन्ट्री
 अशेष 66863एफ, इन्फैन्ट्री
 संदीप त्यागी 66864के, मैक
 अभिषेक चक्रवर्ति 66865एम, ए ए डी
 नवनीत कुमार राय 66866पी, ए ए डी
 चन्द्र शेखर जोशी 66867एक्स, इन्फैन्ट्री
 राधेकान्त यादव 66868ए, ए ओ सी
 मानवेन्द्रा सिंह राठौर 66869एच, ए सी
 अमित कुमार यादव 66870एक्स, इंटर
 अमित आनन्द गुटे 66871ए, आर्टी
 अभिनव गोयल 66872 एच, इन्फैन्ट्री
 अंकुर दत्ता 66873एल, इंजीनियर
 कुलभूषण सम्बयाल 66874एन, इन्फैन्ट्री
 प्रशान्त मिश्रा 66875डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 हरमीत सिंह 66876वाई, इन्फैन्ट्री
 पंकज पंत 66877एफ, इन्फैन्ट्री
 विनीत दलाल 66878के, इन्फैन्ट्री
 अलोक त्यागी 66879एम, ईएमई
 जयंत नारायणराव मुलगीर 66880एफ, आर्टी
 श्याम चरण हेम्ब्रम 66881के, इन्फैन्ट्री
 दलवीर सिंह 66882एम, ए एस सी

योगेश्वर सिंह 66883पी, इन्फैन्ट्री
 सुमित प्रेम विसनोई 66884एक्स, इन्फैन्ट्री
 अमोल शंकर कलेल 66885ए, इन्फैन्ट्री
 आदित्य देव 66886एच, आर्टी
 आकाश रमाकांत नाइक 66887एल, इन्फैन्ट्री
 नंद गोपाल यादव 66888एन, मैक
 सितेन्द्र कुमार 66889डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 शिराज एन्टो 66890एल, इन्फैन्ट्री
 अंकुर श्रीवास्तव 66891एन, ए ओ सी
 ललित चन्द्रा कंडपाल 66892डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 जीजो जोश 66893वाई, आर्टी
 नितिन सुभाष कलदाते 66894एफ, इन्फैन्ट्री
 विनय कुमार 66895के, ए ओ सी
 पोषक अहलूवालिया 66896एम, मैक
 प्रवीण कुमार त्रिपाठी 66897पी, ई एम ई
 प्रनव कुमार 66898एक्स, इन्फैन्ट्री
 मोहम्मद आशिफ वेग 66899ए, इन्फैन्ट्री
 विश्वजीत मुकुट 66900के, इन्फैन्ट्री
 मधुर वर्मा 66901एम, आर्टी
 भूपेन्द्र कुमार गिरी 66902पी, ए ए डी
 राजेश जोशी 66903एक्स, इन्फैन्ट्री
 अधिराज सिंह 66904ए, इन्ट
 गगनदीप सिंह मल्होत्रा 66905एच, ए एस सी
 सुनील कुमार बराला 66906एल, ए सी
 मिथुन 66907एन, ए ए डी
 कुमार अनुपम 66908डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 शोएब उल्लाह खान 66909वाई, एओसी
 अंकुर शर्मा 66910एन, इन्फैन्ट्री
 मयूर कोहली 66911डब्ल्यू, सिग्नल
 परमजोत सिंह कंग 66912वाई, एसी
 रवीन्द्र सिंह 66913एफ, आर्टी
 सुभोदीप घोष 66914के, इन्फैन्ट्री
 अनूप पठानिया 66915एम, इन्फैन्ट्री
 पार्थ वर्मा 66917एक्स, इन्फैन्ट्री

अनुराग पंवार 66918ए, इन्फैन्ट्री
 अभिषेक चौहान 66919एच, आर्टी
 बेनडग तोशी 66920एक्स, इन्फैन्ट्री
 पटेल संजयकुमार विजयभाई, 66921ए, मैक
 नयनजीत सोनोवाल 66922एच, इन्फैन्ट्री
 अमित कुमार सिंह 66923एल, इन्फैन्ट्री
 के जे सिंह 66924एन, इन्फैन्ट्री
 सायक सेन 66925डब्ल्यू, आर्टी
 सतिन्दर चन्देल 66926वाई, आर्टी
 राकेश माधव बिरार, 66927एफ, इन्फैन्ट्री
 प्रकाश के आर सिंह 66928के, आर्टी
 विनीत तिवारी 66929एम, एओसी
 अन्नम ललित कुमार 66930एम, ईएमई
 दीपक कुमार शारदा 66931के, इन्फैन्ट्री
 राजीव 66932एम, इन्फैन्ट्री
 अनुज सामया 66933पी, इंट
 अंकन धर 66934एक्स, ईएमई
 सरबजीत 66935ए, एएडी
 विश्वास कुमार मिश्रा 66936एच, इन्फैन्ट्री
 कनिष्क चौहान 66937एल, इन्फैन्ट्री
 मृगांक मेहरोत्रा 66938एन, एसी
 राजन चिकारा 66939डब्ल्यू, एएससी
 उपकार सिंह राय 66940एल, एएससी
 पंकज पोगट 66941एन, एएससी
 गौरव प्रताप सिंह 66942डब्ल्यू, एओसी
 रूपेन्द्र सिंह जसरोतिया 66943वाई, आर्टी
 करन संधु 66944एफ, इन्फैन्ट्री
 उत्कर्ष रस्तोगी 66945के, मैक
 सुनील कुमार हुड्डा 66946एम, एओसी
 आशीश आस्था 66947पी, इन्फैन्ट्री
 विकास हरिबाउ मगर 66948एक्स, आर्टी
 राकेश सिंह रावत 66949ए, इन्फैन्ट्री
 मयंक पराशर 66950पी, ईएमई
 अरुण कौशिक 66951एक्स, एएससी

विपिन सिंह नेगी 66952ए, इन्फैन्ट्री
 मुकेश कुमार 66953एच, आर्टी
 भारतेन्दु सती 66954एल, एएससी
 एस अययप्पा विश्वनाथ 66955एन, इन्फैन्ट्री
 निशिल अग्रवाल 66956डब्ल्यू, इंटर
 पंकी किशोर कुमार 66957वाई, आर्टी
 संजय कुमार साकेत 66958एफ, आर्टी
 सुजित कुमार 66959के, एएडी
 अर्शदीप 66960वाई, एओसी
 क्षितिज कुमार 66961एफ, इन्फैन्ट्री
 मंजु जोसफ चाको 66962के, एएडी
 भावेश कुमार 66963एम, इन्फैन्ट्री
 रोहित सिंह लटवाल 66964पी, एएडी
 महाजन अभिजीत शरद 66965एक्स, आर्टी
 सनंथ कुमार जी सी 66966ए, इन्फैन्ट्री
 अजय सिंह 66967एच, इन्फैन्ट्री
 कमलजीत सिंह 66968एल, इन्फैन्ट्री
 कपिल भट्ट 66969एन, आर्टी
 पियूष नागरकोटी 66970एच, इन्फैन्ट्री
 कुमार निशान्त 66971एल, एएससी
 अजय सिंह 66972एन, इन्फैन्ट्री
 दीपक कुमार देशवाल 66973डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 मनोज सिंघे 66974वाई, इन्फैन्ट्री
 प्रदीप्ता प्रतीक साहा 66975एफ, एसी
 शोराज सिंह खोला 66976के, एएससी
 संदड़ी आदित्य 66977एम, एएडी
 रवि कुमार पाण्डेय 66978पी, इन्फैन्ट्री
 संजय कुमार 66979एक्स, एओसी
 अनुज नरवाल 66980एम, आर्टी
 राकेश वर्मा 66981पी, एसी
 अभिषेक कुमार सिन्हा 66982एक्स, इन्फैन्ट्री
 अरुण कुमार पाण्डा 66983ए, इन्फैन्ट्री
 अय्यर शिवकुमार नटराजन 66984एच, एएससी
 नीरज कुमार 66985एल, एएससी

गोविन्दा प्रसाद उपाध्याय 66986एन, इन्फैन्ट्री
 हैदर अली 66987डब्ल्यू, एएससी
 रामप्रीत सिंह वासन 66988वाई, इंटर
 दीपक राना 66989एफ, एएडी
 संदीप कुमार 66990डब्ल्यू, ईएमई
 पिंटो नाईजिल रोलेंड 66991वाई, इन्फैन्ट्री
 दीपक मिश्रा 66992एफ, आर्टी
 नितिन अतुलकर 66993के, इंटर
 शैलेन्द्र कुमार थपलियाल 66994एम, इन्फैन्ट्री
 राहुल बिष्ट 66995पी, इन्फैन्ट्री
 राकेश कदम 66996एक्स, आर्टी
 समीर दिक्षित 66997ए, इन्फैन्ट्री
 सिद्धार्थ रावत 66998एच, इन्फैन्ट्री
 एम जितेन्द्र यादव 66999एल, इन्फैन्ट्री
 दीपक कुमार 67000एम, इन्फैन्ट्री
 प्रेम प्रकाश शर्मा 67001पी, इन्फैन्ट्री
 हनमंत श्रीमंत माकणे 67002एक्स, एएससी
 ब्रजेन्द्र सिंह बोरा 67003ए, इन्फैन्ट्री
 पुनित कुमार 67004एच, इन्फैन्ट्री
 विरेन्द्र चन्द्र तिवारी 67005एल, मैक
 रवि चौहान 67006एन, एओसी
 ओकम जिलाडम्बा सिंह 67007डब्ल्यू, एएडी
 अलोक बाबू 67008वाई, इन्फैन्ट्री
 राहुल शर्मा 67009एफ, आर्टी
 सयद्ध सफिक आलम 67010डब्ल्यू, एएडी
 प्रियंक प्रियार्दशी 67011वाई, इन्फैन्ट्री
 हरिन्द्र सिंह ग्रीवर 67012एफ, एएससी
 अशिश चौधरी 67013के, एएससी
 स्निग्धतनु डे 67014एम, आर्टी
 अमरजीत सिंह 67015पी, इन्फैन्ट्री
 उदय भानु प्रताप सिंह राठौर 67016एक्स, इन्फैन्ट्री
 जय सिंह शेखावत 67017ए, इन्फैन्ट्री
 अरिष अरिजीत बनर्जी 67018एच, एओसी
 सुनील कुमार 67019एल, इन्फैन्ट्री

सौरभ पुंज 67020ए, इन्फैन्ट्री	संदीप बाबू 67055डब्ल्यू, आर्टी
अदित्य ऐरी 67021एच, एओसी	उदीत चावला 67056वाई, आर्टी
उज्जवल अभिषेक 67022एल, इंटर	धिरेन्द्र कुमार सिंह 67057एफ, इन्फैन्ट्री
प्रदीप करण राठौर 67023एन, इन्फैन्ट्री	मुकेश प्रसाद 67058के, एएससी
थोड़ाम मोतिलाल 67024डब्ल्यू, एएससी	सनंत कुमार 67059एम, इन्फैन्ट्री
विजय सिंह 67025वाई, इंजीनियर	इमेनुअल प्रवीन जयचंद 67060एफ, इन्फैन्ट्री
मुकेश प्रसाद 67026एफ, आर्टी	अलोक आनंद 67061के, इन्फैन्ट्री
अखिल चालू 67027के, इन्फैन्ट्री	गौरव साजवान 67062एम, इंजीनियर
मनप्रीत सिंह 67028एम, इन्फैन्ट्री	विनीत कुमार 67063पी, इन्फैन्ट्री
अविज्ञान सामन्ता 67029पी, इन्फैन्ट्री	जुडासमा विक्रम सिंह सुखदेव सिंह 67064एक्स, एएससी
सान्तनु देबनाथ 67030के, एएडी	यादव देवांग इन्दुप्रकाश 67065ए, इन्फैन्ट्री
रविन्द्र सान्तराम कोकने 67031एम, एएससी	राहुल चावला 67066एच, एएससी
बलजीत सिंह 67032पी, एसी	दुष्यंत तनवर 67067एल, इन्फैन्ट्री
कुनाल भल्ला 67033एक्स, एओसी	ऋषि खन्ना 67068एन, इन्फैन्ट्री
जीतेष पी 67034ए, इन्फैन्ट्री	श्रीकुमार वैनुगोपाल 67069डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
अरिन्दम घोष 67036एल, आर्टी	सुब्रत कुमार सामल 67070एल, आर्टी
गुरपेज सिंह 67037एन, एसी	नन्द किशोर राणा 67071एन, इन्फैन्ट्री
अमित कुमार 67038डब्ल्यू, इंटर	आनंद सी 67072डब्ल्यू, एएडी
रितेश पुनिया 67039वाई, मैक	सूरज मंडल 67073वाई, इन्फैन्ट्री
निलेन्द्रा राठौर 67040एन, इन्फैन्ट्री	नीरज फ्रैन्च 67074एफ, इंटर
अभितेश कश्यप 67041डब्ल्यू, आर्टी	दीपक बक्शी 67075के, एएडी
विजय गोयल 67042वाई, इन्फैन्ट्री	संदीप संगवान 67076एम, इन्फैन्ट्री
सौरभ त्रिपाठी 67043एफ, इंटर	अनिल कुमार पुनिया 67077पी, एसी
गोधले शुशान्त आनंद 67044के, इन्फैन्ट्री	गुरंग जैन 67078एक्स, इन्फैन्ट्री
जी राजाराजन 67045एम, इन्फैन्ट्री	विनोद सिंह 67079ए, आर्टी
अतुल अरोड़ा 67046पी, इन्फैन्ट्री	गिरिश अग्निहोत्री 67080पी, मैक
राहुल सिंह 67047एक्स, इन्फैन्ट्री	एस सतीश कुमार 67081एक्स, एएससी
गौरव एस थवालकर 67048ए, इन्फैन्ट्री	गौरव गुप्ता 67082ए, एएससी
सिद्धार्थ रावत 67049एच, एएडी	सान्तनु धर 67083एच, आर्टी
चिन्नमय्या अस्थाना 67050एक्स, इन्फैन्ट्री	रवि नेगी 67084एल, इन्फैन्ट्री
अमनदीप सिंह 67051ए, एएससी	कालरा सचिन महेन्द्र, 67085एन, इन्फैन्ट्री
वैभव 67052एच, मैक	धुपद बनर्जी 67086डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
अदित्या जामवाल 67053एल, इन्फैन्ट्री	श्रीनाथ नाम्बीयार 67087वाई, एओसी
विमल सचदेवा 67054एन, आर्टी	सुदर्शन मा कसबे 67088एफ, इन्फैन्ट्री

अभिषेक भार्गव 67089के, एएडी
 चिन्वे आकाश अरुण 67090वाई, इन्फैन्ट्री
 पुष्पेन्द्र मिश्रा 67091एफ, इन्फैन्ट्री
 किम पराग 67092के, एएससी
 दीपक शर्मा 67093एम, आर्टी
 विनित जे मनी 67094पी, इन्फैन्ट्री
 अमित सिंह 67095एक्स, इन्फैन्ट्री
 कमलजीत सिंह 67096ए, इन्फैन्ट्री
 राकेश तिवारी 67097एच, इन्फैन्ट्री
 प्रवीन कुमार 67098एल, ईएमई
 सूर्यकान्त कण्डवाल 67099एन, एओसी
 अविनाश सिंह कचवाह 67100एक्स, एएससी
 अनुप कुमार शर्मा 67101ए, इन्फैन्ट्री
 विस्व विप्लव विस्वाल 67102एच, एएडी
 मुल्लु विजय मोहन 67103एल, मैक
 सतेन्द्र मणी त्रिपाठी 67104एन, ए ए डी
 हरजिन्द्र सिंह 67105डब्ल्यू, आर्टी
 प्रियंक चौधरी 67106वाई, एओसी
 सुनील कुमार मुरनी 67107एफ, आर्टी
 बृजेश सिंह 67108के, इन्फैन्ट्री
 वाहेंबम धर्मेन्द्र सिंह 67109एम, मैक
 आश्रय त्रिवेदी 67110एफ, सिग्नल
 भूपेन्द्र कुमार शाही 67111के, इन्फैन्ट्री
 पंकेश कुमार वसंतराव बगुल 67112एम, एएससी
 सौरभ अरोड़ा 67113पी, इंटर
 इमरान खान 67114एक्स, एओसी
 ए जी दानी स्वीटनस 67115ए, एसी
 दिग्विजय सिंह खुशवाह 67116एच, आर्टी
 गौरव शाह 67117एल, एओसी
 पार्थ सिन्हा 67118एन, एएडी
 मयंक पाण्डेय 67119डब्ल्यू, आर्टी
 गुरनीत सिंह डिल्लन 67120एल, एएमई
 अनुज शाह 67121एन, एसी
 रजनीश तिवारी 67122डब्ल्यू, इंटर

अभिनव शर्मा 67123वाई, एओसी
 राकेश कुमार 67124एफ, इन्फैन्ट्री
 अभिनव प्रताप सिंह 67125के, इंजीनियर
 अमित ओझा 67126एम, इन्फैन्ट्री
 अरनव बंसल 67127पी, इन्फैन्ट्री
 विक्रमजीत सिंह 67128एक्स, आर्टी
 सौरभ चौधरी 67129ए, इन्फैन्ट्री
 गांगुली राजोतम 67130पी, ए सी
 ऋषि मैहरोत्रा 67131एक्स, मैक
 आशिस भारद्वाज 67132ए, इन्फैन्ट्री
 विनय के आर झा 67133एच, इन्फैन्ट्री
 हिरेन्द्र सिंह 67134एल, एएडी
 आशुतोष भदुरिया 67135एन, एएससी
 अविश माथुर 67136डब्ल्यू, एसी
 अनिमेश बडोला 67137वाई, इन्फैन्ट्री
 इन्द्र सिंह 67138एफ, इन्फैन्ट्री
 शान्तनु सिंह भण्डारी 67139 के, इन्फैन्ट्री
 सचिन तलवार 67140वाई, आर्टी
 बादल कुमार दास 67141एफ, ए ए डी
 प्रदीप मेहरा 67142के, इन्फैन्ट्री
 बढवे सुहास श्रीकृष्णा 67143एम, इन्फैन्ट्री
 राहुल सिंह 67144सी, इन्फैन्ट्री
 फिलिप्स थामस 67145एक्स, इंटर
 देबदिप गंगोपाध्यय 67146ए, इन्फैन्ट्री
 अंकुर तिवारी 67147एच, आर्टी
 कार्तिक कुमार एस 67148एल, एसी
 अरूण कुमार 67149एन, इन्फैन्ट्री
 निकुंज सिरोही 67150एच, एओसी
 गुरप्रित सिंह 67151एल, एओसी
 राजेश कुमार सेमवाल 67152एन, आर्टी
 अंकुर शर्मा 67153डब्ल्यू, आर्टी
 अजय सिंह शेखावत 67154वाई, इन्फैन्ट्री
 विरेन्द्र सिंह दानु 67155एफ, इन्फैन्ट्री
 प्रशान्त कुमार सिन्हा 67156के, आर्टी

अनुभव मोहन शुक्ला 67157एम, इन्फैन्ट्री
 क्षत्रिय आनन्दकृष्ण बीर विक्रम 67158पी, इन्फैन्ट्री
 एन दिनेश 67159एक्स, इन्फैन्ट्री
 कमलजीत सिंह 67160एम, एएससी
 सरजीत राय 67161पी सिग्नल
 करण मनसोत्रा 67162एक्स, एसी
 पी एल श्रीकान्त 67163ए, आर्टी
 अरविन्द सिंह यादव 67164एच, मैक
 पर्णायन मन्ना 67165एल, ईएमई
 अश्वनि कुमार 67166एन, इन्फैन्ट्री
 शिवम अग्रवाल 67167डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 बहुगुणा मित्तल 67168वाई, इन्फैन्ट्री
 सुखावत सिंह सिद्धू 67169एफ, एओसी
 परमिंदर सिंह पखरेडिया 67170डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 अनुज सिंह जज 67171वाई, इन्फैन्ट्री
 मंयक नन्दा 67172एफ, एएससी
 विनोद कुमार सिंह 67173के, इन्फैन्ट्री
 जय राम सिंह 67174एम, इन्फैन्ट्री
 समीर कालिया 67175पी, आर्टी
 नायक विनय रघुनाथ 67176एक्स, इन्फैन्ट्री
 अर्जुन शर्मा 67177ए, एओसी
 वेदटूकल्लेल पॉल वर्गोस 67178एच, इंटर
 सैतान सिंह पठानिया 67179एल, एएससी
 बुद्धा ज्योति कर 67180ए, मैक
 सिलादित्य भट्टाचारजी 67181एच, इन्फैन्ट्री
 सशांक दिप 67182एल, इन्फैन्ट्री
 हनि पाल आनन्द 67183एन, आर्टी
 रजनिश गैरोला 67184डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 रवि गुरंग 67185वाई, इन्फैन्ट्री
 अनिल धिमान 67186एफ, आर्टी
 संदिप श्रीधरन 67187के, इन्फैन्ट्री
 अजेश कुमार 67188एम, इन्फैन्ट्री
 सुदर्शन बालाजी आर 67189पी, एएडी
 देशपान्डेय गौतम भारत 67190के, इंटर

अभिक मुकजी 67191एम, इंटर
 चन्द्रेश प्रताप सिंह 67192पी, इंजीनियर
 अलोक प्रताप सिंह 67193एक्स, ईएमई
 मिस्किथ शेल्डन सावियो 67194ए, एएडी
 शार्दूल सबीखी 67195एच, एसी
 अमनदीप सिंह मुलतानी 67196एल, इन्फैन्ट्री
 राजेश कुमार 67197एन, इन्फैन्ट्री
 प्रमोद कुमार सिंह 67198डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री
 सौरभ यादव 67199वाई, एसी
 सौरभ शर्मा 67200एच, आर्टी
 दुष्यंत डी पित्रोडा 67201एल, आर्टी
 अखिल राज सिंह 67202एन, इन्फैन्ट्री
 दिपांकर गोगोई 67203डब्ल्यू, इंजीनियर
 विक्रम सिंह 67204वाई, इन्फैन्ट्री
 विपिन कुमार सिंह 67205एफ, इन्फैन्ट्री
 कपिल सिंह शेखावत 67206के, एओसी
 कुंदन कुमार 67207एम, इन्फैन्ट्री
 मंयक पुनिया 67208पी, एसी
 सुधीर सिंह पंवार 67209एक्स, आर्टी
 प्रतुल डेविड सिंह 67210एम, आर्टी
 विवेक त्रिपाठी 67211पी, इन्फैन्ट्री
 अभिलाष सती 67212एक्स, इन्फैन्ट्री
 विनोद नेगी 67213ए, ईएमई
 अमित तिवारी 67214एच, इन्फैन्ट्री
 सौरभ सुयाल 67215एल, एसी
 वैभव नातु 67216ए, इन्फैन्ट्री
 अशिश कुमार पाण्डेय 67217डब्ल्यू, एओसी
 सौरभ शाही 67218वाई, इन्फैन्ट्री
 अशिश कुमार शर्मा 67219एफ, आर्टी
 सक्सेना निखिल राजेन्द्र 67220डब्ल्यू, एएडी
 राजेश कुमार सिंह बिष्ट 67221वाई, एएससी
 रामेश्वर प्रसाद नन्दा 67222एफ, इंटर
 विराज सेमवाल 67223वी, एओसी
 राकेश कुमार आर्य 67224एस, आर्टी

संदीप सिंह मलिक 67225पी, इन्फैन्ट्री

राजीव प्रताप सिंह 67226एक्स, इन्फैन्ट्री

चन्द्र शेखर
ले. कर्नल
एएमएस-8बी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 17, दिनांक 12 दिसम्बर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

श्री रणवीर सिंह और श्री पी एन रेड्डी, दोनों संयुक्त निदेशक, ए एफ एच क्यू सिविल सेवा को 18.11.2005 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, कार्मिक निदेशालय में दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर निदेशक के रूप में वेतनमान रु. 14300-18300 पर।

श्री आशीष गौर को 20.01.2004 (अपराह्न) से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में इनमास, दिल्ली में एक वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 10000-325-15200 पर।

डी आर डी एस नियम 1979 के उप नियम 8(क) के निबन्धनों के अनुसार हुई विभागीय परीक्षा 2001 में उत्तीर्ण होने पर श्री नयिनी वेंकटरैड्डी, एस टी ए, सी सी ई (आर एण्ड डी), सिकन्दराबाद को दिनांक 26.12.2001 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 8000-275-13500 पर।

श्री सोमेन मुरमू को दिनांक 11.07.2001 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में, आई टी आर, बालासोर में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 8000-275-13500 :-

जे के खडवाल
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

(थल सेना शाखा)

सं. 18, दिनांक 7 दिसम्बर 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं।

(नियमित थल सेना)

(सेना चिकित्सा कोर)

स्थायी सूबेदार (नर्सिंग असिस्टेंट)

नायब सूबेदार शोभा राम (जेसी-693689एफ), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार स्वन्त रामचन्द्र अप्पा (जेसी-693690डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जेसी-693818डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार सुबल कृष्णा साहा (जेसी-693820एन), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार रामवीर सिंह (जेसी-693886के), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार अमुसेना सिन्हा (जेसी-694061एल), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार सूरज कान्त प्रसाद सिंह (जेसी-693583पी), 06 जनवरी 2005

नायब सूबेदार अशीष कुमार मण्डल (जेसी-693998के), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार चैतन्य चरन स्वैन (जेसी-694000एन), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार नरोत्तम मोहन्ती (जेसी-694065एफ), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार बलदेव किशन (जेसी-694001डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार धरम बीर सिंह (जेसी-694002वाई), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार नरेश चन्द्र धिलडियाल (जेसी-694119एक्स), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार दयानन्द टी एस (जेसी-694003एफ), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार सत्यानन्द पॉल (जेसी-694004के), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार चन्द्र मोहन सिंह दोबल (जेसी-694005एम), 01 मई 2005

नायब सूबेदार जोय टी के (जेसी-694066के), 09 जून 2005

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह क्षत्रिय (जेसी-694007एक्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सुरेश नाथ कश्यप (जेसी-694008ए), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार रत्न चन्द (जेसी-694009एच), 01 अगस्त 2005

स्थायी सूबेदार (नर्सिंग तकनीशियन)

नायब सूबेदार आर लक्ष्मन कुमार (जेसी-693731पी), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार सुनील कुमार (जेसी-693741वाई), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार मुन्ना सिंह रावत (जेसी-693742एफ), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-693743के), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार राम नरेश यादव (जेसी-693744एफ), 01 मई 2005

नायब सूबेदार विश्वनाथ (जेसी-693745पी), 01 मई 2005

स्थायी सूबेदार मेजर (एम्बुलेन्स असिस्टेंट)

सूबेदार आर सेलवेन्द्रन (जेसी-692374एल), 01 अगस्त 2005

सूबेदार भंवर लाल (जेसी-692701एल), 01 अगस्त 2005

सूबेदार अवधेश कुमार सिंह (जेसी-692382के), 01 अगस्त 2005

स्थायी सूबेदार (एम्बुलेन्स असिस्टेंट)

नायब सूबेदार बजिन्दर सिंह (जेसी-693900एल), 01 जून 2005

नायब सूबेदार महेश प्रसाद यादव (जेसी-693980एच), 01 जून 2005

नायब सूबेदार हवा सिंह (जेसी-693982वाई), 01 जून 2005
 नायब सूबेदार के महेन्द्रन (जेसी-693984के), 01 जून 2005
 नायब सूबेदार सेलवारज कुरूप पी (जेसी-693985एम), 01 जून 2005
 नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-693987एक्स), 01 जून 2005
 नायब सूबेदार गावडे हमबीर राव राव किशन (जेसी-693988ए),
 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार प्रेम चन्द्र भगत (जेसी-693989एच), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार प्रकाश चन्द (जेसी-694056ए), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार हवा सिंह (जेसी-694057एच), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार जय भगवान (जेसी-693990एक्स), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार ए चोक्कालिंगम (जेसी-694058एल), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार प्रसिद्ध नारायण यादव (जेसी-694060एच), 01 अगस्त
 2005
 नायब सूबेदार राम बहादुर तमांग (जेसी-694116के), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार रनधीर राय (जेसी-694117एम), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार निखिल दास (जेसी-694168ए), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार श्री राम सिंह (जेसी-694169एच), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार रनवीर सिंह (जेसी-694172एच), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार भगवान दीन (जेसी-694173एल), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार नमी चन्द्र कोली (जेसी-694202पी), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार कल्याण प्रसाद जोशी (जेसी-694233पी), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार राजपाल सिंह (जेसी-694234एक्स), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार मदन मोहन प्रसाद (जेसी-694273डब्ल्यू), 01 अगस्त
 2005
 नायब सूबेदार कौशर अली खान (जेसी-694236एच), 01 अगस्त
 2005
 नायब सूबेदार बचित्तर सिंह (जेसी-694237एल), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार हवलदार सिंह (जेसी-694274वाई), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार राम स्वरूप (जेसी-694275एफ), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार मोहम्मद शाहरुम खान (जेसी-694310वाई), 01 सितम्बर
 2005
 नायब सूबेदार बलदेव राज (जेसी-694334एच), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार जगमाल सिंह राठौर (जेसी-694318एल), 01 सितम्बर
 2005
 नायब सूबेदार राम प्रकाश व्यास (जेसी-694321एल), 01 सितम्बर
 2005

स्थायी सूबेदार ड्राईवर (एम टी)

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जेसी-693111वाई), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार सेलवा वीरैया (जेसी-693112एफ), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार दोमन सिंह (जेसी-693203एल), 01 सितम्बर 2005

राम चंद्र रतूडी
 अवर सचिव

सं. 19, दिनांक 8 दिसम्बर 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
 पदोन्नति उनके नामों के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेंट से मूल कप्तान के रैंक में

(वी-526एम) कप्तान एस एस भारतद्वज, आरवीसी, 10 अप्रैल 2001
 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 02 सितम्बर 1997

तोपखाना रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार प्रह्लाद द्विवेदी (सं. 14484894एन अब जेसी-268179एम),
 31 मई 2005/01 अक्टूबर 2004 *

हवलदार शेख अमीर बाशा (सं. 15112857एफ अब जेसी-
 268180डब्ल्यू), 11 मई 2005/04 नवम्बर 2004 *

हवलदार कुलविन्दर सिंह (सं. 3382560एक्स अब जेसी-268181वाई),
 28 अप्रैल 2005/30 नवम्बर 2004 *

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 14473425एल अब जेसी-268182एफ),
 12 मार्च 2005/01 दिसम्बर 2004 *

बी एच एम शिरोमनी सिंह (सं. 14362228एन अब जेसी-268183के),
 10 मई 2005/01 फरवरी 2005 *

आर एच एम बलविन्दर सिंह (सं. 14357538पी अब जेसी-
 268184एन), 15 अप्रैल 2005/02 फरवरी 2005 *

हवलदार दादला सहदेव (सं. 14474378एल अब जेसी-268185पी),
 29 मार्च 2005/16 फरवरी 2005 *

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 14487742एक्स अब जेसी-268186एक्स),
 02 अप्रैल 2005/22 फरवरी 2005 *

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14479352ए अब जेसी-268187ए),
 13 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005 *

हवलदार राम बहादुर (सं. 14469843एच अब जेसी-268188एच),
 26 मई 2005/08 मार्च 2005 *

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 15101346एक्स अब जेसी-268189एल),
 02 मई 2005/01 मई 2005 *

हवलदार शिव मुर्ति (सं. 14363952के अब जेसी-268190ए),
18 मई 2005/01 मई 2005 *

हवलदार हलाश्वर प्रसाद सिंह (सं. 15104518एम अब जेसी-
268191एच), 14 मई 2005

हवलदार मंगे राम (सं. 14356089वाई अब जेसी-268192एल) 16 मई
2005

हवलदार गुरुदास बैनर्जी (सं. 14403988एन अब जेसी-268193एन),
01 जून 2005

बी एच एम जगन्नाथन एम (सं. 14488715ए अब जेसी-268194डब्ल्यू),
01 जुलाई 2005

हवलदार राम कुमार भदोरीया (सं. 15103815एन अब जेसी-
268195वाई), 21 मार्च 2005/01 अक्टूबर 2004 *

हवलदार जोसेफ ए (सं. 14400284वाई अब जेसी-268196एफ),
08 जून 2005/ 01 अक्टूबर 2004 *

बी एच एम प्रेम कुमार (सं. 14476072एफ अब जेसी-268197के),
14 मई 2005/ 30 नवम्बर 2004 *

हवलदार मुनीम कुमार शर्मा (सं. 14484462वाई अब जेसी-
268198एम), 15 जून 2005/ 30 नवम्बर 2004 *

बी एच एम नन्द किशोर तिवारी (सं. 14480761ए अब जेसी-
268199पी), 31 मार्च 2005/ 01 जनवरी 2005 *

हवलदार अबु सैयद अलम (सं. 14487072एफ अब जेसी-
268200वाई), 21 मई 2005/ 01 जनवरी 2005 *

हवलदार विजेन्द्र सिंह कपालीया (सं. 15120045एच अब जेसी-
268201एफ), 08 जून 2005/ 01 फरवरी 2005 *

हवलदार उदे पाल सिंह (सं. 14381003ए अब जेसी-268202के),
13 अप्रैल 2005/ 21 फरवरी 2005 *

हवलदार अनगद कुमार यादव (सं. 14365887एन अब जेसी-
268203एम), 25 मई 2005/ 01 अप्रैल 2005 *

हवलदार एम डी येअर अली (सं. 14470678पी अब जेसी-268204पी),
07 जून 2005/ 01 अप्रैल 2005 *

हवलदार अभय सिंह यादव (सं. 14488062के अब जेसी-
268205एक्स), 17 जून 2005/ 01 मई 2005 *

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3382424एफ अब जेसी-268206ए),
24 मई 2005/ 01 मई 2005 *

हवलदार पिपल सिंह (सं. 14391809एन अब जेसी-268207एच),
16 मई 2005/ 01 मई 2005 *

आर एच एम विजय कुमार (सं. 14482882ए अब जेसी-268208एल),
01 जून 2005/ 08 मई 2005 *

आर एच एम नरसिंह कुमार शर्मा (सं. 14362668एफ अब जेसी-
268209एन), 09 जून 2005/ 11 मई 2005 *

बी एच एम मुरुकन वी (सं. 14370950एफ अब जेसी-268210एच),
01 जून 2005

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार मेजर संगीतकार

सूबेदार बीजोय कुमार (जेसी-641820वाई), 13 दिसम्बर 2004 *

*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी

सूबेदार भोजन व्यवस्थापक

नायब सूबेदार रबिन्द्र कुमार सिंह (जेसी-680233 के), 07 मई
2005 *

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 मई 2005 से दी जायेगी

नायब सूबेदार डी धन प्रसाद (जेसी-680234एम), 30 मई 2005 *

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 मई 2004 से दी जायेगी

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-680385एल), 11 जुलाई
2005 *

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 जून 2005 से दी जायेगी

नायब सूबेदार ईश्वरी प्रसाद (जेसी-680386एम), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार भोजन व्यवस्थापक

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-643076एल), 08 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार गौरव भौगुना (जेसी-643077एन), 08 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार अंकित ध्यानी (जेसी-643078डब्ल्यू), 08 सितम्बर
2004

नायब सूबेदार योगेन्द्र बी चंद (जेसी-643079वाई), 08 सितम्बर
2004

नायब सूबेदार नितिन जामवाल (जेसी-643080एन), 08 सितम्बर
2004

नायब सूबेदार रामनजीत सिंह काला (जेसी-643081डब्ल्यू),
08 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार हरिओम गोस्वामी (जेसी-643082वाई), 08 सितम्बर
2004

नायब सूबेदार विजय दुर्गपाल (जेसी-643083एफ), 08 सितम्बर
2004

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह गौड़ (जेसी-643084के), 08 सितम्बर
2004

नायब सूबेदार कांभले शिशिर सुधाकर (जेसी-643085एम),
08 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार लाडुतर्शा वसंतराव (जेसी-643086पी), 08 सितम्बर
2004

नायब सूबेदार गिनेश के कुरुप (जेसी-643087एक्स), 08 सितम्बर
2004

नायब सूबेदार मिथलेश कुमार रोहितास (जेसी-643088ए),
08 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार विनोद कुमार तितरिया (जेसी-643089एच), 08 सितम्बर
2004

पशु परिवहन

पक्के नायब रिसालदार के रैंक में (ए एस एच/ए टी)

दफादार राम कीर्त राम (सं. 6471964एक्स अब जेसी-680817पी),
07 जुलाई 2005

दफादार महेन्द्र पाल (सं. 6471979ए अब जेसी-680820पी),
01 जुलाई 2005

दफादार एम डी एन ए विश्वास (सं. 6476015पी अब जेसी-
680781एफ), 08 जुलाई 2005/23 अप्रैल 2005*

दफादार आर पी मिश्रा (सं. 6376879के अब जेसी-680804एक्स),
09 जुलाई 2005/01 जून 2005*

दफादार हीरा लाल (सं. 6471736पी अब जेसी-680783एम),
11 जुलाई 2005/01 मार्च 2005*

दफादार शीश राम (सं. 6476520एक्स अब जेसी-680780वाई),
29 जुलाई 2005/23 अप्रैल 2005*

दफादार शंकर लाल मीना (सं. 6472009के अब जेसी-680822ए),
01 अगस्त 2005

दफादार बिन्देश्वर प्रसाद (सं. 6472011एफ अब जेसी-680823एच),
01 अगस्त 2005

दफादार मन्नू सिंह (सं. 6472018एल अब जेसी-680824एल),
01 अगस्त 2005

दफादार श्याम करन यादव (सं. 6472052एल अब जेसी-
680826डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

दफादार जगत चंद्र बोरा (सं. 6377475एन अब जेसी-680827वाई),
01 अगस्त 2005

दफादार काबल सिंह (सं. 3381307के अब जेसी-680828एफ),
01 अगस्त 2005

पक्के रिसालदार मेजर के रैंक में *

रिसालदार राम सिंह (जेसी-680161एल), 18 जुलाई 2005/01 जुलाई
2005*

रिसालदार दुरगा राम खाती (जेसी-680165एफ), 03 अगस्त 2005/01
अगस्त 2005*

पक्के रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार नित्यानंद परिदा (जेसी-680580एच), 15 अगस्त
2005/01 जून 2005*

नायब रिसालदार मनी सिंघा (जेसी-680585एफ), 01 जुलाई 2005

नायब रिसालदार धरमवीर (जेसी-680582एन), 17 अगस्त 2005/01
जुलाई 2005*

नायब रिसालदार आदित्या कुमार रे (जेसी-680600एल), 10 अगस्त
2005/01 अगस्त 2005*

नायब रिसालदार शहबुद्दीन अहमद (जेसी-680588पी), 23 अगस्त
2005/01 अगस्त 2005*

*वेतन और भत्ते पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठा दी जाएगी।

एम. एम. सिंह
अवर सचिव

सं. 20, दिनांक 7 दिसम्बर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

नियमित सेना

क्वचित कोर

स्थायी रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार बलबीर सिंह (जेसी-239990डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01
अगस्त 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार विरेन्द्रा सिंह (जेसी-239505डब्ल्यू), 18 नवम्बर
2004*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार लोखडे बबन नामदेव राव (जेसी-238805एल),
06 अक्टूबर 2004*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कोप्पोलु राजा रत्नम (जेसी-238806एन), 01 अक्टूबर
2004

नायब रिसालदार पोहु लाल (जेसी-238808वाई), 01 अक्टूबर 2004

नायब रिसालदार एविवेकानन्थन (जेसी-238825वाई), 13 मई 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार उमेश प्रसाद राय (जेसी-238902एच), 06 फरवरी
2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्रबीर कुमार नन्दी (जेसी-238906वाई), 06 फरवरी
2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार उदय राम (जेसी-239731एन), 30 मई 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार धर्मपाल शर्मा (जेसी-239707एक्स), 10 मई 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजेश कुमार (जेसी-239880एफ), 20 अप्रैल 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार साहिब सिंह (जेसी-238343के), 01 मार्च 2005
 नायब रिसालदार सोमेन्द्र नाथ घोष (जेसी-240101ए), 25 मई 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मार्च 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बसन्त लाल (जेसी-238458एक्स), 01 अप्रैल 2005
 नायब रिसालदार रमेश सिंह (जेसी-238755एल), 21 मई 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार तरसेम सिंह (जेसी-238724एल), 29 मई 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार हसन सिंह (जेसी-239005वाई), 10 अप्रैल 2005

नायब रिसालदार जगदीश राज कटल (जेसी-239200डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार ससी वी वी (जेसी-239161एच), 02 जुलाई 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार देवेन्द्र पाल सिंह (जेसी-239504एन), 01 अप्रैल 2005

नायब रिसालदार राम लखन सिंह (जेसी-239782एफ), 09 मई 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्रेम रत्न (जेसी-239940एल), 01 अप्रैल 2005
 नायब रिसालदार खयाली राम (जेसी-239941एन), 01 अप्रैल 2005
 नायब रिसालदार राम सिंह (जेसी-240267एफ), 11 अप्रैल 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सरोज कुमार (जेसी-238536एल), 01 मई 2005
 नायब रिसालदार सत्य पाल सिंह (जेसी-239168एम), 09 मई 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दर्शन कुमार (जेसी-240385पी), 01 मई 2005
 नायब रिसालदार सुरज भान सिंह (जेसी-238720पी), 23 मई 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शंकर सिंह (जेसी-239528एक्स), 01 मई 2005
 नायब रिसालदार अमर नाथ झा (जेसी-239905एच), 21 मई 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार ग्यान सिंह (जेसी-240139के), 08 जून 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार भंवर लाल डुडी (जेसी-239755एक्स), 23 जून 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुरेश कुमार (जेसी-239745एन), 01 जून 2005
 नायब रिसालदार चौधरी लक्ष्मण उदे सिंह (जेसी-239468एन), 01 जून 2005

नायब रिसालदार शेर सिंह (जेसी-239809एन), 01 जून 2005
 नायब रिसालदार जगदीश चन्द (जेसी-239744एल), 17 जून 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अवतार सिंह (जेसी-240252वाई), 12 जुलाई 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार महेन्द्रा प्रताप सिंह (जेसी-239966ए), 02 जुलाई 2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार महावीर प्रसाद ओला (जेसी-239195डब्ल्यू), 04 जुलाई 2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार लश्कर सिंह (जेसी-239839एल), 25 जुलाई 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार महेन्द्रा सिंह (जेसी-239732डब्ल्यू), 13 जुलाई 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सी गोपाल (जेसी-239348पी), 01 जुलाई 2005 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कंचन कुमार चौधरी (जेसी-239350एम), 01 जुलाई 2005

नायब रिसालदार मदन लाल (जेसी-240046पी), 24 अगस्त 2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अहिवरन सिंह (जेसी-239975एफ), 02 जुलाई 2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जसबीर सिंह (जेसी-240014एम), 22 अगस्त 2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-239840ए), 03 अगस्त 2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार माला राम (जेसी-239952ए), 09 जुलाई 2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दर्शन कुमार (जेसी-240372एक्स), 28 जुलाई 2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार ईश्वर सिंह (जेसी-240020ए), 25 जुलाई 2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

राष्ट्रपति के अंगरक्षक

नायब रिसालदार के रैंक में दफादार रणवीर सिंह (सं. 13700399पी अब जेसी-235042पी), 01 अक्टूबर 2005

इन्फैंट्री

मैकानाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार धाडगे बालकृष्णा तुकाराम (जेसी-418367डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

सूबेदार सांगले यशवंत भानुदास (जेसी-418373के), 01 अगस्त 2005

सूबेदार गुलाब सिंह (जेसी-418207डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-419281के), 11 जुलाई 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दिना नाथ चौधरी (जेसी-419707ए), 08 जुलाई 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम फल (जेसी-419412के), 31 अगस्त 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह रावत (जेसी-419493पी), 30 जुलाई 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-419535डब्ल्यू), 26 अगस्त 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गुलबीर सिंह (जेसी-419536वाई), 11 अगस्त 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार तिलक बहादुर राणा (जेसी-419827वाई), 19 जुलाई 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार साहेब सिंह चौहान (जेसी-419519वाई), 05 अगस्त 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जून 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अजित सिंह (जेसी-418956एम), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार बच्चे सिंह (जेसी-419501एच), 14 जुलाई 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भंवर सिंह (जेसी-419502एल), 14 जुलाई 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-419413एम), 31 अगस्त 2005 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार नवले भरत किशन (जेसी-419457के), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार चव्हाण आनंदराव जगन्नाथ (जेसी-419459पी), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-419540एफ), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सदानंदा तामुली (जेसी-419883एक्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार (जेसी-419767पी), 01 सितम्बर 2005

जोस थोमस
अवर सचिव

सं. 21, दिनांक 9 दिसम्बर 2005—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने और अपना रैंक बनाए रखने की अनुमति देते हैं :—

प्रादेशिक सेना
सेवानिवृत्ति

कप्तान एस सी वर्मा (टीए-41807), इंजीनियर, 31 दिसम्बर 2004

बी. एक्का
अवर सचिव

विद्युत एवं यांत्रिकी इंजीनियरिंग कोर

सं. 22, दिनांक 7 दिसम्बर 2005—राष्ट्रपति, श्री यू. पी. भक्सा, सहायक कार्यपालक अभियंता को दिनांक 05 जुलाई 2004 (पूर्वाह्न) से ई.एम.ई. कोर, रक्षा मंत्रालय में कार्यपालक अभियंता के स्तर पर पदोन्नत करते हैं।

राष्ट्रपति, श्री जगदीश प्रसाद मालविया, कार्यपालक इंजीनियर को दिनांक 20 जून 2005 (पूर्वाह्न) से ई.एम.ई. कोर, रक्षा मंत्रालय में अधीक्षण इंजीनियर के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. कश्मीरा
अवर सचिव

(रक्षा उत्पादन विभाग)

सं. 23, दिनांक 9 दिसम्बर 2005—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

1. गु.आ.नि. (इंजीनियरी उपस्कर), पुणे के श्री जे. के. श्रीवास्तव, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 10 दिसम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
2. गु.आ.नि. (इंजीनियरी उपस्कर), पुणे के श्री एच. जी. जगरवाल, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 07 दिसम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
3. मु.गु.आ.स्था. (एन.एस.), मुम्बई के श्री एस.एल. बानिक, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का गु.आ.स्था. (धातु), राउरकेला में दिनांक 10 मई 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
4. मु.गु.आ.स्था. (एम.एस.), मुम्बई के श्री डी.के. तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II का मुख्यालय गु.आ.नि. (नैवल), नई दिल्ली में दिनांक 31 मई 2005 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
5. मु.गु.आ.स्था. (डब्ल्यू.ई.), मुम्बई के श्री रमेश चन्द्र, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का गु.आ.स्था. (युद्धपोत परियोजना), मुम्बई में दिनांक 21 अप्रैल 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
6. गु.आ.स्था. (सैन्य विस्फोटक), भंडारा के श्री उदय राम सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II का गु.आ.स्था. (सैन्य विस्फोटक), देहू रोड

में दिनांक 21 जून 2005 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।

7. नं. 3 एस.आर.आईडी., कोलकाता के श्री ए.के. गंगोपाध्याय, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II का व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), कोलकाता में दिनांक 29 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
8. मुख्यालय गुणता आश्वासन निदेशालय (भंडार), नई दिल्ली के श्री पी.के. शोम, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II का दिनांक 29 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
9. गु.आ.नि. (यंत्र), देहरादून के श्री जगमोहन सिंह, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 23 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।

सुभाष चंद
अवर सचिव

सं. 24, दिनांक 12 दिसम्बर 2005—थल सेना अनुदेश 37/78 व थल सेना अनुदेश 11/02 द्वारा उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

सर्जन लैफ्ट. कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

डी आर-10443पी (79041एन) नियामथुल्ला अज़ीजुद्दीन, 22 मई 2005

डी आर-10427एक्स (79061एच) एस एस भरथन, 25 मई 2005

परमजीत सिंह
लैफ्ट जनरल
ए डी जी डी एस

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

(स्थायी कमीशन)

सं. 25, दिनांक 13 दिसम्बर 2005—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम. एन. एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथियों से पदोन्नतियां करते हैं :—

मेजर से ले. कर्नल (टी एस)

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या पदोन्नतियों की तारीख

ले. कर्नल राधा चौफल (एन आर-18070एफ), 05 जून 2003

ले. कर्नल संध्या, वी एस एम (एन आर-18071के), 05 जून 2003

ले. कर्नल लैडली गांजू (एन आर-18073पी), 05 जून 2003

ले. कर्नल कुलदीप कौर (एन आर-18076एच), 05 जून 2003
 ले. कर्नल वानाजम्मा पी ए (एन आर-18083वाई), 05 जून 2003
 ले. कर्नल ग्रेसी पी एस (एन आर-18084एफ), 05 जून 2003
 ले. कर्नल रतना डे (एन आर-18088एक्स), 05 जून 2003
 ले. कर्नल शैल गौतम (एन आर-18056पी), 30 जनवरी 2004
 ले. कर्नल पी एस कुसुम कुमारी (एन आर-18058ए), 08 फरवरी 2004
 ले. कर्नल गिरली कुट्टी सी पी (एन आर-18066वाई), 30 अप्रैल 2004
 ले. कर्नल एफ जेससिंथा रोजलिन (एन आर-18067एफ), 30 अप्रैल 2004
 ले. कर्नल के वनाजी रानी (एन आर-17620एम), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल अनिता (एन आर-17640ए), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल शोभना कुमारी वी पी (एन आर-17644डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल पदमा कुमारी (एन आर-17645वाई), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल उमा सीरह (एन आर-17655एच), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल एन वी बेबी (एन आर-17671ए), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल मरीअम्मा पी के (एन आर-17689डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल पदमाकुमारी पी एन (एन आर-17692डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल एम घोष (एन आर-17715एम), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल एच वी गोमथी (एन आर-17722एच), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल अन्नम्मा वर्गीस (एन आर-17725डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल सबिथा रवि (एन आर-17734एक्स), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल ए मैथु (एन आर-17735ए), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल डी शीला (एन आर-17736एच), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल धुनशीला जैवियर (एन आर-17758एफ), 28 दिसम्बर 2002
 ले. कर्नल थनकम्मा ई एम (एन आर-17768एल), 28 दिसम्बर 2002
 राष्ट्रपति, इस अधिकारी के सम्मुख दर्शाई गई तारीख से पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

(लेफ्टिनेंट से कैप्टन)

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या पदोन्नति की तारीख

कैप्टन टी वी रेमा (एन आर-20522एक्स), 01 अप्रैल 2002

उषा सिकंदर
 मेजर जनरल
 ए डी जी एम एन एस

सं. 26, दिनांक 13 दिसम्बर 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ए एम सी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल के पद पर

ए सी एस बदवार (एम आर-06725डब्ल्यू) ए एम सी, 06 जुलाई 2005

मोहन लाल के (एम आर-06726वाई) ए एम सी, 20 जुलाई 2005

एच. के. गुप्ता (एम आर-07151एफ) ए एम सी, 13 जुलाई 2005

एस राधाकृष्णन (एम आर-06707एन) ए एम सी, 02 दिसम्बर 2004

संजय शिवपुरी (एम आर-06845पी) ए एम सी, 09 जुलाई 2005

शुभ्रलोक दास (एम आर-06724एन) ए एम सी, 22 जून 2005

सजीन्द्रन एम के (एम आर-07150वाई) ए एम सी, 26 जून 2005

मेजर के पद पर

श्री निवास दासरि (एम एस-13784एल) (एम आर-08205के) ए एम सी, 10 जुलाई 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18 सितम्बर 2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

फटिक चंद्र हांसदा (एम एस-13904वाई) (एम आर-08198वाई) ए एम सी, 01 नवम्बर 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18 सितम्बर 2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

सुमित कुमार दे (एम एस-13713के) (एम आर-08200एल) ए एम सी, 14 अप्रैल 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18 सितम्बर 2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राम कृष्ण सिंह (एम एस-13796एच) (एम आर-08204एफ) ए एम सी, 18 जुलाई 2001

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 जनवरी 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

अशोक कुमार (एम एस-13814एक्स) (एम आर-08087एफ) ए एम सी, 13 जुलाई 2003

कैप्टन से मेजर के पद पर

अजय जोशी (एम आर-08109पी) ए एम सी, 29 मई 2005

एम बी एस ग्रेवाल (एम आर-07358एफ) ए एम सी, 27 जून 2004

सर्जन लेफ्टि कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

एम हक (एम आर-06261के) (75491) ए एम सी, 12 दिसम्बर 2004

सर्जन लेफ्टि से सर्जन लेफ्टि कमांडर के पद पर

अनुपम कुमार (एम आर-07235पी) (75682) ए एम सी, 05 फरवरी 2004

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

एस दत्ता (एम आर-06405एफ) (20948) ए एम सी, 12 मई 2005
मनोज कुमार (एम आर-06431एच) (21990) ए एम सी, 13 मई 2005

जी केशवमूर्ति (एम आर-06410एम) (20949) ए एम सी, 22 जून 2005

(श्रीमती) स्टेलाबाई ज्यूलीइट इलामयी (एम आर-07440डब्ल्यू) (18181) ए एम सी, 14 जनवरी 2000

(श्रीमती) जे. एस. वागले (एम आर-07318ए) (20956) ए एम सी, 13 जुलाई 2005

एच. एस. त्रेहन (एम आर-06316एच) (21496) ए एम सी, 24 जुलाई 2005

ए सक्सेना (एम आर-06327पी) (21498) ए एम सी, 24 जुलाई 2005

के सुगंधी (एम आर-06708एच) (21681) ए एम सी, 11 दिसम्बर 2004

वी शर्मा (एम आर-06266एच) (21386) ए एम सी, 12 दिसम्बर 2004

ए के दाश (एम आर-06343एम) (21668) ए एम सी, 16 दिसम्बर 2004

फ्लाइट लेफ्टि से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

ए के गर्ग (एम आर-07464ए) (ए एफ-26040) ए एम सी, 13 जुलाई 2005

विक्रम त्रेहन (एम आर-07466एल) (ए एफ-26042) ए एम सी, 13 जुलाई 2005

(कु) रेशमी मोरे (एम आर-07477एक्स) (ए एफ-26044) ए एम सी, 13 जुलाई 2005

शिवानी महाजन (एम एस-13472पी) (एम आर-07933एक्स) (25566) ए एम सी, 01 फरवरी 2003

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर

उप डीजीएफएमएस (पर्स)

सं. 27, दिनांक 12 दिसम्बर 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आई सी सं., नाम, आर्म, सब्सटैंटिव तिथि

27317 जितेन्द्र सिंह, ए सी, 16 दिसम्बर 2004

30818 पी एस गिल, ए सी, 16 दिसम्बर 2004

30935 के क्रिसटोफर, ए सी, 16 दिसम्बर 2004

36016 एस सी अवस्थी, ए सी, 16 दिसम्बर 2004

34079 यू बी एस रानावत, ए सी, 16 दिसम्बर 2004

34345 टी एस कोहली, ए सी, 16 दिसम्बर 2004

35257 कमल मैनी, ए सी, 16 दिसम्बर 2004

30049 ए के चक्रवर्ती, ए डी ए, 16 दिसम्बर 2004

33787 आर वी के वारियर, ए डी ए, 16 दिसम्बर 2004

36310 शत्रुघ्न सिंह, ए डी ए, 16 दिसम्बर 2004

31749 आर एस यादव, ए डी ए, 16 दिसम्बर 2004

34435 बी पी पाटिल, ए डी ए, 16 दिसम्बर 2004

30611 दर्शन सिंह, ए ई सी, 16 दिसम्बर 2004

30947 प्रभात कुमार, ए ई सी, 16 दिसम्बर 2004

31983 पी सी पाथी, ए ई सी, 16 दिसम्बर 2004

35812 जे एम शर्मा, ए ई सी, 16 दिसम्बर 2004

25554 जूझर सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

27629 एस एस वर्मा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

33258 एल एस सुजलाना, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

30857 एस एस बार्डे, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

36601 राज कुमार, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

34221 डी राजा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

34236 प्रणव वैद्य, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

34580 बी बी जी बरुआ, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

36917 ए के शर्मा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

37043 जसवीर सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

35529 टी सैमसन, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

35735 आई एस मेंथारू, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

35775 एस के सुरेश, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

36430 वी के केहल, ए एस सी, 16 दिसम्बर 2004

37447 ए बी द्विवेदी ई एम ई, 16 दिसम्बर 2004	30110 जे एस मंगत इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
31978 बी आर के मूर्ती इन्जीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004	30563 सुरिन्दर कुमार इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
34661 आर ई कुलकर्णी इन्जीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004	35364 सरन कुमार इन्ट, 16 दिसम्बर 2004
34702 एस सुंदर इन्जीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004	27260 आर यादव इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
35900 एम एस मथारू इन्जीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004	34339 अरुण कुमार मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
38250 ए के दूबे इन्जीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004	36770 एच के पुंडीर इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
38636 एम एम कौल इन्जीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004	35608 टी के सिरकार मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
35551 प्रदीप भूयानी इन्जीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004	36726 आर पी राय मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
31771 आर लखनपाल गार्ड्स, 16 दिसम्बर 2004	37034 एस एस पटेल मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
25480 सी एम एनीलो इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	35795 ए के सिंह सिग्नल्स, 16 दिसम्बर 2004
30196 बी के घिलड़ियाल इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	36678 एस बी द्विवेदी ए ओ सी, 16 दिसम्बर 2004
33605 एम एन पी नायर इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	32873 मेहर सिंह इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
30699 ए के सिंह इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	30936 एन एस सिंह ए ओ सी, 16 दिसम्बर 2004
30907 निर्भय मरवाहा इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	31365 अविनाश चंद इडवाल मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
36075 बलविन्दर सिंह इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	31807 आर गायरौला इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
36335 डी डी शिन्दे इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	34027 ए के साहा ए ओ सी, 16 दिसम्बर 2004
36277 राजा शेखर इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	34320 आर पी श्रीवास्तव इन्जीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
36494 सी के मिश्रा इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	34863 बी भगवान प्रसाद इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
31405 पी के मजूमदार इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	35268 के के सिरकार इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
31900 बी जे कोहली इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	35280 एस एस राठौर इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
31690 बी के अरोरा इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	35802 चांद राम ए ई सी, 16 दिसम्बर 2004
36668 वरिन्दर सिंह इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	35918 अरविन्द भागरा ए सी, 09 जून 2005
34209 डी बी एस पठानिया इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	37346 ए के सूद आर्टी, 01 मई 2005
34516 बी के शर्मा इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	38003 धर्म वीर सिंह आर्टी, 09 जून 2005
36925 एन एस राय इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	38022 महेन्द्र राठौर आर्टी, 09 जून 2005
37025 एन एस दुग्गल इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	38059 एम के गुप्ता आर्टी, 09 जून 2005
37044 एस घिलड़ियाल इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	38100 एस एस लाथर मैक इन्फैन्ट्री, 09 जून 2005
37125 आर शर्मा इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	38106 धर्म नारायण आर्टी, 09 जून 2005
35311 बी पी भल्ला इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	38141 एस के शर्मा आर्टी, 09 जून 2005
35350 चरन जीत सिंह इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	38167 आर के गुप्ता आर्टी, 09 जून 2005
35278 एस डी रेडकर इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	39029 आर के सिंघाई ई एम ई, 16 दिसम्बर 2004
37256 आर एस मनराल इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	39805 सुल्तान सिंह मलिक ई एम ई, 13 जून 2005
37227 सुधीर चावला इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	
35582 पी एस सन्धू इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004	

अजय गोयल
उप निदेशक
एम एस-8ए

सं. 28, दिनांक 13 दिसम्बर 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
ले. से कैप्टन

आई सी सं., नाम, आर्म

62957 राज सिंह दुहन, ई एम ई

62958 अजीत खत्री, ई एम ई

62959 एन्टोनी जोसफ, ए डी ए

62960 कपिल खनदूरी, मैक इन्फैन्ट्री

62961 रितेश राम निवास लड्डा, इन्फैन्ट्री

62962 निखिल भारद्वाज, ए सी

62964 विनायक, इन्फैन्ट्री

62965 दमनजीत सिंह विक, ए ओ सी

62966 राकेश टोकस, इन्फैन्ट्री

62967 विकास मलिक, ए एस सी

62968 मानस नायर, आर्टिलरी

62969 अनिल के, इन्फैन्ट्री

62970 प्रदीप कुमार, इन्फैन्ट्री

62971 मोहित साही, आर्टिलरी

62972 बेनजी जार्ज थोमस, इन्फैन्ट्री

62973 करन भटिया, इन्फैन्ट्री

62974 नरेन्द्र पाल सिंह, ए ओ सी

62975 रनजीत सिंह पठानिया, ए सी

62976 रचित शर्मा, आर्टिलरी

62977 राहुल कनवर, ए एस सी

62978 राहुल वतस्यायान, आर्टिलरी

62979 प्रतीक शर्मा, इन्फैन्ट्री

62980 गौरव सिंह, ए सी

62981 विनोद कुमार एस रचनाकर, सिगनल्स

62982 प्रशान्त कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

62983 रजनीश कुमार, इंजीनियर्स

62984 राहुल अग्रवाल, इन्फैन्ट्री

62985 के विजय आनंद, आर्टिलरी

62986 बिश्वास आर नामबियार, इन्फैन्ट्री

62987 निकित बिष्ट, इन्फैन्ट्री

62988 आर राघवन, इन्फैन्ट्री

62989 राजीव कुमार यादव, ए ओ सी

62990 पारस रेहनी, इंजीनियर्स

62991 तरुनदरा प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री

62992 विवेक महाजन, मैक इन्फैन्ट्री

62993 साकेत रावत, मैक इन्फैन्ट्री

62994 श्री राघवेन्द्रा प्रभु बी, आर्टिलरी

62995 ऋषि शर्मा, ए ओ सी

62996 सुनील कुमार, आर्टिलरी

62997 विजय कुमार थापा, ए एस सी

62998 शिवम, आर्टिलरी

62999 बिनसुमैथ्यु चेरियन, ए एस सी

63000 राजेश कुमार भारद्वाज, ए डी ए

63001 रामीन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री

63002 शीशपाल सिंह रावत, मैक इन्फैन्ट्री

63003 प्रदीप शर्मा, इन्फैन्ट्री

63004 निखिल कपूर, ए डी ए

63005 राकेश कुमार सिंह, आर्टिलरी

63006 राम कुमार सिंह, आर्टिलरी

63007 अंकित सूद, इन्फैन्ट्री

63008 नीरज मारवाह, ए सी

63009 कमलेश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

63010 बिनय कुमार, इन्फैन्ट्री

63011 संजय बिष्ट, इन्फैन्ट्री

63012 बिनीत कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

63013 अतुल उत्तमराव गारजे, आर्टिलरी

63014 योगेन्द्र दत्त शर्मा, इन्फैन्ट्री

63015 विवेक एलवाकुन नाथ, आर्टिलरी

63016 अमित सैनी, इन्फैन्ट्री

63017 अशीष कुमार, इन्फैन्ट्री

63018 आशीष आनंद अभयानकर, आर्टिलरी

63019 ऋषि केश शर्मा, ए ओ सी

63020 अनुराग तलवार, इंजीनियर्स

63021 सुमित धागत, सिगनल्स

63022 आशुतोष कुमार सिंह, ए एस सी	63056 गोपाल अर्जयाल, मैक इन्फैन्ट्री
63023 लागे शीरिंग लेपचा, इन्फैन्ट्री	63057 सुदीप घातक, इन्फैन्ट्री
63024 रवि रंजन, आर्टि	63058 ध्रुव रहेजा, ए सी
63025 अभिशेक भारती, ए डी ए	63059 विपुल गुप्ता, आर्टि
63026 गजेन्द्र कुमार, ए ओ सी	63060 अदितिया पुरी, इंजीनियर्स
63027 अदितिया कपूर, आर्टि	63061 विनीत कुमार, ए सी
63028 विवेक सबरवाल, इन्फैन्ट्री	63062 विक्रम साधोतरा, इन्फैन्ट्री
63029 अरुण यादव, इन्फैन्ट्री	63063 मुकेश कुमार झा, इन्फैन्ट्री
63030 खुन्दरा कपाम जार्ज सिंह, ए ओ सी	63064 पियुष एस कातल, आर्टि
63031 अनुजॉय भौमिक, इन्फैन्ट्री	63065 सन्दीप राना, इन्फैन्ट्री
63032 आशुतोष सिंह, इन्फैन्ट्री	63066 सौरभ लहिरि, सिगनल्स
63033 तुषार सिंह तोमर, इन्फैन्ट्री	63067 अभित भटनागर, ए डी ए
63034 मोहित चौहान, इन्फैन्ट्री	63068 पंकज पाल, इन्फैन्ट्री
63035 आदर्श सिंह परिहार, इन्फैन्ट्री	63069 दीपक राना, इन्फैन्ट्री
63036 सारांश निगम, इन्फैन्ट्री	63070 पुनयाशलोक ब्रह्म, आर्टि
63037 कौशल भाटिया, इन्फैन्ट्री	63071 घाटेगे विशाल शिवाजी, इन्फैन्ट्री
63038 रजत सिंह जसवाल, ए सी	63072 महिपाल लाथर, इन्फैन्ट्री
63039 रवि शेखर मिश्रा, इन्फैन्ट्री	63073 विश्वनाथ प्रताप सिंह, आर्टि
63040 हिमांशु पाण्डे, ए एस सी	63074 गुरतेज सिंह, इन्फैन्ट्री
63041 प्रणय श्रीवास्तवा, इन्फैन्ट्री	63075 मनीइन्दर पाल, इन्फैन्ट्री
63042 जितेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, आर्टि	63076 नेत्रजीत चोंगथम, आर्टि
63043 रावे सिंह बाघल, इन्फैन्ट्री	63077 अमित कुमार सिहाग, इन्फैन्ट्री
63044 भावातोष दास, इन्फैन्ट्री	63078 विशाल दिवातागी, ए एस सी
63045 अशवनी जोशी, इन्फैन्ट्री	63079 गौरव वशिष्ठ, आर्टि
63046 प्रवीन जाखर, इन्फैन्ट्री	63080 थोमस सेबसतियन, इन्फैन्ट्री
63047 लोकानाघाभ, आर्टि	63081 सुनील कुमार चौबे, इन्फैन्ट्री
63048 मेथ्यु चेरियन, आर्टि	63082 रत्नादीप दास, आर्टि
63049 गौरव किटचलू, इन्फैन्ट्री	63083 सौरभ वत्स, ए डी ए
63050 श्रीधर वी, आर्टि	63084 बन्दी प्रवीन अरुण, आर्टि
63051 जगप्रीत सिंह, ए सी	63085 जगदीश चन्द्र पंत, ए ओ सी
63052 राकेश कटोच, इन्फैन्ट्री	63086 निशांत अरविंद, आर्टि
63053 बिकरम दास, ए एस सी	63087 प्रशांत धयिया, ए एस सी
63054 आशीष रावत, इन्फैन्ट्री	63088 जोनाथन वरुण बेनजामिन, इन्फैन्ट्री
63055 सचिन जैन, ए डी ए	63089 सानन्द, इन्फैन्ट्री

63090 तरुन भासीन, इन्फैन्ट्री	63124 ध्रुव बोरा, इन्फैन्ट्री
63091 विक्रम प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री	63125 जे वुग माजन, इन्फैन्ट्री
63092 मोहित सिंह पठानिया, ए सी	63126 रितेश त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री
63093 रजत मिश्रा, ई एम ई	63127 अर्जुन मोहिन्ता, इण्ट
63094 सुमित कोहली, ए ओ सी	63128 मनवेन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
63095 रवि कुमार विजय कुमार विश्वनाथ, ए ओ सी	63129 पियुष कुमार शाह, आर्टिलरी
63096 विकास शुक्ला, आर्टि	63130 कृष्णा कपूर, इन्फैन्ट्री
63097 सुरिन्द्र कुमार, ए सी	63131 कुलविन्दर सिंह, ए सी
63098 हेमन्त कुमार शर्मा, आर्टि	63132 अनुप कुमार श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
63099 अभिषेक जाचरिया, इण्ट	63133 अनिल सिंह, ए एस सी
63100 पियुष भट्ट, इन्फैन्ट्री	63134 अभिषेक बामोला, इन्फैन्ट्री
63101 मोहवर सिंह ग्रेवाल, इन्फैन्ट्री	63135 राजेश चौधरी, आर्टिलरी
63102 अमित कुमार त्यागी, इन्फैन्ट्री	63136 विपलव त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री
63103 सुहल सिंह सलारिया, इन्फैन्ट्री	63137 शीशपाल सिंह, इन्फैन्ट्री
63104 बिमलेश कुमार, इन्फैन्ट्री	63138 अशोक कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
63105 सूरज भाटिया, ए एस सी	63139 पुनीत शर्मा, आर्टि
63106 के प्रताप सिंह, ए सी	63140 अभिषेक शर्मा, इन्फैन्ट्री
63107 चरण सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री	63141 प्रताप कुमार दास, ए डी ए
63108 अमित कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	63142 जसवीर सिंह घुमान, ई एम ई
63109 वी प्रेम कुमार, आर्टिलरी	63143 विष्णु कान्तावस्थी, ए ओ सी
63110 अनिन्दया चैटर्जी, इन्फैन्ट्री	63144 शान्तनु केन्नी, इन्फैन्ट्री
63111 रियान चक्रवर्ती, इन्फैन्ट्री	63145 प्रवीर के राय, ए ओ सी
63112 बिबेक चक्रवर्ती, इन्फैन्ट्री	63146 चेतन चौपड़ा, इन्फैन्ट्री
63113 सुमीत सिंह, इन्फैन्ट्री	63147 तरुण कत्याल, ए एस सी
63114 साकेत साहनी, इन्फैन्ट्री	63148 खुशवीर नन्दा, इन्फैन्ट्री
63115 राविन्द्र सिंह, आर्टि	63149 वरुण भासीन, इन्फैन्ट्री
63116 सुरेश एन, इंजीनियर्स	63150 हरदीप सिंह ओबेराय, आर्टि
63117 अभिषेक भारद्वाज, आर्टि	63151 शौओवीक भट्टाचार्य, सिगनल
63118 आशुतोष शर्मा, ए सी	63152 एन एम मनोज कुमार, ए ओ सी
63119 राकेश शर्मा, ए सी	63153 बीनू राज, इन्फैन्ट्री
63120 राजशेखर शर्मा, ए एस सी	63154 सी प्रसन्न, आर्टि
63121 पंकज कुमार उपाध्याय, ए एस सी	63155 गगन दीप सिंह कोहली, आर्टि
63122 आनंद मारिया चर्लिस, इन्फैन्ट्री	63156 चान्द समानी सिंह, इन्फैन्ट्री
63123 वरुण सरीन, ए डी ए	63157 सुधाकर द्विवेदी, इन्फैन्ट्री

63158 श्रीनिवास पार्थासारथी, आर्टिलरी	63192 पंकज ठाकुर, ए सी
63159 श्रीजीथ पी मेनन, इन्फैन्ट्री	63193 रंगानाथ पाटिल, आर्टिलरी
63160 सुमेश, इन्फैन्ट्री	63194 सुसमीत बैनर्जी, ए सी
63161 कपिल सैनी, ए एस सी	63195 देव वासूमाधव, इन्फैन्ट्री
63162 सौरभ मेहरोत्रा, इन्फैन्ट्री	63196 प्रयाग बिष्ट, इन्फैन्ट्री
63163 भारत सिंह पनवर, इन्फैन्ट्री	63197 ब्रिजेन्द्रा सिंह, इन्फैन्ट्री
63164 जसबिन्दर सिंह लाबाना, इन्फैन्ट्री	63198 गौतम आनंद, इन्फैन्ट्री
63165 महेन्द्रा कुमार तिवारी, इन्फैन्ट्री	63199 राजेश चन्द्र खजुरिया, एएससी
63166 अमित थाकूर, इन्फैन्ट्री	63200 अमन कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
63167 अंकूर मोहन, इन्फैन्ट्री	63201 यूनेश चौधरी, इन्फैन्ट्री
63168 शक्ति सिंह, इन्फैन्ट्री	63202 दिनेश सिंह, इन्फैन्ट्री
63169 जॉयदीप सरकार, आर्टिलरी	63203 विशाल शर्मा, इन्फैन्ट्री
63170 विवेक पनचोली, आर्टिलरी	63204 सुमित सचदेवा, एओसी
63171 आशीष अरुण देशपाण्डे, इन्फैन्ट्री	63205 सर्वप्रीत सिंह ककर, इन्फैन्ट्री
63172 सुनील कुमार, ए ओ सी	63206 असनाभ सिंह, आर्टी
63173 अनिल सोनाजीराव कादम, इन्फैन्ट्री	63207 जोशी हेमन्त मोहन लाल, इन्फैन्ट्री
63174 प्रतीक गुप्ता, आर्टिलरी	63208 विपुल यादव, इन्फैन्ट्री
63175 प्रकाश कुमार सिंह, आर्टिलरी	63209 मनीष शर्मा, एएससी
63176 अखिलेश कुमार, ए ओ सी	63210 मितुष राघव, इन्फैन्ट्री
63177 प्रशान्त सिंह खाती, इन्फैन्ट्री	63211 चिरोमीबुनो, इन्फैन्ट्री
63178 प्रीतीश, इन्फैन्ट्री	63212 गिरिश शेखर, इन्फैन्ट्री
63179 प्रमोद कुमार, इण्ट	63213 जावेद खान, एओसी
63180 दिवेश शाही, ए एस सी	63214 सी एन रामेश, एएससी
63181 चन्द्र प्रकाश शर्मा, ए डी ए	63215 अनूप प्रेवाल, आर्टी
63182 प्रशान्त जसरोतिया, ए सी	63216 प्रियंक शर्मा, इन्फैन्ट्री
63183 अक्षय जैन, आर्टिलरी	63217 चेतन कुमार, एडीए
63184 कपिल त्यागी, ए डी ए	63218 अरुण प्रकाश मोरिया, इन्फैन्ट्री
63185 एस सन्तोष, इन्फैन्ट्री	63219 विजय कुमार लामा, इन्फैन्ट्री
63186 सुयोग दावे, ए डी ए	63220 अय्यर अरुण राजन, इन्फैन्ट्री
63187 गौरव जय सिंह, इन्फैन्ट्री	63221 सिवा कुमार एम, इन्फैन्ट्री
63188 गिरिराज धारण, इन्फैन्ट्री	63222 सुमित कुमार चन्दल, एओसी
63189 आशुतोष झा, आर्टिलरी	63223 जयदीप सिंह, एसी
63190 संजीव कुमार राना, ए ओ सी	63224 नन्द किशोर प्रकाश, इन्फैन्ट्री
63191 शोना जार्ज, आर्टिलरी	63225 टी एम प्रवीन कुमार, आर्टी

63226 कुमार अभिषेक, इन्फैन्ट्री	63260 अनिल रानाकोटी, इंजीनियर्स
63227 नीतिन आर्य, पी, इष्ट	63261 अमित सिंह, ईएमई
63228 अभिषेक जूयाल, इन्फैन्ट्री	63262 शारंगपानी अपूर्व संजीव, ईएमई
63229 अक्षय दास, इन्फैन्ट्री	63263 विवेक यादव, इंजीनियर्स
63230 समीर शर्मा, एसी	63264 संदीप कुमार दास, सिग्नल्स
63231 राजेश कुमार, इंजीनियर्स	63265 सुराजीत सिन्हा राय, इंजीनियर्स
63232 मोहित गोर, सिग्नल्स	63266 सौरभ सूद, सिग्नल्स
63233 देबाशीश दास गुप्ता, आर्टी	63267 पिल्लई सुनील शंकर, इंजीनियर्स
63234 गगन सिंह, इंजीनियर्स	63268 आशीष आनंद, ईएमई
63235 प्रबल श्रीवास्तवा, सिग्नल्स	63269 मोहित गोगना, इंजीनियर्स
63236 योगेश मेहता, इंजीनियर्स	63270 अक्षय कपूर, सिग्नल्स
63237 आशुतोष कुमार, इंजीनियर्स	63271 राजेश उनी कृष्णन, इंजीनियर्स
63238 संजीव नरूला, ईएमई	63272 प्रणव मोहोत्रा, सिग्नल्स
63239 आशीष खत्री, इंजीनियर्स	63273 संजीव कुमार सिंह, ईएमई
63240 विपुल अग्रवाल, सिग्नल्स	63274 कालरा ऋषभ रविन्द्र, ईएमई
63241 रोहित, ईएमई	63275 अभिषेक अग्रवाल, इंजीनियर्स
63242 मनीष पाठक, इंजीनियर्स	63276 खेदकर ऋषिकेश अरुण, इंजीनियर्स
63243 साचेन सिंघल, इंजीनियर्स	
63244 गौरव सिंह, ईएमई	
63245 सामर सिर्रोही, सिग्नल्स	61387 के सिद्धार्थ नारायण, इंजीनियर्स
63246 सुमित प्रकाश गुप्ता, ईएमई	61499 प्रशान्त राना, इन्फैन्ट्री
63247 अरविन्द जादली, इंजीनियर्स	61543 एस रवि प्रकाश, आर्टी
63248 अभिनव कुमार चौधरी, ईएमई	61753 दलीप सिंह, इन्फैन्ट्री
63249 अधीश सिन्हा, ईएमई	61764 टी नित्यानन्द करून्या मुर्थी, ईएमई
63250 भविष्या कश्यप, सिग्नल्स	61897 अरविन्द राजहंस, इन्फैन्ट्री
63251 खुशलिन्द्रा त्यागी, ईएमई	62503 उदयराज कुलगुडे, इन्फैन्ट्री
63252 जयकृष्ण महासके, इंजीनियर्स	62574 शहनाज के, आर्टी
63253 तुमुसारा चन्द्रा, ईएमई	62642 नूती कुमार, इन्ट
63254 सुदीप मोहन रावत, इंजीनियर्स	62766 के सिजीन, इन्फैन्ट्री
63255 मनीष कोकल, सिग्नल्स	62819 आलोक कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
63256 चिनमाया मुन्ड, ईएमई	64285 शानजमो नगुली, सिग्नल्स
63257 विख्यात गर्ग, सिग्नल्स	64312 अभिमन्यु चीबा, इंजीनियर्स
63258 गौरव श्रीवास्तवा, सिग्नल्स	64357 बासमसेटी महेश मनोज, इंजीनियर्स
63259 अनिरुद्ध बोस, सिग्नल्स	

--14 जून 2005--

--16 दिसम्बर 2004--

50404 अनिरबन दत्ता, इन्फैन्ट्री	59069 मानव यादव, एसी
--08 जून 1996--	--11 दिसम्बर 2003--
54237 वैकटेश अरशद, एसी	60048 विनीत ओहरी, आईसी
--14 जनवरी 2000--	60057 प्रशान्त सक्सेना, आईसी
54359 शेन्डे कमलेश मानिकराव, इन्फैन्ट्री	60073 अभिशेक भारद्वाज, आईसी
--08 जून 2000--	--13 मई 2004--
55242 राकेश कृष्णन, इन्फैन्ट्री	60149 विवेक बहुगुना, एएससी
--14 जनवरी 2000--	60384 अमित बेनिवाल, एएससी
55431 कुलवीर गिल, ईएमई	--09 दिसम्बर 2004--
--26 अक्टूबर 1999--	60464 सचिन कुमार, ईएमई
55495 अभय सिंह देव, एसी	60468 ए सैलेश, एएससी
55496 गुरमोहिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री,	60489 निरीपेन्द्रा सिंह परमार, इन्फैन्ट्री
--26 अप्रैल 2001--	60497 सोमनाथ चक्रवर्ती, इन्फैन्ट्री
55694 एम डी शाहिद अहमद, इन्फैन्ट्री	--09 दिसम्बर 2004--
55708 भावे सूद, एओसी	60649 गेडाला किरन कुमार, इन्फैन्ट्री
55736 नबी अहमद, इन्फैन्ट्री	60695 अभय डोगरा, इंजीनियर्स
--24 अप्रैल 2001--	60710 राजीव रंजन, एएससी
55775 हरबिन्दर सिंह बेन्स, इन्फैन्ट्री	60727 प्रेमजी आनन्द जे.जे., इन्फैन्ट्री
55776 जीसस बेनिनो फरटाडो, आर्टी	60737 सतविन्दर जीत सिंह, इन्फैन्ट्री
--08 नवम्बर 2002--	60744 चन्द्रा मोली सिंह परमार, इन्फैन्ट्री
55989 आदर्श भन्डारी, इन्फैन्ट्री	60792 सिद्धार्थ नारायणन, आर्टी
--07 नवम्बर 2002--	60803 मनोज शर्मा, आर्टी
56070 रोहित श्रीवास्तवा, एएससी	60892 संदीप दहिया, एसी
56077 परवीन दहिया, एएससी	60929 शेखर रमेश मली, इन्फैन्ट्री
56082 बिभूति नाथ झा, आर्टी	60953 मुकेश चौहान, एएससी
--05 मई 2003--	60973 बालासुंदरम एन के, आर्टी
56231 परिमल भारती, आर्टी	61015 लोकेश बिष्ट, इन्फैन्ट्री
56272 असीम कुमार धीमन, इन्फैन्ट्री	61055 विक्रम मान, इन्फैन्ट्री
56285 सत्यार्थ राय, आर्टी	61080 बिक्रम जीत सिंह बंधवार, इन्फैन्ट्री
56291 गौतम शंकर गिरी, इन्फैन्ट्री	61120 हरमीत सिंह, इन्फैन्ट्री
56296 कीर्ति कुमार गोहिल, एडी आर्टी	--16 दिसम्बर 2004--
--06 नवम्बर 2003--	62192 सौरभ कुमार, आर्टी
57685 के एल रॉय, इन्फैन्ट्री	62344 श्रीराज निरंजन मानेकर, इन्फैन्ट्री
--06 दिसम्बर 2001--	62488 गोयल धर्मदत्त रामलाल, आईसी

62562 शशांक पांडे, इन्फैन्ट्री	60094 मनोज कुमार झा, ए एस सी
62942 जी कानन, आईसी	60111 सुरेन्द्र सिंह, आर्टी
62946 गिरीश कुमार सिंह डोड, आईसी	60134 सुदीपतो चाकी, आर्टी
62954 सौमयाब्रता धर, आईसी	60161 अमनदीप सिंह, ए एस सी
--16 दिसम्बर 2004--	60225 नरेश बनीआना, ए एस सी
00367 साधू राम भाकर, एएससी	60244 विवेक रहनी, ए एस सी
--16 दिसम्बर 2004--	60258 पंकज प्रकाश पांडे, ए एस सी
04545 रामदास जी एन, एस एल टोट	60311 समरीध छीब्वर, ए एस सी
04546 सत्या नारायण यादव, एसएलई/एम	60322 अजय नेगी, ए एस सी
--30 अप्रैल 2003--	60344 राजकुमार विजयकुमार विश्वनाथे, ए एस सी
60007 आर आर सुब्रामनयन, इंजीनियर्स	60364 प्रदीप कुमार, आर्टी
--14 जून 2002--	60367 अजीत सिंह, ए एस सी
58146 समिन्द्र मोर, आर्टी	60449 अलोक सिंह, ई एम ई
58300 कपिल बस्सी सीमा, इंजीनियर्स	60462 अविनाश भालचन्द्रा पदीयार, आर्टी
58345 पी सुमोद, ई एम ई	61189 राजेश बेंडा, ए ई सी
--12 दिसम्बर 2002--	61206 राजीव गुलेरिया, ए ई सी
61276 मनबीर सिंह, सिग्नल्स	61213 सहदेव सिंह रायजादा, ए ई सी
61310 मिसाल यशवन्त श्यामराव, ई एम ई	61216 दीपक सिंह, ए ई सी
--13 जून 2003--	61222 अभिषेक झा, ए ई सी
59150 रोहित शरन, ई एम ई	--09 दिसम्बर 2004--
59171 राजीव शंकर, ए एस सी	61294 निलेश शेशराव इंगले, ए ई सी
--11 दिसम्बर 2003--	61303 इन्दरजीत सिंह, ए ई सी
61988 राजीव कुमार सिंह, ई एम ई	61307 दीपक यादव, ए ई सी
--12 दिसम्बर 2003--	61308 विजय राना, ए ई सी
59660 अंकुश छीब्वर, ए एस सी	61324 नितेश राय, ए ई सी
59690 अर्जुन प्रताप सिंह छब्बा, आर्टी	61968 अमित डागर, ए ई सी
59731 शिदरामय्या एस पुजार, इंटर	61987 दीप सिंह महलावत, ए ई सी
59792 विशाल गौरव, ए एस सी	61994 सुशील कुमार चवान, ए ई सी
59840 प्रमोद कुमार, आर्टी	61999 अरविन्द कुमार नौटियाल, ए ई सी
59889 संकल्प पांडे, ए एस सी	62000 धीरेन्द्र कुमार, ए ई सी
59915 दीपक डोबरीयाल, ए एस सी	62467 प्रथमा पुलक त्रिपाठी, ए ई सी
59920 दीओसथली प्रशाद सुधीर, इंटर	--16 दिसम्बर 2004--
--10 जून 2004--	56173 राजपूत रविन्दर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
62470 रीतेश प्रभाकर, इंजीनियर्स	56174 प्रवीन कुमार, आर्टी
--11 जून 2004--	

56175 सुमीत कुमार, ए ओ सी	56212 अतुल सिंह, आर्टी
56176 भरत प्रसाद डी, ए डी आर्टी	56213 मोहित वैश्नव, ए सी
56177 ज्ञानी, ए ओ सी	56214 हरिश कुमार शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री
56178 मनेन्द्र बहादुर सिंह, इन्फैन्ट्री	56215 राजेश गुप्ता, ए डी आर्टी
56179 राघव सिंह, इन्फैन्ट्री	56216 राजेन्द्र भण्डारी, सिग्नल्स
56180 भवर् सिंह, इन्फैन्ट्री	56217 विशाल महाजन, आर्टी
56182 शुशान्त, ए सी	56218 बलवान सिंह, इन्फैन्ट्री
56183 सुमित मलिक, इन्फैन्ट्री	56219 विरेन्द्र तिवारी, इन्फैन्ट्री
56184 जी सिवा किरन कुमार, आर्टी	56220 विजय कुमार मिसरा, आर्टी
56185 राजेन्द्र सिंह रावत, इन्फैन्ट्री	56221 ललित कंसल, ए डी आर्टी
56187 बिरेन्द्र सिंह पलियाल, इन्फैन्ट्री	56222 जोगिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
56188 विक्रम खत्री, आर्टी	56223 चन्द्र पाल सिंह खाती, इन्फैन्ट्री
56189 परमिन्दर कुमार यादव, ई एम ई	56225 कुलदीप सिंह, ए एस सी
56190 अजय कुमार, ए डी आर्टी	56226 दाजी धोले एनथोनी, इन्फैन्ट्री
56191 नायर गिरिश उन्नी, ए एस सी	56227 अजय कुमार, ए डी आर्टी
56193 दिपिन्दर सिंह, ए सी	56228 जयन्त सिंह ढाका, सिग्नल्स
56194 अनुपम श्रीवास्तव, ए एस सी	56229 प्रवीन यादव, इन्फैन्ट्री
56195 मेहता आशुतोष प्रमोद कुमार, इन्फैन्ट्री	56230 सुशांत यादव, इन्फैन्ट्री
56196 जयदीप सिंह धुमान, मैक इन्फैन्ट्री	56232 हितेश आर के काला, आर्टी
56197 राकेश वर्मा, आर्टी	56233 सुरेश शुक्ला, आर्टी
56198 शिव शंकर मंडल, इंजीनियर्स	56234 बलेन्दु भूषण सिंह पुनडीर, ए एस सी
56199 संजय सिंह रोटेला, ए एस सी	56235 विकास तोमर, ई एम ई
56200 रोहित कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री	56236 हिरदे प्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री
56201 अमित मोहन शर्मा, इन्फैन्ट्री	56237 अक्षय साह, इन्फैन्ट्री
56202 विजय कुमार बख्शी, इन्फैन्ट्री	56238 लाल रमरूआता ओयनम, इन्फैन्ट्री
56203 विक्रम मेहता, इन्फैन्ट्री	56239 गगन हरजाई, ए सी
56204 शेटी नागराज जयाराम, आर्टी	56240 अजय कुमार धरवाल, ई एम ई
56205 रोशन वर्मा, इन्फैन्ट्री	56241 दीपक कुमार वशिष्ठ, इन्फैन्ट्री
56206 रमनीश पाल सिंह, इन्फैन्ट्री	56242 ऐवन्जोप सूरिंग, इन्फैन्ट्री
56207 अंगद कुमार राय, आर्टी	56243 राज कुमार चिब, इन्फैन्ट्री
56208 देसाई योगेश भरत, आर्टी	56244 ललित कश्यप, ए सी
56209 मोनीश सुब्बा, इन्फैन्ट्री	56245 मंदीप सिंह सेखन, इन्फैन्ट्री
56210 यजुवेन्दर सिंह यादव, इन्फैन्ट्री	56246 शत्रुघ्न सिंह, ए ओ सी
56211 संजय मुखर्जी, ए डी आर्टी	56248 केहर सिंह, इन्फैन्ट्री

56249 सिद्धार्थ एस सर्वे, इन्फैन्ट्री	56290 राजीव कुमार, ई एम ई
56250 जितेन्द्र खरका, मैक इन्फैन्ट्री	56292 चन्दर भान सिंह धनखर, आर्टी
56251 कुनाल एस सर्वे, इन्फैन्ट्री	56293 उमेश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
56252 राजीव द्विवेदी, ए एस सी	56294 अंकुर कुलिन आर्टी
56253 मनोज कुमार झा, आर्टी	56295 आदर्श प्रताप सिंह, आर्टी
56254 धीरज भीमवाल, आर्टी	56297 सोमजीत सेन गुप्ता, इन्फैन्ट्री
56255 नवीन कुमार सी, आर्टी	56298 के स्वामीनाथन, आर्टी
56258 जगदीश, ए एस सी	56299 सतपाल केसरी, इंजीनियर्स
56259 जितेन्द्र त्यागी, इन्फैन्ट्री	56300 ललित कुमार शर्मा, ए ओ सी
56260 विनय अलविन दत्त, आर्टी	56301 वी दीपक वेंकट रमईया, इन्फैन्ट्री
56261 मनमोहन सिंह, आर्टी	56302 उदय आदित्या मुखर्जी, आर्टी
56262 संकल्प कुमार, इन्फैन्ट्री	
56264 थॉमोपात्रिल कोस्तुम दत्ताजी राव, इन्फैन्ट्री	64279 सिरिपुरु सत्यानारायण, ई एम ई
56265 प्रखर उमाकान्त तिवारी, मैक इन्फैन्ट्री	64280 पाउखोलुन खोंगजाई, ई एम ई
56266 संजय एम धुले, इंजीनियर्स	64281 रणवीर ग्रेवाल, इंजीनियर्स
56267 रोहित ठाकुर, इन्फैन्ट्री	64282 ए सुहेल खान, सिग्नल्स
56268 नितिन सहाय, आर्टी	64283 जसविंदर सिंह, सिग्नल्स
56269 संजय सिंह, इन्फैन्ट्री	64284 मोरे अमोल, ई एम ई
56270 पंकज फोतेदार, इन्फैन्ट्री	64286 भास्कर सेन गुप्ता, ए डी आर्टी
56271 बादल मलिक, ए सी	64288 मुनीष सेठी, इंजीनियर्स
56273 निखिल पारीक, इंटर	64289 शशांक सिंह, इंजीनियर्स
56274 तुषार यादव, आर्टी	64290 धीरज गुप्ता, ई एम ई
56275 अरविन्द नैन, ए एस सी	64291 धीरज कुमार सिंह, ई एम ई
56277 सुभाशीश बैनर्जी, आर्टी	64292 सौरभ सेतिया, सिग्नल्स
56278 अमित यादव, ए डी आर्टी	64293 विक्रम सिंह, इंजीनियर्स
56279 समीर वर्मा, ए सी	64294 देवेन्द्रजीत चौहान, सिग्नल्स
56280 मनीष, आर्टी	64295 शैलेन्द्र पॉल बेक्टर, ई एम ई
56281 अंशुमान त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री	64297 सुशील कुमार सुभाष लावंड, ई एम ई
56282 आदित्या चौहान, इन्फैन्ट्री	64298 के सन्दीप, ई एम ई
56283 दीपक गौतम, ए एस सी	64299 विकास, आर्टी
56284 शशी धर एस, इन्फैन्ट्री	64300 परमजीत सिंह, आर्टी
56286 मयंक खरे, इन्फैन्ट्री	64301 नितिन नारायण घुले, इंजीनियर्स
56288 ज्योति प्रकाश, ए डी आर्टी	64302 जासर एस एम, इंजीनियर्स
56289 विष्णु शंकर, आर्टी	64304 मुहम्मद जबीउल्लाह, सिग्नल्स

--06 नवम्बर 2003--

64305 अनिन्दय राय, इंजीनियर्स	64341 सुनील कुमार उडीक, ई एम ई
64306 अभिषेक आचार्य, सिग्नल्स	64342 मुकेश भारद्वाज, इंजीनियर्स
64307 प्रभात देशवाल, सिग्नल्स	64343 पियुष पन्त, ई एम ई
64308 प्रशान्त, सिग्नल्स	64344 तिग्मांशु, इंजीनियर्स
64309 फुरैलात्पम देवकीनंदन शर्मा, सिग्नल्स	64345 शौविक सेन गुप्ता, इंजीनियर्स
64310 मैथ्यु एन थॉम्स, सिग्नल्स	64346 पिनाकी बनिक, ए सी
64311 आशीष ढींगरा, सिग्नल्स	64347 वकील कुंतल अशोक, इंजीनियर्स
64313 विशाल पाठक, इंजीनियर्स	64348 साई शंकर पी, सिग्नल्स
64314 अक्षय भटनागर, सिग्नल्स	64349 विक्रम तिवारी, सिग्नल्स
64315 सी मार्टीन ब्रिटो, आर्टी	64350 कौशलेन्द्र, एडी आर्टी
64316 भिडे केदार दत्तात्रेया, ई एम ई	64351 रितेश कुमार सिंह, इंजीनियर्स
64317 वांडेरे आशीष आनासो, ए डी आर्टी	64352 जसप्रीत सिंह, सिग्नल्स
64318 मेनन रंजीत अरविंदन, इंजीनियर्स	64353 अमित बिष्ट, आर्टी
64319 अक्षय कुमार सिंह, ई एम ई	64354 हरिहरन एम, ई एम ई
64321 अनुजय पट्टेरिया, ई एम ई	64355 माने अभय अशोक, इंजीनियर्स
64322 रोहित कादयान, इंजीनियर्स	64356 विनोद कुमार टोंपरे, इंजीनियर्स
64323 विवेक प्रकादयान, सिग्नल्स	64358 जुनियर भुतुम, इंजीनियर्स
64324 अभिमन्यु वर्मा, इंजीनियर्स	64359 सालुखे संजय बालकृष्ण, ई एम ई
64325 गोरे विशाल विश्वास, आर्टी	64360 अमित शर्मा, ई एम ई
64326 विराट मलिक, सिग्नल्स	64361 भुस्कर हेमचन्द्र पंजाबराव, इंजीनियर्स
64327 वेंकटेश सी, आर्टी	64362 चिपरिकर सचिन बापुसाहेब, ई एम ई
64328 ई मुरलीधरन, आर्टी	64363 रितंत्रा सिंह, ई एम ई
64329 शिवा कुमार, सिग्नल्स	64364 रनविजय सिंह, इंजीनियर्स
64330 पवार राहुल रमेश, ई एम ई	64365 नगेन्द्र शर्मा, ए सी
64331 मुनीष पाल सिंह, ई एम ई	64366 विमल शर्मा, ई एम ई
64332 भानदुर्गे ऑंकार चन्द्राकान्त, इंजीनियर्स	64367 इरफानखान, ई एम ई
64333 नितिन दुबे, इंजीनियर्स	64368 सखणन, इंजीनियर्स
64334 जोरावर सिंह, आर्टी	64369 प्रभज्योत सिंह तुर, ई एम ई
64335 विवेक कुमार सिंह, ई एम ई	64370 बाला सुब्रमनियन वी, ई एम ई
64336 अक्षय पाणिग्रही, ए सी	64371 आर श्रीधर, आर्टी
64337 शक्ति सिंह, आर्टी	64372 मैथ्यु चाको, सिग्नल्स
64338 गिजरे केतन सुरेश, आर्टी	64373 वरुण बंसल, ए सी
64339 गौरव मोहन, आर्टी	64374 पुंडकर श्याम कुमार रामभाऊ, आर्टी
64340 सचिव जैन, आर्टी	64375 सौरभ जागर, इंजीनियर्स

64376 राकेश यादव, इंजीनियर्स	संभारिकी शाखा
64377 विजय श्याम कस्तूरी, ई एम ई	एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में
64378 बारदेस्कर जीवन बास्तु, आर्टी	एस आर चिन्नी (रिटायर्ड) (12344) संभा, 01 मार्च 2004
64379 पियुष थापा, आर्टी	जे बी एस बोपाराय (13108) संभा, 01 नवम्बर 2004
64380 जसप्रीत सिंह मक्कड़, इण्ट	एस श्रीराम (13408) संभा, 01 नवम्बर 2004
64381 शिशिर पाण्डे, सिग्नल्स	ए मोहन्ती (13414) संभा, 01 मार्च 2005
64382 सोईबम लक्कीबोई सिंह, आर्टी	ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में
64383 सुभरो बनर्जी, इंजीनियर्स	जे एस औलख (15363) संभा, 01 सितम्बर 2004
64385 नवजोत सिंह संधू, ई एम ई	लेखा शाखा
64386 धापाडे भूपेन्द्र चन्द्रकिशोर, इंजीनियर्स	ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में
64388 मयंक जैन, आर्टी	सी बी सुब्रमण्यन (14982) लेखा, 01 सितम्बर 2005
64389 सुरेश कुमार रे, सिग्नल्स	मनजीत सिंह
64390 क्षितिज कुमार जैन, ए सी	उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)
64391 संतोष कुमार, ए डी आर्टी	-----
64392 शिशिर कुमार, ए सी	सेना शाखा
-----16 दिसम्बर 2004-----	सं. 30, दिनांक 13 दिसम्बर 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 04 दिसम्बर 2001 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--
स्थाई कमीशन (एस एल) लेफ्टिनेन्ट से कैप्टन	नियमित सेना
4740 राजबीर सिंह, टी इ ओ ए डी आर्टी	स्थायी कमीशन
-----05 जुलाई 2003-----	फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के पद पर
(वरीयता 14 जनवरी 2000 बिना वेतन एवं भत्तों के)	शिवानी महाजन (एम एस-13472पी) (एम आर-07933एक्स) (25566) ए एम सी, 01 फरवरी 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 25 अक्टूबर 2005 से हो जाएगी। इसमें -- के लिए दी गई -- को पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20 मई 2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)
अल्पकालीन सेवा कमीशन ले. से कप्तान	राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 27 अगस्त 2004 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--
00548 जुलीमोल के, इंट	नियमित सेना
-----07 मार्च 2004-----	स्थायी कमीशन
अजय गोयल	कप्तान के पद पर
उप निदेशक	
एम एस 8सी	

वायु शाखा	
सं. 29, दिनांक 12 दिसम्बर 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--	
भारतीय वायु सेना	
प्रशासनिक शाखा	
एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में	
पी जे जोसेफ (13223) प्रशा, 01 मई 2004	
	अशोक कुमार (एम एस-13814एक्स) (एम आर-08087एफ) ए एम सी, 13 जुलाई 1999 (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 31 मार्च 2001 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 22 मार्च 2005 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उक्त दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
कप्तान के पद पर

राम कृष्ण सिंह (एम एस-13796एच) (एम आर-08204एफ) ए एम सी, 18 जनवरी 2000 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 18 जुलाई 1997 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता (एम एस सर्जरी) के लिए दी गई 24 महीने तथा अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

श्रीनिवास दासरि (एम एस-13784एल) (एम आर-08205के) ए एम सी, 10 जुलाई 1999 (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 23 सितम्बर 2000 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

फटिक चंद्र हांसदा (एम एस-13904वाई) (एम आर-08198वाई) ए एम सी, 01 नवम्बर 1999 (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 05 जून 2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

सुमित कुमार दे (एम एस-13721के) (एम आर-08200एल) ए एम सी, 14 अक्टूबर 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 14 अप्रैल 1999 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 24 अप्रैल 2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

विजय सिंह कथाईत (एम एस-14304एच) (एम आर-08222के) ए एम सी, 20 फरवरी 2002 (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 04 अक्टूबर 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर
उप डीजीएफएमएस (पर्स)

थल सेना
शुद्धिपत्र

सं. 31, दिनांक 13 दिसम्बर 2005--भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ---दिनांक 15 अगस्त 98 शीर्षक "नियमित सेना" सेना चिकित्सा कोर (स्थायी कमीशन) उप शीर्षक मेजर से ले. कर्नल के पद पर में शुसिंगंधू मजुमदार (एम आर-05958एल) के नाम के सामने :--

के स्थान पर--26 दिसम्बर 97

पढ़ा जाए--26 दिसम्बर 97

(नोशनल ज्येष्ठता 30 मई 97 दे दी गई जो वेतन तथा भत्ते के लिए नहीं)

भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ---- दिनांक 07 जुलाई 90 शीर्षक "नियमित सेना" सेना चिकित्सा कोर (स्थायी कमीशन) उप शीर्षक कप्तान से मेजर के पद पर में शुसिंगंधू मजुमदार (एम आर-05958एल) के नाम के सामने :--

के स्थान पर--15 फरवरी 1989 ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 88

पढ़ा जाए--15 फरवरी 1989 ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 88

(नोशनल ज्येष्ठता 30 मई 88 दे दी गई जो वेतन तथा भत्ते के लिए नहीं)

भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ---- दिनांक 07 जुलाई 90 शीर्षक "नियमित सेना" सेना चिकित्सा कोर (स्थायी कमीशन) उप शीर्षक कप्तान के पद पर में शुसिंगंधू मजुमदार (एम आर-05958एल) के नाम के सामने :--

के स्थान पर--26 दिसम्बर 1983 ज्येष्ठता वेतन तथा पदोन्नति के लिए (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 6 माह की पूर्व ज्येष्ठता शामिल है। जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जायेगी, परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

पढ़ा जाए--26 दिसम्बर 1983 ज्येष्ठता वेतन तथा पदोन्नति के लिए (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 6 माह की पूर्व ज्येष्ठता शामिल है। जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जायेगी, परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी तथा (नोशनल ज्येष्ठता 30 मई 83 दे दी गई जो वेतन तथा भत्ते के लिए नहीं)

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर
उप डीजीएफएमएस (पर्स)

MINISTRY OF DEFENCE

ARMY BRANCH

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGINEERING

New Delhi, the 14th January 2006

No. 14, dated 7th December 2005.—The President is pleased to appoint Col (Retired) RL Makadia as Senior Workshop Officer (Now Executive Engineer) in the Corps of EME under the Ministry of Defence on re-employment basis with effect from 21 Jul 2005 (Forenoon).

The President is pleased to appoint Col (Retired) VK Tyagi as Senior Workshop Officer (Now Executive Engineer) in the Corps of EME under the Ministry of Defence on re-employment basis with effect from 04 Jul 2005 (Forenoon).

N. K. KASHMIRA
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 15, dated the 13th December 2005.—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Surg Sub Lt (On Prob)

Surg Sub Lt Rahul Naga (MR-08131A), AMC—21 Feb 2005

Surg Sub Lt Somnath Pan (MR-08132H), AMC—21 Feb 2005

Surg Sub Lt Rahul Tyagi (MR-08159A), AMC—21 Feb 2005

Surg Sub Lt Seerat Pal (MR-08160P), AMC—21 Feb 2005

Surg Sub Lt Tarun Pareek (MR-08161X), AMC—21 Feb 2005

Surg Sub Lt Kaushik Roy (MR-08166W), AMC—21 Feb 2005

Surg Sub Lt Abhishek Kumar Sharma (MR-08183W), AMC—21 Feb 2005

Surg Sub Lt Arun Gupta (MR-08184Y), AMC—21 Feb 2005

Surg Sub Lt Ramakant (MR-08185F), AMC—21 Feb 2005

Surg Sub Lt Sidharth Tyagi (MR-08186K), AMC—21 Feb 2005

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAfMS (Pers)

No. 16, dated the 13th December 2005.—The President is pleased to make the following appointments:—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f. 11 Jun 2005)

The undermentioned Gentlemen Cadets of 116 Regular Course (116 DE, 106 Ex NDA and 83 Ex ACC) are granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 11 Jun 2005 under the provision of SAI/4/S/74 (for DE, AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC).

IC No., Name and Arm/Service

IC-66811L Ashwani Sudyal, Inf

IC-66812N Bais Gurucharan Sheetal Chandra, Inf

IC-66813W Himanshu Awasthi, AC

IC-66814Y Udit Bhasker, Engrs

IC-66815F Raghendra Pratap Singh, Arty

IC-66816K Gaurav Gopinath, Engrs

IC-66817M Raviraj Balkrishna Nalawade, Inf

IC-66818P PL Raghawender, Inf

IC-66819X Santosh Kumar Yadav, Arty

IC-66820M Varun Rai, Inf

IC-66821P Manish Som, Inf

IC-66822X Abhishek Kumar Sharma, Arty

IC-66823A Ajay Kumar Gupta, Arty

IC-66824H Bhupendra Singh Gusain, inf

IC-66825L Ashutosh Pandey, Inf

IC-66826N Varun Soni, Inf

IC-66827W Jog Abhishek Suresh, Inf

IC-66828Y Pakala Venkat Mohan, AC

IC-66829F Ramani Rushikesh Vallabhbhai, Inf

IC-66830W Rakesh Singh Shishodia, Inf

IC-66831Y Gadgil Amit Anil, AAD

IC-66832F Prashant Poonia, Mech

IC-66833K Pankaj Kumar, Inf

IC-66834M Vivek Shahi, ASC

IC-66835P Patel Kalpeshkumar Babubhai, Inf

IC-66836X Prateek Roy, Inf

IC-66837A Siddharth Shah, Inf

IC-66838H Vishal Kumar Singh, Inf

IC-66839L Yash Pal Shyam, Inf

IC-66840A Santosh Pathak, Arty	IC-66879M Alok Tyagi, EME
IC-66841H Triloki Nath Prem, Inf	IC-66880F Jayant Narayanrao Mulgir, Arty
IC-66842L Akash Kumar, Inf	IC-66881K Shyam Charan Hembram, Inf
IC-66843N Piyush Kumar Verma, AC	IC-66882M Dalveer Singh, ASC
IC-66844W Sharath Nair, Arty	IC-66883P Yogeshwar Singh, Inf
IC-66845Y Satish Patil, Inf	IC-66884X Sumit Prem Bishnoi, Inf
IC-66846F Pradeep Singh Rathore, Arty	IC-66885A Amol Shankar Kalel, Inf
IC-66847K Hanumanthu Ganesh Kumar, AAD	IC-66886H Aditya Deo, Arty
IC-66848M Sahil Sharma, Engrs	IC-66887L Akash Ramakant Naik, Inf
IC-66849P Bhanu Pratap, Inf	IC-66888N Nand Gopal Yadav, Mech
IC-66850K Yagnyesh Narayan Tripathy, Sigs	IC-66889W Sitender Kumar, Inf
IC-66851M Soumyaranjan Mansingh, Int	IC-66890L Shiraz Anto, Inf
IC-66852P Shivesh Singh, Inf	IC-66891N Ankur Srivastava, AOC
IC-66853X Raghavendra Pratap Singh Solanki, AC	IC-66892W Lalit Chandra Kandpal, Inf
IC-66854A Sandeep Sharma, EME	IC-66893Y Jijo Jose, Arty
IC-66855H Raghvendra Mani Tripathi, Inf	IC-66894F Nitin Subhash Kaldate, Inf
IC-66856L Thagendra Bahadur Chhetri, Inf	IC-66895K Vinay Kumar, AOC
IC-66857N Deepak Tomar, Inf	IC-66896M Poshuk Ahluwalia, Mech
IC-66858W Vishal Sharma, Inf	IC-66897P Praveen Kumar Tripathi, EME
IC-66859Y Jitender Kumar, AC	IC-66898X Pranav Kumar, Inf
IC-66860N Apoorv Srivastava, AAD	IC-66899A Mohammed Asif Baig, Inf
IC-66861W Deshmukh Abhijit Laxmikant, Arty	IC-66900K Bishwajeet Mukut, Inf
IC-66862Y Munish Sharma, Inf	IC-66901M Madhur Verma, Arty
IC-66863F Ashesh, Inf	IC-66902P Bhupendra Kumar Giri, AAD
IC-66864K Sandeep Tyagi, Mech	IC-66903X Rajesh Joshi, Inf
IC-66865M Abhishek Chakrabarty, AAD	IC-66904A Adhiraj Singh, Int
IC-66866P Navneet Kumar Raj, AAD	IC-66905H Jagandeep Singh Malhotra, ASC
IC-66867X Chandra Shekhar Joshi, Inf	IC-66906L Sunil Kumar Barala, AC
IC-66868A Radhey Kant Yadav, AOC	IC-66907N Mithun, AAD
IC-66869H Manvendra Singh Rathore, AC	IC-66908W Kumar Anupam, Inf
IC-66870X Amit Kumar Yadav, Int	IC-66909Y Shoaib Ullah Khan, AOC
IC-66871A Amit Anand Guthe, Arty	IC-66910N Ankur Sharma, Inf
IC-66872H Abhinav Goel, Inf	IC-66911W Mayur Kohli, Sigs
IC-66873L Ankur Datta, Engrs	IC-66912Y Paramjot Singh Kant, AC
IC-66874N Kulbhushan Sambyal, Inf	IC-66913F Ravinder Singh, Arty
IC-66875W Prashant Mishra, Inf	IC-66914K Subhodeep Ghosh, Inf
IC-66876Y Harmit Singh, Inf	IC-66915M Anup Pathania, Inf
IC-66877F Pankaj Pant, Inf	IC-66917X Parth Verma, Inf
IC-66878K Vineet Dalal, Inf	IC-66918A Anurag Panwar, Inf

IC-66919H Abhishek Chauhan, Arty	IC-66958F Sanjay Kumar Saket, Arty
IC-66920X Bendang Toshi, Inf	IC-66959K Sujeet Kumar, AAD
IC-66921A Patel Sanjaykumar Vijaybhai, Mech	IC-66960Y Arsh Deep, AOC
IC-66922H Nayanjit Sonowal, Inf	IC-66961F Shitiz Kumar, Inf
IC-66923L Amit Kumar Singh, Inf	IC-66962K Manu Joseph Chacko, AAD
IC-66924N Kshetrimayum John Singh, Inf	IC-66963M Bhavesh Kumar, Inf
IC-66925W Sayak Sen, Arty	IC-66964P Rohit Singh Lathwal, AAD
IC-66926Y Satinder Chandel, Arty	IC-66965X Mahajan Abhjit Sharad, Arty
IC-66927F Rakesh Madhav Birar, Inf	IC-66966A Sanath Kumar GC, Inf
IC-66928K Prakash Kr. Singh, Arty	IC-66967H Ajay Singh, Inf
IC-66929M Vineet Tewari, AOC	IC-66968L Kamaljeet Singh, Inf
IC-66930F Annam Lalit Kumar, EME	IC-66969N Kapil Bhat, Arty
IC-66931K Deepak Kumar Sharda, Inf	IC-66970H Piyush Nagarkoti, Inf
IC-66932M Rajeev, Inf	IC-66971L Kumar Nishant, ASC
IC-66933P Anuj Samaiya, Int	IC-66972N Ajay Singh, Inf
IC-66934X Ankon Dhar, EME	IC-66973W Deepak Kumar Deswal, Inf
IC-66935A Sarabjit, AAD	IC-66974Y Manoj Shinde, Inf
IC-66936H Vishwas Kumar Mishra, Inf	IC-66975F Pradipta Prateek Saha, AC
IC-66937L Kanishk Chauhan, Inf	IC-66976K Sheoraj Singh Khola, ASC
IC-66938N Mrigank Mehrotra, AC	IC-66977M Sandadi Adithya, AAD
IC-66939W Rajan Chhikara, ASC	IC-66978P Ravi Kumar Pandey, Inf
IC-66940L Upkar Singh Rai, ASC	IC-66979X Sanjay Kumar, AOC
IC-66941N Pankaj Phougat, ASC	IC-66980M Anuj Narwal, Arty
IC-66942W Gaurav Pratap Singh, AOC	IC-66981P Rakesh Verma, AC
IC-66943Y Rupender Singh Jasrotia, Arty	IC-66982X Abhishek Kumar Sinha, Inf
IC-66944F Karan Sandhu, Inf	IC-66983A Arun Kumar Panda, Inf
IC-66945K Utkarsh Rastogi, Mech	IC-66984H Iyer Shivkumar Natarajan, ASC
✓ IC-66946M Sunil Kumar Hooda, AOC	IC-66985L Neeraj Kumar
IC-66947P Aashish Ashta, Inf	IC-66986N Govinda Prasad Upadhyay, Inf
IC-66948X Vikas Haribhau Magar, Arty	IC-66987W Haider Ali, ASC
IC-66949A Rakesh Singh Rawat, Inf	IC-66988Y Rampareet Singh Vasan, Int
IC-66950P Mayank Parashar, EME	IC-66989F Deepak Rana, AAD
IC-66951X Arun Kaushik, ASC	IC-66990W Sandeep Kumar, EME
IC-66952A Bipin Singh Negi, Inf	IC-66991Y Pinto Nigel Rowland, Inf
IC-66953H Mukesh Kumar, Arty	IC-66992F Deepak Mishra, Arty
IC-66954L Bhartendu Sati, ASC	IC-66993K Nitin Atulkar, Int
IC-66955N Sayyappa Vishwanath, Inf	IC-66994M Shailendra Kumar Thapliyal, Inf
IC-66956W Nishil Agarwal, Int	IC-66995P Rahul Bisht, Inf
IC-66957Y Penki Kishore Kumar, Arty	IC-66996X Rakesh Kadam, Arty

IC-66997A Sameer Dixit, Inf	IC-67037N Gurphej Singh, AC
IC-66998H Siddharath Rawat, Inf	IC-67038W Amit Kumar, Int
IC-66999L M Jitendra Yadav, Inf	IC-67039Y Ritesh Punia, Mech
IC-67000M Deepak Kumar, Inf	IC-67040N Neelandra Rathore, Inf
IC-67001P Prem Prakash Sharma, Inf	IC-67041W Amitesh Kashyap, Arty
IC-67002X Hanmant Shrimant Makane, ASC	IC-67042Y Vijay Goyat, Inf
IC-67003A Brajendra Singh Bora, Inf	IC-67043F Saurabh Tripathi, Int
IC-67004H Puneet Kumar, Inf	IC-67044K Gokhale Sushant Anand, Inf
IC-67005L Virendra Chandra Tewari, Mech	IC-67045M G Rajarajan, Inf
IC-67006N Ravi Chauhan, AOC	IC-67046P Atul Arora, Inf
IC-67007W Okram Jilangamba Singh, AAD	IC-67047X Rahul Singh, Inf
IC-67008Y Alok Babu, Inf	IC-67048A Gaurav S Yewalakar, Inf
IC-67009F Rahul Sharma, Arty	IC-67049H Siddharath Rawat, AAD
IC-67010W Syed Safaque Alam, AAD	IC-67050X Chinmaya Asthana, Inf
IC-67011Y Priyank Priyadarshi, Inf	IC-67051A Amandeep Singh, ASC
IC-67012F Harinder Singh Grover, ASC	IC-67052H Vaibhav, Mech
IC-67013K Ashish Chaudhary, ASC	IC-67053L Aditya Jamwal, Inf
IC-67014M Snigdhatanu Dey, Arty	IC-67054N Vimal Sachdeva, Arty
IC-67015P Amarjeet Singh, Inf	IC-67055W Sandeep Babu, Arty
IC-67016X Uday Bhanu Pratap Singh Rathore, Inf	IC-67056Y Udit Chawla, Arty
IC-67017A Jai Singh Shekhawat, Inf	IC-67057F Dharendra Kumar Singh, Inf
IC-67018H Aritra Arijit Banerjee, AOC	IC-67058K Mukesh Prasad, ASC
IC-67019L Sunil Kumar, Inf	IC-67059M Sanat Kumar, Inf
IC-67020A Saurabh Punj, Inf	IC-67060F Emmanuel Praveen Jaichand, Inf
IC-67021H Aditya Aery, AOC	IC-67061K Alok Anand, Inf
IC-67022L Ujjwal Abhishek, Int	IC-67062M Gaurav Sajwan, Engrs
IC-67023N Pradeep Karan Rathore, Inf	IC-67063P Vineet Kumar, Inf
IC-67024W Thongam Motilal, ASC	IC-67064X Chudasama Vikramsinh Sukhdevsinh, ASC
IC-67025Y Vijay Singh, Engrs	IC-67065A Yadav Devang Indu Prakash, Inf
IC-67026F Mukesh Prasad, Arty	IC-67066H Rahul Chawla, ASC
IC-67027K Akhil Chaloo, Inf	IC-67067L Dushyant Tanwar, Inf
IC-67028M Manpreet Singh, Inf	IC-67068N Rishi Khanna, Inf
IC-67029P Avigyan Samanta, Inf	IC-67069W Sreekumar Venugopal, Inf
IC-67030K Shantanu Debnath, AAD	IC-67070L Subrat Kumar Samal, Arty
IC-67031M Ravindra Shantaram Kokane, ASC	IC-67071N Nand Kishore Rana, Inf
IC-67032P Baljeet Singh, AC	IC-67072W Anand C, AAD
IC-67033X Kunal Bhalla, AOC	IC-67073Y Suraj Mandal, Inf
IC-67034A Jithesh P, Inf	IC-67074F Neeraj French, Int
IC-67036L Arindam Ghose, Arty	IC-67075K Deepak Bakshi, AAD

IC-67076M Sandeep Sangwan, Inf	IC-67116H Digvijay Singh Kushwah, Arty
IC-67077P Anil Kumar Punia, AC	IC-67117L Gaurav Shah, AOC
IC-67078X Gaurang Jain, Inf	IC-67118N Parth Sinha, AAD
IC-67079A Vinod Singh, Arty	IC-67119W Mayank Pande, Arty
IC-67080P Girish Agnihotri, Mech	IC-67120L Gurneet Singh Dhillon, EME
IC-67081X S Satish Kumar, ASC	IC-67121N Anuj Sah, AC
IC-67082A Gaurav Gupta, ASC	IC-67122W Rajneesh Tiwari, Int
IC-67083H Santanu Dhar, Arty	IC-67123Y Abhinav Sharma, AOC
IC-67084L Ravi Negi, Inf	IC-67124F Rakesh Kumar, Inf
IC-67085N Kalra Sachin Mahendar, Inf	IC-67125K Abhinav Pratap Singh, Engrs
IC-67086W Dhrupad Banerjee, Inf	IC-67126M Amit Ojha, Inf
IC-67087Y Sree Nath Nambiar, AOC	IC-67127P Arnav Bansal, Inf
IC-67088F Sudarshana N Kasabe, Inf	IC-67128X Vikramjit Singh, Arty
IC-67089K Abhishek Bhargava, AAD	IC-67129A Saurabh Chaudhary, Inf
IC-67090Y Chinche Akash Arun, Inf	IC-67130P Ganguli Rajottam, AC
IC-67091F Pushpendra Mishra, Inf	IC-67131X Rishi Mehrotra, Mech
IC-67092K Kim Praag, ASC	IC-67132A Ashish Bhardwaj, Inf
IC-67093M Deepak Sharma, Arty	IC-67133H Vinay Kr Jha, Inf
IC-67094P Vineeth J Mani, Inf	IC-67134L Hirender Singh, AAD
IC-67095X Amit Singh, Inf	IC-67135N Ashutosh Bhadoria, ASC
IC-67096A Kamaljit Singh, Inf	IC-67136W Avish Mathur, AC
IC-67097H Rakesh Tiwari, Inf	IC-67137Y Animesh Bhadola, Inf
IC-67098L Parveen Kumar, EME	IC-67138F Inder Singh, Inf
IC-67099N Suryakant Kandwal, AOC	IC-67139K Shantanu Singh Bhandari, Inf
IC-67100X Avinash Singh Kachhwah, ASC	IC-67140Y Sachin Talwar, Arty
IC-67101A Anoop Kumar Sharma, Inf	IC-67141F Badal Kumar Dash, AAD
IC-67102H Biswa Biplab Biswal, AAD	IC-67142K Pradeep Mehra, Inf
IC-67103L Mullu Vijay Mohan, Mech	IC-67143M Badave Suhas Shrikrishna, Inf
IC-67104N Satyender Mani Tripathi, AAD	IC-67144P Rahul Singh, Inf
IC-67105W Harjinder Singh, Arty	IC-67145X Philips Thomas, Int
IC-67106Y Priyank Chaudhry, AOC	IC-67146A Debdeep Gangopadhyay, Inf
IC-67107F Sunil Kumar Muruni, Arty	IC-67147H Ankur Tiwari, Arty
IC-67108K Brajesh Singh, Inf	IC-67148L Karthik Kumar S, AC
IC-67109M Wahengbam Dharmendra Singh, Mech	IC-67149N Arun Kumar, Inf
IC-67110F Aashraya Trivedi, Sigs	IC-67150H Nikunj Sirohi, AOC
IC-67111K Bhupendra Kumar Shahi, Inf	IC-67151L Gurpreet Singh, AOC
IC-67112M Pankeshkumar Vasantrao Bagul, ASC	IC-67152N Rajesh Kumar Semwal, Arty
IC-67113P Saurabh Arora, Int	IC-67153W Ankur Sharma, Arty
IC-67114X Imran Khan, AOC	IC-67154Y Ajay Singh Shekhawat, Inf
IC-67115A A G Danni Swittens, AC	IC-67155F Virender Singh Danu, Inf

IC-67156K Prashant Kumar Sinha, Arty
 IC-67157M Anubhav Mohan Shukla, Inf
 IC-67158P Kshatriya Anandkrishna Birbikram, Inf
 IC-67159X N Dinesh, Inf
 IC-67160M Kamaljit Singh, ASC
 IC-67161P Sarajit Roy, Sigs
 IC-67162X Karan Mansotra, AC
 IC-67163A P L Srikanth, Arty
 IC-67164H Arvind Singh Yadav, Mech
 IC-67165L Parnayan Manna, EME
 IC-67166N Ashwani Kumar, Inf
 IC-67167W Shivam Aggarwal, Inf
 IC-67168Y Bahuguna Mittal, Inf
 IC-67169F Sukhwant Singh Sidhu, AOC
 IC-67170W Parminder Singh Pakhredia, Inf
 IC-67171Y Anuj Singh Judge, Inf
 IC-67172F Mayank Nanda, ASC
 IC-67173K Vinod Kumar Singh, Inf
 IC-67174M Jai Ram Singh, Inf
 IC-67175P Smeer Kalia, Arty
 IC-67176X Naik Vinay Raghunath, Inf
 IC-67177A Arjun Sharma, AOC
 IC-67178H Vettukallel Paul Varghese, Int
 IC-67179L Shaitan Singh Pathania, ASC
 IC-67180A Buddha Jyoti Kar, Mech
 IC-67181H Siladitya Bhattacharjee, Inf
 IC-67182L Shashank Deep, Inf
 IC-67183N Honey Pal Anand, Arty
 IC-67184W Rajneesh Gairola, Inf
 IC-67185Y Ravi Gurung, Inf
 IC-67186F Anil Dhiman, Arty
 IC-67187K Sandeep Sreedharan, Inf
 IC-67188M Ajesh Kumar, Inf
 IC-67189P Sudarshan Balaji R, AAD
 IC-67190K Deshpande Gautam Bharat, Int
 IC-67191M Abhik Mukherjee, Int
 IC-67192P Chandresh Pratap Singh, Engrs
 IC-67193X Alok Pratap Singh, EME
 IC-67194A Misquith Sheldon Savio, AAD
 IC-67195H Shardool Sabikhi, AC

IC-67196L Amandeep Singh Multani, Inf
 IC-67197N Rajesh Kumar, Inf
 IC-67198W Pramod Kumar Singh, Inf
 IC-67199Y Saurabh Yadav, AC
 IC-67200H Saurabh Sharma, Arty
 IC-67201L Dushyant D Pitroda, Arty
 IC-67202N Akhil Raj Singh, Inf
 IC-67203W Dipankar Gogoi, Engrs
 IC-67204Y Vikram Singh, Inf
 IC-67205F Vipin Kumar Singh, Inf
 IC-67206K Kapil Singh Shekhawat, AOC
 IC-67207M Kundan Kumar, Inf
 IC-67208P Mayank Poonia, AC
 IC-67209X Sudhir Singh Pawar, Arty
 IC-67210M Pratul Davin Singh, Arty
 IC-67211P Vivek Tripathi, Inf
 IC-67212X Abhilash Sati, Inf
 IC-67213A Vinod Negi, EME
 IC-67214H Amit Tewari, Inf
 IC-67215L Saurabh Suyal, AC
 IC-67216N Vaibhav Natu, Inf
 IC-67217W Ashish Kumar Pandey, AOC
 IC-67218Y Saurabh Shahi, Inf
 IC-67219F Aashish Kumar Sharma, Arty
 IC-67220W Saxena Nikhil Rajendra, AAD
 IC-67221Y Rajesh Kumar Singh Bisht, ASC
 IC-67222F Rameshwar Prasad Nanda, Int
 IC-67223K Viraj Semwal, AOC
 IC-67224M Rakesh Kumar Arya, Arty
 IC-67225P Sundeep Singh Malik, Inf
 IC-67226X Rajeev Pratap Singh, Inf

CHANDER SHEIKHAR
 Lt Col
 AMS-8B

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 17, dated the 12th December 2005.—The following appointments are made:—

Shri Ranbir Singh and Shri PN Reddy, Joint Directors of AFHQ Civil Service to be Directors in the Pay Scale of

Rs. 14300—18300/- in Directorate of Personnel, DRDO HQ on deputation basis for a period of two years wef 18 Nov 2005.

Shri Ashish Gour to be temporary Senior Administrative Officer Grade-I (Group 'A' Gazetted) in Defence Research and Development Organisation at INMAS, Delhi with effect from 20.01.2004 (AN) on probation for a period of one year in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/-.

Having qualified in the Limited Departmental Examination 2001 held in terms of Rule 8(a) of the DRDS Rules, 1979, Shri Nayini Venkat Reddy, STA, CCE (R&D), Secunderabad to be Scientist 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of two years with effect from 26.12.2001 in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/-.

Shri Soumen Murmu to be temporary Scientist 'B' (Group A) in the Defence Research & Development Service at ITR, Balasore on probation for a period of two years with effect from 11.07.2001 in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/-.

JK KHADWAL
Jt. Director (Pers-8)

(ARMY BRANCH)

No. 18, dated the 7th December 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

(REGULAR ARMY)

(ARMY MEDICAL CORPS)

To be Substantive Subedar (Nur Asstt)

- Nb Sub Shobha Ram (JC-693689F), 01 Oct 2004
- Nb Sub Swant Ramachandra Appa (JC-693690W), 01 Nov 2004
- Nb Sub Pritam Singh (JC-693818W), 01 Nov 2004
- Nb Sub Subal Krishna Saha (JC-693820N), 01 Nov 2004
- Nb Sub Ramvir Singh (JC-693886K), 01 Jan 2005
- Nb Sub Amusena Sinha (JC-694061L), 01 Jan 2005
- Nb Sub Suraj Kant Prasad Singh (JC-693583P), 06 Jan 2005
- Nb Sub Ashis Kumar Mandal (JC-693998K), 01 Feb 2005
- Nb Sub Chaitanya Charan Swain (JC-694000N), 01 Feb 2005
- Nb Sub Narottam Mohanty (JC-694065F), 01 Mar 2005
- Nb Sub Baldev Kishan (JC-694001W), 01 Mar 2005
- Nb Sub Dharam Bir Singh (JC-694002Y), 01 Mar 2005
- Nb Sub Naresh Chandra Ghildiyal (JC-694119X), 01 Apr 2005
- Nb Sub Dayananda TS (JC-694003F), 01 Apr 2005

Nb Sub Satya Nand Pal (JC-694004K), 01 Apr 2005

Nb Sub Chandar Mohan Singh Dobal (JC-694005M), 01 May 2005

Nb Sub Joy TK (JC-694066K), 09 Jun 2005

Nb Sub Devendra Singh Kshatriya (JC-694007X), 01 Aug 2005

Nb Sub Shesh Nath Kashyap (JC-694008A), 01 Aug 2005

Nb Sub Rattan Chand (JC-694009H), 01 Aug 2005

To be Substantive Subedar (Nur Tech)

Nb Sub R Lakshmana Kumar (JC-693731P), 01 Mar 2004

Nb Sub Sunil Kumar (JC-693741Y), 01 Mar 2005

Nb Sub Munna Singh Rawat (JC-693742F), 01 Mar 2005

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-693743K), 01 Mar 2005

Nb Sub Ram Naresh Yadav (JC-693744F), 01 May 2005

Nb Sub Viswanath (JC-693745P), 01 Mar 2005

To be Substantive Subedar Major (Ambulance Assistant)

Sub R Selvendran (JC-692374L), 01 Aug 2005

Sub Bhanwar Lal (JC-692701L), 01 Aug 2005

Sub Awadhesh Kumar Singh (JC-692382K), 01 Aug 2005

To be Substantive Subedar (Ambulance Assistant)

Nb Sub Bajinder Singh (JC-693900L), 01 Jun 2005

Nb Sub Mahesh Prasad Yadav (JC-693980H), 01 Jun 2005

Nb Sub Hawa Singh (JC-693982Y), 01 Jun 2005

Nb Sub K Mahendran (JC-693984K), 01 Jun 2005

Nb Sub Sivaraja Kurup P (JC-693985M), 01 Jun 2005

Nb Sub Amarjit Singh (JC-693987X), 01 Jun 2005

Nb Sub Gavde Hambir Rao Kishan (JC-693988A), 01 Jul 2005

Nb Sub Prem Chand Bhagat (JC-693989H), 01 Jul 2005

Nb Sub Prakash Chand (JC-694056A), 01 Jul 2005

Nb Sub Hawa Singh (JC-694057H), 01 Jul 2005

Nb Sub Jai Bhagwan (JC-693990X), 01 Aug 2005

Nb Sub A Chokkalingam (JC-694058L), 01 Aug 2005

Nb Sub Prasidh Narain Yadav (JC-694060H), 01 Aug 2005

Nb Sub Ram Bahadur Tamang (JC-694116K), 01 Aug 2005

Nb Sub Randhir Roy (JC-694117M), 01 Aug 2005

Nb Sub Nikhil Das (JC-694168A), 01 Aug 2005

Nb Sub Shri Ram Singh (JC-694169H), 01 Aug 2005

Nb Sub Ranvir Singh (JC-694172H), 01 Aug 2005
 Nb Sub Bhagwan Din (JC-694173L), 01 Aug 2005
 Nb Sub Nami Chandra Koli (JC-694202P), 01 Aug 2005
 Nb Sub Katyani Prasad Joshi (JC-694233P), 01 Aug 2005
 Nb Sub Rajpal Singh (JC-694234X), 01 Aug 2005
 Nb Sub Madan Mohan Prasad (JC-694273W), 01 Aug 2005
 Nb Sub Kausar Ali Khan (JC-694236H), 01 Aug 2005
 Nb Sub Bachitar Singh (JC-694237L), 01 Aug 2005
 Nb Sub Hawaldar Singh (JC-694274Y), 01 Aug 2005
 Nb Sub Ram Sarup (JC-694275F), 01 Sep 2005
 Nb Sub Muhammed Shaharoom Khan (JC-694310Y), 01 Sep 2005
 Nb Sub Baldev Raj (JC-694334H), 01 Sep 2005
 Nb Sub Jagmal Singh Rathore (JC-694318L), 01 Sep 2005
 Nb Sub Ram Prakash Vyas (JC-694321L), 01 Sep 2005

To be Substantive Subedar Driver (MT)

Nb Sub Puran Singh (JC-693111Y), 01 Sep 2005
 Nb Sub Selva Veeralah (JC-693112F), 01 Sep 2005
 Nb Sub Doman Singh (JC-693203L), 01 Sep 2005

R. C. RATURI
 Under Secy.

No. 19, dated the 8th December 2005.—The President is pleased to make the following promotion wef the date shown against their names:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lieut to be Substantive Capt

V-526M Capt SS Bhardwaj (RVC), 10.04.2001 but seniority in the rank wef 02.09.97

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

Hav Prahalad Dwivedi (14484894N now JC-268179M), 31 May 2005/01 Oct 2004*
 Hav Shaik Ameer Basha (15112857F now JC-268180W), 11 May 2005/04 Nov 2004*
 Hav Kulwinder Singh (33822560X now JC-268181Y), 28 Apr 2005/30 Nov 2004*

Hav Surendra Singh (14473425L now JC-268182F), 12 Mar 2005/01 Dec 2004*

BHM Shiromani Singh (14362228N now JC-268183K), 10 May 2005/01 Feb 2005*

RHM Balwinder Singh (14357538P now JC-268184M), 15 Apr 2005/02 Feb 2005*

Hav Dadala Sahadev (14474378L now JC-268185P), 29 Mar 2005/16 Feb 2005*

Hav Laxman Singh (14487742X now JC-268186X), 02 Apr 2005/22 Feb 2005*

Hav Vinod Kumar (14479352A now JC-268187A), 13 Apr 2005/01 Mar 2005*

Hav Ram Bahadur (14469843H now JC-268188H), 26 May 2005/08 Mar 2005*

Hav Jaspal Singh (15101346X now JC-268189L), 02 May 2005/01 May 2005*

Hav Shiv Murti (14363952K now JC-268190A), 18 May 2005/01 May 2005*

Hav Halashwar Prasad Singh (15104518M now JC-268191H), 14 May 2005

Hav Mange Ram (14356089Y now JC-268192L), 16 May 2005

Hav Gurudas Banerjee (14403988N now JC-268193N), 01 Jun 2005

BHM Jagannathan M (14488715A now JC-268194W), 01 Jul 2005

Hav Ram Kumar Bhadoriya (15103815N now JC-268195Y), 21 Mar 2005/01 Oct 2004*

Hav Joseph A (14400284Y now JC-268196F), 08 Jun 2005/01 Oct 2004*

BHM Prem Kumar (14476072F now JC-268197K), 14 May 2005/30 Nov 2004*

Hav Muneem Kumar Sharma (14484462Y now JC-268198M), 15 Jun 2005/30 Nov 2004*

BHM Nand Kishor Tiwari (14480761A now JC-268199P), 31 Mar 2005/01 Jan 2005*

Hav Abu Sayed Alam (14487072F now JC-268200Y), 21 May 2005/01 Jan 2005*

Hav Vijendra Singh (15120045H now JC-268201F), 08 Jun 2005/01 Feb 2005*

Hav Udey Pal Singh (14381003A now JC-268202K), 13 Apr 2005/21 Feb 2005*

Hav Angad Kumar Yadav (14365887N now JC-268203M), 25 May 2005/01 Apr 2005*

Hav Md Year Ali (14470678P now JC-268204P), 07 Jun 2005/01 Apr 2005*

Hav Abhai Singh Yadav (14488062K now JC-268205X), 17 Jun 2005/01 May 2005*

Hav Balbir Singh (3382424F now JC-268206A), 24 May 2005/01 May 2005*

Hav Pipal Singh (14391809H now JC-268207H), 16 May 2005/01 May 2005*

RHM Vijay Kumar (14482882A now JC-268208L), 01 Jun 2005/08 May 2005*

RHM Narsingh Kumar Sharma (14362668F now JC-268209N), 09 Jun 2005/11 May 2005*

BHM Murukan (14370950F now JC-268210H), 01 Jun 2005

*(Gtd seniority wef)

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

To be Subedar Major: Musician

Sub Bijoy Kumar (JC-641820Y), 13 Dec 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Major wef 01 Nov 2004 without effect on pay & allowances)

To be Subedar: Catering

Nb Sub Rabindra Kumar Singh (JC-680233K), 07 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances)

Nb Sub D Dhan Prasad (JC-680234M), 30 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Rajendra Prasad Singh (JC-680385L), 11 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ishwari Prasad (JC-680386M), 01 Aug 2005

To be Naib Subedar: Catering

Nb Sub Naresh Kumar (JC-643076L), 08 Sep 2004

Nb Sub Gaurav Bhauguna (JC-643077N), 08 Sep 2004

Nb Sub Ankit Dhyani (JC-643078W), 08 Sep 2004

Nb Sub Yogendra B Chand (JC-643079Y), 08 Sep 2004

Nb Sub Nitin Jamwal (JC-643080N), 08 Sep 2004

Nb Sub Ramanjit Singh Kala (JC-643081W), 08 Sep 2004

Nb Sub Hariom Goswamy (JC-643082Y), 08 Sep 2004

Nb Sub Vijay Durgapal (JC-643083F), 08 Sep 2004

Nb Sub Govind Singh Gour (JC-643084K), 08 Sep 2004

Nb Sub Kamble Shishir Sudhakar (JC-643085M), 08 Sep 2004

Nb Sub Ladutharsha Vasantrao (JC-643086P), 08 Sep 2004

Nb Sub Ginesh K Kurup (JC-643087X), 08 Sep 2004

Nb Sub Mithlesh Kumar Rohitas (JC-643088A), 08 Sep 2004

Nb Sub Vinod Kumar Titariya (JC-643089H), 08 Sep 2004

To be Substantive Naib Risaldar (ASH/AT)

Dfr Ram Krit Ram (No. 6471964X now JC-680817P), 01 Jul 2005

Dfr Mahendra Pal (No. 6471979A now JC-680820P), 01 Jul 2005

Dfr MDNA Biswas (No. 6476015P now JC-680781F), 08 Jul 2005/23 Apr 2005*

Dfr R P Mishra (No. 6376879K now JC-680804X), 09 Jul 2005/01 Jun 2005*

Dfr Hira Lal (No. 6471736P now JC-680783M), 11 Jul 2005/01 Mar 2005*

Dfr Shish Ram (No. 6476520X now JC-680780Y), 29 Jul 2005/23 Apr 2005*

Dfr Shankar Lal Meena (No. 6472009K now JC-680822A), 01 Aug 2005

Dfr Bindeshwar Prasad (No. 6472011F now JC-680823H), 01 Aug 2005

Dfr Mannu Singh (No. 6472018L now JC-680824L), 01 Aug 2005

Dfr Shyam Karan Yadav (No. 6472052L now JC-680826W), 01 Aug 2005

Dfr Jagat Chandra Borah (No. 6377475N now JC-680827Y), 01 Aug 2005

Dfr Kabal Singh (No. 3381307K now JC-680828F), 01 Aug 2005

To be Substantive Risaldar Major (ASH)

Ris Ram Singh (JC-680161L), 18 Jul 2005/01 Jul 2005*

Ris Durga Ram Khati (JC-680165F), 03 Aug 2005/01 Aug 2005*

To be Substantive Risaldar (ASH)

Nb Ris Nityanand Parida (JC-680580H), 15 Aug 2005/01 Jun 2005*

Nb Ris Mani Singha (JC-680585F), 01 Jul 2005

Nb Ris Dharamvir (JC-680582N), 17 Aug 2005/01 Jul 2005*

Nb Ris Aditya Kumar Ray (JC-680600L), 10 Aug 2005/01 Aug 2005*

Nb Ris Shahabuddin Ahmed (JC-680588P), 23 Aug 2005/
01 Aug 2005*

*(Gtd ante-date seniority without effect on pay and allces
wef).

M. M. SINGH
Under Secy.

No. 20, dated the 7th December 2005.—The President is
pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMOURED CORPS

(To be Substantive Risaldar)

Nb Ris Balbir Singh (JC-239990W), 28 Apr 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2004 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Virendra Singh (JC-239505W), 18 Nov 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2004 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Lokhanda Baban Namdev Rao (JC-238805L),
06 Oct 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2004 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Koppolu Raja Ratnam (JC-238806N), 01 Oct 2004

Nb Ris Pohn Lal (JC-238808Y), 01 Oct 2004

Nb Ris A Vivekananthan (JC-238825Y), 13 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Nov 2004 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Umesh Prasad Rai (JC-238902H), 06 Feb 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Prabir Kumar Nandy (JC-238906Y), 06 Feb 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Udai Ram (JC-239731N), 30 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Dharampal Sharma (JC-239707X), 10 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Rajesh Kumar (JC-239880F), 20 Apr 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Sahib Singh (JC-238343K), 01 Mar 2005

Nb Ris Somendra Nath Ghosh (JC-240101A), 25 May
2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 24 Mar 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Basant Lal (JC-238458X), 01 Apr 2005

Nb Ris Ramesh Singh (JC-238755L), 21 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Tarsem Singh (JC-238724L), 29 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Husan Singh (JC-239005Y), 01 Apr 2005

Nb Ris Jagdish Raj Katal (JC-239200W), 07 Apr 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Sasi VV (JC-239161H), 02 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Devendrapal Singh (JC-239504N), 01 Apr 2005

Nb Ris Ram Lakhani Singh (JC-239782F), 09 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Prem Rattan (JC-239940L), 01 Apr 2005

Nb Ris Khiali Ram (JC-239941N), 01 Apr 2005

Nb Ris Ram Singh (JC-240267F), 11 Apr 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Saroj Kumar (JC-238536L), 01 May 2005

Nb Ris Satya Pal Singh (JC-239168M), 09 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Darshan Kumar (JC-240385P), 01 May 2005

Nb Ris Suraj Bhan Singh (JC-238720P), 23 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Shankar Singh (JC-239528X), 01 May 2005

Nb Ris Amar Nath Jha (JC-239905H), 21 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Gian Singh (JC-240139K), 08 Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2005 without
effect on pay and allowances)

Nb Ris Bhanwar Lal Dudi (JC-239755X), 23 Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Suresh Kumar (JC-239745N), 01 Jun 2005

Nb Ris Choudhari Lakhman Ude Singh (JC-239468N), 01 Jun 2005

Nb Ris Sher Singh (JC-239809N), 01 Jun 2005

Nb Ris Jagdish Chand (JC-239744L), 17 Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Avtar Singh (JC-240252Y), 12 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mahendra Pratap Singh (JC-239966A), 02 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mahavir Prasad Ola (JC-239195W), 04 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Lashkar Singh (JC-239839L), 25 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mahendra Singh (JC-239732W), 13 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris C Gopal (JC-239348P), 01 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kanchan Kumar Choudhary (JC-239350M), 01 Jul 2005

Nb Ris Madan Lal (JC-240046P), 24 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ahivaran Singh (JC-239975F), 02 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jasbir Singh (JC-240014M), 22 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Surinder Singh (JC-239840A), 03 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mala Ram (JC-239952A), 09 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Darshan Kumar (JC-240372X), 28 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ishwar Singh (JC-240020A), 25 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

THE PRESIDENT'S BODYGUARD

To be Nb Ris (GD)

Dfr Ranveer Singh (No. 13700399P now JC-235042P), 01 Oct 2005

INFANTRY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Ghadge Balkrishna Tukaram (JC-418367W), 01 Aug 2005

Sub Sangle Yashwant Bhanudas (JC-418373K), 01 Aug 2005

Sub Gulab Singh (JC-418207W), 01 Sep 2005

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Balbir Singh (JC-419281K), 11 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dina Nath Choudhary (JC-419707A), 08 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Phal (JC-419412K), 31 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surender Singh Rawat (JC-419493P), 30 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Om Parkash (JC-419535W), 26 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gulbir Singh (JC-419536Y), 11 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Tilak Bahadur Rana (JC-419827Y), 19 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Saheb Singh Chauhan (JC-419519Y), 05 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 22 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ajit Singh (JC-418956M), 01 Jul 2005

Nb Sub Bache Singh (JC-419501H), 14 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar
wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Nh Sub Bhanwar Singh (JC-419502L), 14 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar
wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Kumar (JC-419413M), 31 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar
wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Navale Bharat Kishan (JC-419457K), 01 Aug 2005

Nb Sub Chavan Anandrao Jagannath (JC-419459P), 01
Aug 2005

Nb Sub Surendra Singh (JC-419540F), 01 Aug 2005

Nb Sub Sadananda Tamuli (JC-419883X), 01 Aug 2005

Nb Sub Narender Kumar (JC-419767P), 01 Sep 2005

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 21, dated the 9th December 2005.—The President is
pleased to permit the undermentioned officer to retire with
permission to retain his rank.

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Capt SC Verma (TA-41807), Engr—31 Dec 2004

B. EKKA
Under Secy.

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

No. 22, dated the 7th December 2005.—The President is
pleased to promote Shri UP Bhakta, Assistant Executive
Engineer to Executive Engineer in the Corps of EME under
Ministry of Defence with effect from 05 Jul 2004 (Forenoon).

The President is pleased to promote Shri Jagdish Prasad
Malviya, Executive Engineer to Superintending Engineer
in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect
from 20 Jun 2005 (Forenoon).

N. K. KASHMIRA
Under Secy.

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 23, dated the 9th December 2005.—The President is
pleased to make the following promotions:—

Shri JK Srivastava, JSO, CQA (EE), Pune to be Offg.
SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f.
10 Dec 2004 (F/N).

Shri HG Jagarwal, JSO, CQA (EE), Pune to be Offg.
SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f.
7 Dec 2004 (F/N).

Shri SL Banik, JSO, CQA (NS), Mumbai to be Offg.
SSO-II at QAE(Met), Rourkela, on probation for a period of
two years w.e.f. 10 May 2005 (F/N).

Shri DK Tomar, SSO-II, CQAE(MS), Mumbai to be SSO-I
at HQ DQA(N), New Delhi w.e.f. 31 May 2005 (F/N).

Shri Ramesh Chandra, JSO, CQAE (WE), Mumbai to be
Offg. SSO-II at QAE(WP), Mumbai, on probation for a period
of two years w.e.f. 21 April 2005 (F/N).

Shri Udai Ram Singh, SSO-II, QAE (ME), Bhandara to be
SSO-I at QAE (ME), Dehu Road w.e.f. 21 Jun 2005 (F/N).

Shri AK Gangopadhyay, SSO-II, No. 3 SRID, Kolkata to
be SSO-I at SQAE (GS), Kolkata w.e.f. 29 Jul 2005 (F/N).

Shri PK Shome, SSO-II, HQ DQA(S), New Delhi to be
SSO-I in-situ w.e.f. 29 Jul 2005 (F/N).

Shri Jagmohan Singh, JSO, CQA (I), Dehradun to be Offg.
SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f.
23 Aug 2005 (F/N)

SUBHASH CHAND
Under Secy.

No. 24, dated the 12th December 2005.—The President
is pleased to make the following promotion (PC) under AI
37/78 as amended vide AI 11/02.—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Surg Lt Cdr to Surg Cdr

Niyamathulla Azceezuddin (DR-10443P) (79041N),
22 May 2005

SS Bharathan (DR-10427X) (79061H), 25 May 2005

PARAMJIT SINGH
Lt Gen
DGDS

REGULAR ARMY

MILITARY NURSING SERVICE

(PERMANENT COMMISSION)

No. 25, dated the 13th December 2005.—The President
is pleased to make the following promotion of MNS officers
with effect from the date(s) mentioned against the each
name:—

Major to Lt Col (TS)

Rank & Name, Pers No. and Date of Promotion

Lt Col Radha Chaufal (NR-18070F), 05 Jun 2003

Lt Col Sandhya, VSM (NR-18071K), 05 Jun 2003

Lt Col Ladly Gangoo (NR-18073P), 05 Jun 2003

Lt Col Kuldeep Kaur (NR-18076H), 05 Jun 2003

Lt Col Vanajamma PA (NR-18083Y), 05 Jun 2003

Lt Col Gracy PS (NR-18084F), 05 Jun 2003

Lt Col Ratna Dey (NR-18088X), 05 Jun 2003

Lt Col Shail Gautam (NR-18056P), 30 Jan 2004

Lt Col P S Kusuma Kumari (NR-18058A), 08 Feb 2004

Lt Col Girly Kutty CP (NR-18066Y), 30 Apr 2004

Lt Col F Jescintha Rosaline (NR-18067F), 30 Apr 2004

Lt Col K Vanaja Rani (NR-17620M), 28 Dec 2002

Lt Col Anita Patnaik (NR-17640A), 28 Dec 2002

Lt Col Sobhana Kumari VP (NR-17644W), 28 Dec 2002

Lt Col Padma Kumari (NR-17645Y), 28 Dec 2002

Lt Col Uma Seerah (NR-17655H), 28 Dec 2002

Lt Col NV Baby (NR-17671A), 28 Dec 2002

Lt Col Mariamma PK (NR-17689W), 28 Dec 2002

Lt Col Padmakumari PN (NR-17692W), 28 Dec 2002

Lt Col M Ghosh (NR-17715M), 28 Dec 2002

Lt Col HV Gomathy (NR-17722H), 28 Dec 2002

Lt Col Annamma Varghese (NR-17725W), 28 Dec 2002

Lt Col Sabitha Ravi (NR-17734X), 28 Dec 2002

Lt Col A Mathew (NR-17735A), 28 Dec 2002

Lt Col D Sheela (NR-17736H), 28 Dec 2002

Lt Col Ghunasheela Xavier (NR-17758F), 28 Dec 2002

Lt Col Thankamma EM (NR-17768L), 28 Dec 2002

The President is pleased to make the following promotion with effect from the date mentioned against the name:—

Lt to Capt

Rank & Name, Pers No. and Date of Promotion

Capt TV Rema (NR-20522X), 01 Apr 2002

USHA SIKDAR

Maj Genl

Addl DGMNS

No. 26, dated the 13th December 2005.—The President is pleased to make the following promotion of the under-

mentioned AMC Officers with effect from the date mentioned against each:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Major to be Lt Col

ACS Badhwar (MR-06725W), AMC—06 Jul 2005

Mohan Lal K (MR-06726Y), AMC—20 Jul 2005

H K Gupta (MR-07151F), AMC—13 Jul 2005

S Radhakrishnan (MR-06707N), AMC—02 Dec 2004

Sanjay Shivpuri (MR-06845P), AMC—09 Jul 2005

Suvralok Das (MR-06724N), AMC—22 Jun 2005

Sajeendran M K (MR-07150K), AMC—26 Jun 2005

Capt to be Major

Srinivas Dasari (MS-13784L) (MR-08205K), AMC—10 Jul 2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 18 Sep 2004, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Fatiek Chandra Hansda (MS-13904Y) (MR-08198Y), AMC—01 Nov 2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 18 Sep 2004, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Sumit Kumar De (MS-13713K) (MR-08200L), AMC—14 Apr 2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 18 Sep 2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Ram Krishna Singh (MS-13796H) (MR-08204F), AMC—18 Jul 2001

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 04 Jan 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Ashok Kumar (MS-13814X) (MR-08087F), AMC—13 Jul 2003

Ajay Joshi (MR-08109P), AMC—29 May 2005

M B S Grewal (MR-07358F), AMC—27 Jun 2004

Surg Lt Cdr to Surg Cdr

M Haque (MR-06261K) (75491), AMC—12 Dec 2004

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Anupam Kumar (MR-07235P) (75682), AMC—05 Feb 2004

Sqn Ldr to be Wg Cdr

(Mrs)* S Datta (MR-06405F) (20948), AMC—12 May 2005

Manoj Kumar (MR-06431H) (21990), AMC—13 May 2005

G Keshavamurthy (MR-06410M) (20949), AMC—22 Jun 2005

(Mrs) Stellabai Juliet Ilamathy (MR-07440W) (18181), AMC—14 Jan 2000

(Mrs) J S Wagle (MR-07318A) (20956), AMC—13 Jul 2005

H S Trehan (MR-06316H) (21496), AMC—24 Jul 2005

A Saxena (MR-06327P) (21498), AMC—24 Jul 2005

K Sugandhi (MR-06708H) (21681), AMC—11 Dec 2004

V Sharma (MR-06266H) (21386), AMC—12 Dec 2004

A K Dash (MR-06343M) (21668), AMC—16 Dec 2004

Flt Lt to be Sqn Ldr

A K Garg (MR-07464A) (AF-26040), AMC—13 Jul 2005

Vikram Trehan (MR-07466L) (AF-26042), AMC—13 Jul 2005

(Km) Rashmi More (MR-07477X) (AF-26044), AMC—13 Jul 2005

Shivani Mahajan (MS-13472P) (MR-07933X) (AF-25566), AMC—01 Feb 2003

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy DGAFMS (Pers)

No. 27, dated the 12th December 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)

IC-27317Y Lt. Col Jitendra Singh, AC—16 Dec 2004

IC-30818K Lt Col PS Gill, AC—16 Dec 2004

IC-30935P Lt Col K Christopher, AC—16 Dec 2004

IC-36016W Lt Col SC Awasthi, AC—16 Dec 2004

IC-34079A Lt Col UBS Ranawat, AC—16 Dec 2004

IC-34345N Lt Col TS Kohli, AC—16 Dec 2004

IC-35257K Lt Col Kamal Maini, AC—16 Dec 2004

IC-30049L Lt Col AK Chakravorty, ADA—16 Dec 2004

IC-33787A Lt Col RVK Varier, ADA—16 Dec 2004

IC-36310W Lt Col Shatrughan Singh, ADA—16 Dec 2004

IC-31749L Lt Col RS Yadaav, ADA—16 Dec 2004

IC-34435P Lt Col BP Patil, ADA—16 Dec 2004

IC-30611K Lt Col Darshan Singh, AEC—16 Dec 2004

IC-30947K Lt Col Prabhat Kumar, AEC—16 Dec 2004

IC-31983F Lt Col PC Pathy, AEC—16 Dec 2004

IC-35812M Lt Col JM Sharma, AEC—16 Dec 2004

IC-25554K Lt Col Jujhar Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-27629P Lt Col SS Verma, Arty—16 Dec 2004

IC-33258N Lt Col LS Sujlana, Arty—16 Dec 2004

IC-30857H Lt Col SS Barde, Arty—16 Dec 2004

IC-36601W Lt Col Raj Kumar, Arty—16 Dec 2004

IC-34221Y Lt Col D Raja, Arty—16 Dec 2004

IC-34236F Lt Col Pranab Baidya, Arty—16 Dec 2004

IC-34580M Lt Col BBG Baruah, Arty—16 Dec 2004

IC-36917H Lt Col AK Sharma, Arty—16 Dec 2004

IC-37043M Lt Col Jasbir Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-35529Y Lt Col T Samson, Arty—16 Dec 2004

IC-35735H Lt Col IS Metharu, Arty—16 Dec 2004

IC-35775K Lt Col SK Suresh, Arty—16 Dec 2004

IC-36430P Lt Col VK Kehal, ASC—16 Dec 2004

IC-37447P Lt Col AB Dwivedi, EME—16 Dec 2004

IC-31978W Lt Col VRK Moorthi, Engrs—16 Dec 2004

IC-34661M Lt Col RE Kulkarni, Engrs—16 Dec 2004

IC-34702L Lt Col S Sunder, Engrs—16 Dec 2004

IC-35900H Lt Col MS Matharu, Engrs—16 Dec 2004

IC-38250L Lt Col AK Dubey, Engrs—16 Dec 2004

IC-38636L Lt Col MM Kaul, Engrs—16 Dec 2004

IC-35551K Lt Col Pradeep Bhutani, Engrs—16 Dec 2004

IC-31771W Lt Col R Lakhanpal, Guards—16 Dec 2004

IC-25480A Lt Col CM Angelo, Inf—16 Dec 2004

IC-30196N Lt Col VK Ghilidayal, Inf—16 Dec 2004

IC-33605F Lt Col MNP Nair, Inf—16 Dec 2004

IC-30699Y Lt Col AK Singh, Inf—16 Dec 2004

IC-30907H Lt Col Nirbhay Marwaha, Inf—16 Dec 2004

IC-36075H Lt Col Balvinder Singh, Inf—16 Dec 2004

IC-36335H Lt Col DD Shinde, Inf—16 Dec 2004

IC-36277K Lt Col Raja Shekhar, Inf—16 Dec 2004

IC-36494A Lt Col CK Mishra, Inf—16 Dec 2004

IC-31405M Lt Col PK Majumdar, Inf—16 Dec 2004

IC-31900L Lt Col VJ Kohli, Inf—16 Dec 2004

IC-31690W Lt Col VK Arora, Inf—16 Dec 2004

IC-36668P Lt Col Varinder Singh, Inf—16 Dec 2004
 IC-34209X Lt Col DVS Pathania, Inf—16 Dec 2004
 IC-34516P Lt Col VK Sharma, Inf—16 Dec 2004
 IC-36925F Lt Col NS Rai, Inf—16 Dec 2004
 IC-37025K Lt Col NS Dugal, Inf—16 Dec 2004
 IC-37044P Lt Col S Ghildiyal, Inf—16 Dec 2004
 IC-37125P Lt Col R Sharma, Inf—16 Dec 2004
 IC-35311M Lt Col BP Bhalla, Inf—16 Dec 2004
 IC-35350L Lt Col Charan Jeet Singh, Inf—16 Dec 2004
 IC-35278A Lt Col SD Redkar, Inf—16 Dec 2004
 IC-37256A Lt Col RS Manral, Inf—16 Dec 2004
 IC-37227L Lt Col Sudhir Chawla, Inf—16 Dec 2004
 IC-35582K Lt Col PS Sandhu, Inf—16 Dec 2004
 IC-30110K Lt Col JS Mangat, Inf—16 Dec 2004
 IC-30563P Lt Col Surinder Kumar, Inf—16 Dec 2004
 IC-35364L Lt Col Saran Kumar, Int—16 Dec 2004
 IC-27260P Lt Col R Yadaav, Inf—16 Dec 2004
 IC-34339A Lt Col Arun Kumar, Mech Inf—16 Dec 2004
 IC-36770X Lt Col HK Pundir, Inf—16 Dec 2004
 IC-35608N Lt Col TK Sircar, Mech Inf—16 Dec 2004
 IC-36726N Lt Col RP Rai, Mech Inf—16 Dec 2004
 IC-37034L Lt Col SS Patel, Mech Inf—16 Dec 2004
 IC-35795X Lt Col AK Singh, Sigs—16 Dec 2004
 IC-36678Y Lt Col SV Dwivedi, AOC—16 Dec 2004
 IC-32873Y Lt Col Mehar Singh, Inf—16 Dec 2004
 IC-30936X Lt Col NS Singh, AOC—16 Dec 2004
 IC-31365W Lt Col Avinash Chand Dadwal, Mech Inf—
 16 Dec 2004
 IC-31807K Lt Col R Gairola, Inf—16 Dec 2004
 IC-34027K Lt Col AK Saha, AOC—16 Dec 2004
 IC-34320F Lt Col RP Shrivastava, Engrs—16 Dec 2004
 IC-34863N Lt Col V Bhagavan Prasad, Inf—16 Dec 2004
 IC-35268W Lt Col KK Sircar, Inf—16 Dec 2004
 IC-35280X Lt Col SS Rathore, Inf—16 Dec 2004
 IC-35802H Lt Col Chand Ram, AEC—16 Dec 2004
 IC-35918Y Lt Col Arvind Bhagra, AC—09 Jun 2005
 IC-37346F Lt Col AK Sood, Arty—01 May 2005
 IC-38003X Lt Col Dharam Vir Singh, Arty—09 Jun 2005
 IC-38022H Lt Col Mahendra Rathore, Arty—09 Jun 2005
 IC-38059K Lt Col MK Gupta, Arty—09 Jun 2005

IC-38100P Lt Col SS Lather, Mech Inf—09 Jun 2005
 IC-38106W Lt Col Dharam Narain, Arty—09 Jun 2005
 IC-38141Y Lt Col SK Sharma, Arty—09 Jun 2005
 IC-38167A Lt Col RK Gupta, Arty—09 Jun 2005
 IC-39029Y Lt Col RK Singhai, EME—16 Dec 2004
 IC-39805N Lt Col Sultan Singh Malik, EME—13 Jun
 2005

AJAY GOEL
 Dy Dir
 MS-8A

No. 28, dated the 13th December 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No., Name and Arm

IC-62957 Raj Singh Duhan, EME
 IC-62958 Ajit Khatri, EME
 IC-62959 Antony Joseph, ADA
 IC-62960 Kapil Khanduri, Mech Inf
 IC-62961 Ritesh Ramniwas Laddha, Inf
 IC-62962 Nikhil Bhardwaj, AC
 IC-62964 Vinayak, Inf
 IC-62965 Damanjit Singh Virk, AOC
 IC-62966 Rakesh Tokas, Inf
 IC-62967 Vikas Malik, ASC
 IC-62968 Manas Nayar, Arty
 IC-62969 Anil K, Inf
 IC-62970 Pradeep Kumar, Inf
 IC-62971 Mohit Sahai, Arty
 IC-62972 Benjy George Thomas, Inf
 IC-62973 Karan Bhatia, Inf
 IC-62974 Narender Pal Singh, AOC
 IC-62975 Ranjit Singh Pathania, AC
 IC-62976 Rachit Sharma, Arty
 IC-62977 Rahul Kanwar, ASC
 IC-62978 Rahul Vatsyayan, Arty
 IC-62979 Prateek Sharma, Inf
 IC-62980 Gaurav Singh, AC
 IC-62981 Vinod Kumar S Rachannavar, Sigs
 IC-62982 Prashant Kumar Singh, Inf

IC-62983 Rajneesh Kumar, Engrs	IC-63024 Ravi Ranjan, Arty
IC-62984 Rahul Agarwal, Inf	IC-63025 Abhishek Bharti, ADA
IC-62985 K Vijay Anandh, Arty	IC-63026 Gajendra Kumar, AOC
IC-62986 Biswas R Nambiar, Inf	IC-63027 Aditya Kapoor, Arty
IC-62987 Nikit Bisht, Inf	IC-63028 Vivek Sabharwal, Inf
IC-62988 R Raghavan, Inf	IC-63029 Arun Yadav, Inf
IC-62989 Rajeev Kumar Yadav, AOC	IC-63030 Khundra Kpam George Singh, AOC
IC-62990 Paras Rehni, Engrs	IC-63031 Anujoy Bhaumik, Inf
IC-62991 Tarunendra Pratap Singh, Inf	IC-63032 Ashutosh Singh, Inf
IC-62992 Vivek Mahajan, Mech Inf	IC-63033 Tushar Singh Tomar, Inf
IC-62993 Saket Rawat, Mech Inf	IC-63034 Mohit Chauhan, Inf
IC-62994 Shri Ragavendhira Prabhu B, Arty	IC-63035 Adarsh Singh Parihar, Inf
IC-62995 Rishi Sharma, AOC	IC-63036 Saransh Nigam, Inf
IC-62996 Sunil Kumar, Arty	IC-63037 Koushal Bhatia, Inf
IC-62997 Vijay Kumar Thapa, ASC	IC-63038 Rajat Singh Jaswal, AC
IC-62998 Shivam, Arty	IC-63039 Ravi Shekhar Mishra, Inf
IC-62999 Binsumathew Cherian, ASC	IC-63040 Himanshu Pandey, ASC
IC-63000 Rajesh Kumar Bhardwaj, ADA	IC-63041 Pranay Srivastava, Inf
IC-63001 Raminder Singh, Inf	IC-63042 Jitendra Kumar Chaturvedi, Arty
IC-63002 Shish Pal Singh Rawat, Mech Inf	IC-63043 Ravi Singh Baghel, Inf
IC-63003 Pradeep Sharma, Inf	IC-63044 Bhavatosh Das, Inf
IC-63004 Nikhil Kapoor, ADA	IC-63045 Ashwani Joshi, Inf
IC-63005 Rakesh Kumar Singh, Arty	IC-63046 Parveen Jakhar, Inf
IC-63006 Ram Kumar Singh, Arty	IC-63047 Lokanadham GV, Arty
IC-63007 Ankit Sood, Inf	IC-63048 Mathew Cherian, Arty
IC-63008 Neeraj Marwah, AC	IC-63049 Gaurav Kitchlu, Inf
IC-63009 Kamlesh Kumar Singh, Inf	IC-63050 Sridhar V, Arty
IC-63010 Vinay Kumar, Inf	IC-63051 Jagpreet Singh, AC
IC-63011 Sanjay Bisht, Inf	IC-63052 Rakesh Katoch, Inf
IC-63012 Binit Kumar Singh, Inf	IC-63053 Bikram Das, ASC
IC-63013 Atul Uttamrao Garje, Arty	IC-63054 Ashish Rawat, Inf
IC-63014 Yogender Dutt Sharma, Inf	IC-63055 Sachin Jain, ADA
IC-63015 Vivek Elavakun Nath, Arty	IC-63056 Gopal Arjyal, Mech Inf
IC-63016 Amit Saini, Inf	IC-63057 Sudeep Ghatak, Inf
IC-63017 Ashish Kumar, Inf	IC-63058 Dhruv Raheja, AC
IC-63018 Ashish Anand Abhayankar, Arty	IC-63059 Vipul Gupta, Arty
IC-63019 Rishikesh Sharma, AOC	IC-63060 Aditya Puri, Engrs
IC-63020 Anurag Talwar, Engrs	IC-63061 Vineet Kumar, AC
IC-63021 Sumit Dhagat, Sigs	IC-63062 Vikram Sadhotra, Inf
IC-63022 Ashutosh Kumar Singh, ASC	IC-63063 Mukesh Kumar Jha, Inf
IC-63023 Lagay Tshering Lepcha, Inf	IC-63064 Piyus S Katal, Arty

IC-63065 Sandeep Rana, Inf	IC-63106 K Pratap Singh, AC
IC-63066 Saurabh Lahiri, Sigs	IC-63107 Charan Singh Shekhawat, Inf
IC-63067 Amit Bhatnagar, ADA	IC-63108 Amit Kumar Singh, Inf
IC-63068 Pankaj Pal, Inf	IC-63109 V Prem Kumar, Arty
IC-63069 Deepak Rana, Inf	IC-63110 Anindya Chatterjee, Inf
IC-63070 Punyashlok Brahma, Arty	IC-63111 Ryan Chakravarty, Inf
IC-63071 Ghatge Vishal Shivaji, Inf	IC-63112 Bibek Chakrobarty, Inf
IC-63072 Mahipal Lather, Inf	IC-63113 Sumeet Singh, Inf
IC-63073 Vishwanath Pratap Singh, Arty	IC-63114 Saket Sawhney, Inf
IC-63074 Gurtej Singh, Inf	IC-63115 Ravinder Singh, Arty
IC-63075 Mani Inder Pal, Inf	IC-63116 Suresh N, Engrs
IC-63076 Netrajit Chongtham, Arty	IC-63117 Abhishek Bhardwaj, Arty
IC-63077 Amit Kumar Sihag, Inf	IC-63118 Ashutosh Sharma, AC
IC-63078 Vishal Deevatagi, ASC	IC-63119 Rakesh Sharma, Inf
IC-63079 Gaurav Vashisth, Arty	IC-63120 Rajsekhar Sharma, ASC
IC-63080 Thomas Sebastian, Inf	IC-63121 Pankaj Kumar Upadhyay, ASC
IC-63081 Sunil Kumar Chaubey, Inf	IC-63122 Anand Mariacharles, Inf
IC-63082 Ratnadeep Das, Arty	IC-63123 Varun Sareen, ADA
IC-63083 Saurabh Vats, ADA	IC-63124 Dhruv Bora, Inf
IC-63084 Bandi Praveen Arun, Arty	IC-63125 J Wungmazan, Inf
IC-63085 Jagdish Chandra Pant, AOC	IC-63126 Ritesh Tripathi, Inf
IC-63086 Nishant Arvind, Arty	IC-63127 Arjun Mohinta, Int
IC-63087 Prashant Dahiya, ASC	IC-63128 Manvendra Singh, Inf
IC-63088 Jonathan Varun Benjamin, Inf	IC-63129 Piyush Kumar Shah, Arty
IC-63089 Sanand, Inf	IC-63130 Krishna Kapoor, Inf
IC-63090 Tarun Bhasin, Inf	IC-63131 Kulwinder Singh, AC
IC-63091 Vikram Pratap Singh, Inf	IC-63132 Anoop Kumar Srivastava, Inf
IC-63092 Mohit Singh Pathania, AC	IC-63133 Anil Singh, ASC
IC-63093 Rajat Mishra, EME	IC-63134 Abhishek Bamola, Inf
IC-63094 Sumit Kohli, AOC	IC-63135 Rajesh Chaoudhry, Arty
IC-63095 Ravi Kumar Vijay Kumar Vishwanathe, AOC	IC-63136 Viplav Tripathi, Inf
IC-63096 Vikas Shukla, Arty	IC-63137 Shishpal Singh, Inf
IC-63097 Surender Kumar, AC	IC-63138 Ashok Kumar Singh, Inf
IC-63098 Hemant Kumar Sharma, Arty	IC-63139 Puneet Sharma, Arty
IC-63099 Abhishek Zachariah, Inf	IC-63140 Abhishek Sharma, Inf
IC-63100 Piyush Bhatt, Inf	IC-63141 Pratap Kumar Dash, ADA
IC-63101 Mohver Singh Grewal, Inf	IC-63142 Jasbir Singh Ghuman, EME
IC-63102 Amit Kumar Tyagi, Inf	IC-63143 Vishnu Kantawasthi, AOC
IC-63103 Suhel Singh Salaria, Inf	IC-63144 Shantanu Kenney, Inf
IC-63104 Bimlesh Kumar, Inf	IC-63145 Praveer K Ray, AOC
IC-63105 Suraj Bhatia, ASC	IC-63146 Chetan Chopra, Inf

IC-63147 Tarun Katyal, ASC	IC-63188 Giriraj Dharan, Inf
IC-63148 Kushvir Nanda, Inf	IC-63189 Ashutosh Jha, Arty
IC-63149 Varun Bhasin, Inf	IC-63190 Sanjeev Kumar Rana, AOC
IC-63150 Hardeep Singh Oberoi, Arty	IC-63191 Shona George, Arty
IC-63151 Shoubhik Bhattacharya, Sigs	IC-63192 Pankaj Thakur, AC
IC-63152 NM Manoj Kumar, AOC	IC-63193 Ranganath Patil, Arty
IC-63153 Binu Raj, Inf	IC-63194 Sushmit Banerjee, AC
IC-63154 C Prasannan, Arty	IC-63195 Dev Basumadhav, Inf
IC-63155 Gagandeep Singh Kohli, Arty	IC-63196 Parag Bisht, Inf
IC-63156 Chandramani Singh, Inf	IC-63197 Brijendra Singh, Inf
IC-63157 Sudhakar Dwivedi, Inf	IC-63198 Gautam Anand, Inf
IC-63158 Srinivas Parthasarthy, Arty	IC-63199 Rajesh Chander Khajuria, ASC
IC-63159 Sreejith P Menon, Inf	IC-63200 Aman Kumar Singh, Inf
IC-63160 Sumesh, Inf	IC-63201 Yunes Choudhary, Inf
IC-63161 Kapil Saini, ASC	IC-63202 Dinesh Singh, Inf
IC-63162 Saurabh Mehrotra, Inf	IC-63203 Vishal Sharma, Inf
IC-63163 Bharat Singh Panwar, Inf	IC-63204 Sumit Sachdeva, AOC
IC-63164 Jasbinder Singh Labana, Inf	IC-63205 Sarvapreet Singh Kakkar, Inf
IC-63165 Mahendra Kumar Tiwari, Inf	IC-63206 Arunabh Singh, Arty
IC-63166 Amit Thakur, Inf	IC-63207 Joshi Hemant Mohan Lal, Inf
IC-63167 Ankur Mohan, Inf	IC-63208 Vipul Yadav, Inf
IC-63168 Shakti Singh, Inf	IC-63209 Manish Sharma, ASC
IC-63169 Joydeep Sarkar, Arty	IC-63210 Mitush Raghav, Inf
IC-63170 Vivek Pancholi, Arty	IC-63211 Chiromibungo, Inf
IC-63171 Ashish Arun Deshpande, Inf	IC-63212 Girish Shekhar, Inf
IC-63172 Suneel Kumar, AOC	IC-63213 Javed Khan, AOC
IC-63173 Anil Sonajirao Kadam, Inf	IC-63214 CN Ramesh, ASC
IC-63174 Prateek Gupta, Arty	IC-63215 Anup Grewal, Arty
IC-63175 Prakash Kumar Singh, Arty	IC-63216 Priyank Sharma, Inf
IC-63176 Akhilesh Kumar, AOC	IC-63217 Chetan Kumar, ADA
IC-63177 Prashant Singh Khati, Inf	IC-63218 Arun Prakash Maurya, Inf
IC-63178 Pritish, Inf	IC-63219 Vijay Kumar Lama, Inf
IC-63179 Pramod Kumar, Int	IC-63220 Iyer Arun Rajan, Inf
IC-63180 Devesh Shahi, ASC	IC-63221 Siva Kumar M, Inf
IC-63181 Chandra Prakash Sharma, ADA	IC-63222 Sumit Kumar Chandel, AOC
IC-63182 Prashant Jasrotia, AC	IC-63223 Jaideep Singh, AC
IC-63183 Akshay Jain, Arty	IC-63224 Nand Kishore Prakash, Inf
IC-63184 Kapil Tyagi, ADA	IC-63225 TM Praveen Kumar, Arty
IC-63185 S Santosh, Inf	IC-63226 Kumar Abhishek, Inf
IC-63186 Suyog Dave, ADA	IC-63227 Nitin Agnihotri, Int
IC-63187 Gaurav Jai Singh, Inf	IC-63228 Abhishek Juyal, Inf

IC-63229 Akshay Das, Inf
 IC-63230 Sameer Sharma, AC
 IC-63231 Rajesh Kumar, Engrs
 IC-63232 Mohit Gaur, Sigs
 IC-63233 Debashish Dasgupta, Arty
 IC-63234 Gagan Singh, Engrs
 IC-63235 Prabal Srivastava, Sigs
 IC-63236 Yogesh Mehta, Engrs
 IC-63237 Ashutosh Kumar, Engrs
 IC-63238 Sanjeev Narula, EME
 IC-63239 Ashish Khattri, Engrs
 IC-63240 Vipul Agarwal, Sigs
 IC-63241 Rohit, EME
 IC-63242 Manish Pathak, Engrs
 IC-63243 Ruchien Singhal, Engrs
 IC-63244 Gaurav Singh, EME
 IC-63245 Samar Sirohi, Sigs
 IC-63246 Sumit Prakash Gupta, EME
 IC-63247 Arvind Jadli, Engrs
 IC-63248 Abhinav Kumar Chaudhri, EME
 IC-63249 Adheesh Sinha, EME
 IC-63250 Bhavishya Kashyap, Sigs
 IC-63251 Kushlendra Tyagi, EME
 IC-63252 Jaikrishan Mhaske, Engrs
 IC-63253 Tumusara Chandra, EME
 IC-63254 Sudcep Mohan Rawat, Engrs
 IC-63255 Manish Kokel, Sigs
 IC-63256 Chinmaya Mund, EME
 IC-63257 Vikhyat Garg, Sigs
 IC-63258 Gaurav Srivastava, Sigs
 IC-63259 Aniruddha Bose, Sigs
 IC-63260 Anil Ranakoti, Engrs
 IC-63261 Amit Singh, EME
 IC-63262 Sharangpani Apurva Sanjeev, EME
 IC-63263 Vivek Yadav, Engrs
 IC-63264 Sandip Kumar Das, Sigs
 IC-63265 Surajit Sinha Roy, Engrs
 IC-63266 Saurabh Sood, Sigs
 IC-63267 Pillai Sunil Shankar, Engrs
 IC-63268 Ashish Anand, EME
 IC-63269 Mohit Gogna, Engrs

IC-63270 Akshay Kapoor, Sigs
 IC-63271 Rajesh Unni Krishnan, Engrs
 IC-63272 Pranav Mohotra, Sigs
 IC-63273 Sanjeev Kumar Singh, EME
 IC-63274 Kalra Rishabh Ravinder, EME
 IC-63275 Abhishek Agarwal, Engrs
 IC-63276 Khedkar Hrishikesh Arun, Engrs

—14 Jun 2005.

IC-61387 K Siddhartha Narayan, Engrs
 IC-61499 Prashant Rana, Inf
 IC-61543 S Ravi Prakash, Arty
 IC-61753 Dalip Singh, Inf
 IC-61764 T Nithyananda Karunya Murthy, EME
 IC-61897 Arvind Rajhans, Inf
 IC-62503 Udayraj Kulgude, Inf
 IC-62574 Shanaz K, Arty
 IC-62642 Nooti Kumar, Int
 IC-62766 K Sijin, Inf
 IC-62819 Alok Kumar Singh, Inf
 IC-64285 Shanjamo Ngullie, Sigs
 IC-64312 Abhimanyu Cheba, Engrs
 IC-64357 Basamsetti Mahesh Manoj, Engrs

—16 Dec 2004.

IC-50404 Anirban Datta, Inf—08 Jun 1996.
 IC-54237 Venkatesh Arshad, AC—14 Jan 2000.
 IC-54359 Shende Kamlesh Manikrao, Inf—08 Jun 2000.

IC-55242 Rakesh Krishnan, Inf—14 Jan 2000.
 IC-55431 Kulvir Gill, EME—26 Oct 1999.
 IC-55495 Abhay Singh Dev, AC
 IC-55496 Gurmohinder Singh, Inf

—26 Apr 2001.

IC-55694 MD Shahid Ahmed, Inf
 IC-55708 Bhavay Sood, AOC
 IC-55736 Nabi Ahmed, Inf

—24 Apr 2001.

IC-55775 Harbinder Singh Bains, Inf
 IC-55776 Jesus Benino Furtado, Arty

—08 Nov 2002—

IC-55989 Adarash Bhandari, Inf—07 Nov 2002.

IC-56070 Rohit Srivastava, ASC

IC-56077 Praveen Dahiya, ASC

IC-56082 Bibhuti Nath Jha, Arty

—05 May 2003.

IC-56231 Parimal Bharti, Arty

IC-56272 Aseem Kumar Dhiman, Inf

IC-56285 Satyarth Rai, Arty

IC-56291 Gautam Shankar Giri, Inf

IC-56296 Kirti Kumar Gohil, AD Arty

—06 Nov 2003.

IC-57685 KL Roy, Inf—06 Dec 2001.

IC-59069 Manav Yadav, AC—11 Dec 2003.

IC-60048 Vineet Ohir, AEC

IC-60057 Prashant Saxena, AEC

IC-60073 Abhishek Bhardway, AEC

—13 May 2004.

IC-60149 Vivek Bahuguna, ASC

IC-60384 Amit Beniwal, ASC

—09 Dec 2004.

IC-60464 Sachin Kumar, EME

IC-60468 A Sailesh, ASC

IC-60489 Nripendra Singh Parmar, Inf

IC-60497 Somnath Chakraborty, Inf

—09 Dec 2004.

IC-60649 Gedala Kiran Kumar, Inf

IC-60695 Abhay Dogra, Engrs

IC-60710 Rajeev Ranjan, ASC

IC-60727 Premji Anand JJ, Inf

IC-60737 Satwinder Jit Singh, Inf

IC-60744 Chandra Mouli Singh Parmar, Inf

IC-60792 Siddarth Narayanan, Arty

IC-60803 Manoj Sharma, Arty

IC-60892 Sandeep Dahiya, AC

IC-60929 Shekhar Ramesh Mali, Inf

IC-60953 Mukesh Chauhan, ASC

IC-60973 Balasundaram NK, Arty

IC-61015 Lokesh Bisht, Inf

IC-61055 Vikram Mann, Inf

IC-61080 Bikram Jit Singh Badhwar, Inf

IC-61120 Harneet Singh, Inf

—16 Dec 2004.

IC-62192 Saurabh Kumar, Arty

IC-62344 Shreeraj Niranjana Manekar, Inf

IC-62468 Goel Dharmdatt Ramlal, AEC

IC-62562 Shashank Pandey, Inf

IC-62942 G Kannan, AEC

IC-62946 Girish Kumar Singh Dod, AEC

IC-62954 Soumyabrata Dhar, AEC

—16 Dec 2004.

SC-00367 Sadhu Ram Bhakar, ASC—16 Dec 2004.

SL-04545 Ramdas GN, SL TOT

SL-04546 Satya Narain Yadav, SL E/M—30 Apr 2003.

IC-60007 R R Subramanian, Engrs—14 Jun 2002.

IC-58146 Saminder Mor, Arty

IC-58300 Kapil Bassi Sema, Engrs

IC-58345 P Sumod, EME

—12 Dec 2002.

IC-61276 Manbir Singh, Sigs

IC-61310 Misal Yashawant Shyamrao, EME

—13 Jun 2003.

IC-59150 Rohit Sharan, EME

IC-59171 Rajiv Shankar, ASC

—11 Dec 2003—

IC-61988 Rajeev Kumar Singh, EME—12 Dec 2003.

IC-59660 Ankush Chhibber, ASC

IC-59690 Arjun Pratap Singh Chabba, Arty

IC-59731 Shidramayya S Pujar, Int

IC-59792 Vishal Gaurav, ASC

IC-59840 Pramod Kumar, Arty

IC-59889 Sankalp Pandey, ASC

IC-59915 Deepak Dobriyal, ASC

IC-59920 Deosthali Prasad Sudhir, Int

—10 Jun 2004.

IC-62470 Ritesh Prabhakar, Engrs—11 Jun 2004.

IC-60094 Manoj Kumar Jha, ASC

IC-60111 Surender Singh, Arty

IC-60134 Sudipto Chaki, Arty

IC-60161 Amandeep Singh, ASC

IC-60225 Naresh Banyana, ASC

IC-60244 Vivek Rehni, ASC

IC-60258 Pankaj Prakash Pandey, ASC
 IC-60311 Samridh Chhibber, ASC
 IC-60322 Ajay Negi, ASC
 IC-60344 Rajkumar Vijaykumar Vishwanathe, ASC
 IC-60364 Pradeep Kumar, Arty
 IC-60367 Ajit Singh, ASC
 IC-60449 Alok Singh, EME
 IC-60462 Avinash Bhalchandra Padiyar, Arty
 IC-61189 Rajesh Benda, AEC
 IC-61206 Rajiv Guleria, AEC
 IC-61213 Sahdev Singh Raizada, AEC
 IC-61216 Deepak Singh, AEC
 IC-61222 Abhishek Jha, AEC

—09 Dec 2004.

IC-61294 Nilesh Sheshrao Ingle, AEC
 IC-61303 Inderjeet Singh, AEC
 IC-61307 Deepak Yadav, AEC
 IC-61308 Vijay Rana, AEC
 IC-61324 Nitesh Roy, AEC
 IC-61968 Amit Dagar, AEC
 IC-61987 Deep Singh Mahlawat, AEC
 IC-61994 Sushil Kumar Chavan, AEC
 IC-61999 Arvind Kumar Nautiyal, AEC
 IC-62000 Dharendra Kumar, AEC
 IC-62467 Prathama Pulak Tripathy, AEC

—16 Dec 2004.

IC-56173 Rajput Ravinder Singh, Mech
 IC-56174 Pravin Kumar, Arty
 IC-56175 Sumit Kumar, AOC
 IC-56176 Bharath Prasad D, AD Arty
 IC-56177 Giani, AOC
 IC-56178 Manendra Bahadur Singh, Inf
 IC-56179 Raghav Singh, Inf
 IC-56180 Bhanwar Singh, Inf
 IC-56182 Sushant, AC
 IC-56183 Sumit Mallik, Inf
 IC-56184 G Siva Kiran Kumar, Arty
 IC-56185 Rajendra Singh Rawat, Inf
 IC-56187 Birender Singh Paliyal, Inf

IC-56188 Vikram Khatri, Arty
 IC-56189 Parminder Kumar Yadav, EME
 IC-56190 Ajay Kumar, AD Arty
 IC-56191 Nair Girish Unni, ASC
 IC-56193 Dipinder Singh, AC
 IC-56194 Anupam Srivastava, ASC
 IC-56195 Mehta Ashutosh Pramod Kumar, Inf
 IC-56196 Jaydeep Singh Ghuman, Mech Inf
 IC-56197 Rakesh Verma, Arty
 IC-56198 Shiv Shankar Mandal, Engrs
 IC-56199 Sanjay Singh Rautela, ASC
 IC-56200 Rohit Kumar Sharma, Inf
 IC-56201 Amit Mohan Sharma, Inf
 IC-56202 Vijay Kumar Bakshi, Inf
 IC-56203 Vikram Mehta, Inf
 IC-56204 Shetty Nagraj Jayaram, Arty
 IC-56205 Roshan Verma, Inf
 IC-56206 Ramneesh Pal Singh, Inf
 IC-56207 Angad Kumar Roy, Arty
 IC-56208 Desai Yogesh Bharat, Arty
 IC-56209 Monish Subba, Inf
 IC-56210 Yajuvender Singh Yadav, Inf
 IC-56211 Sanjay Mukherji, AD/Arty
 IC-56212 Atul Singh, Arty
 IC-56213 Mohit Vaishnava, AC
 IC-56214 Harish Kumar Sharma, Mech Inf
 IC-56215 Rajesh Gupta, AD/Arty
 IC-56216 Rajender Bhandari, Sigs
 IC-56217 Vishal Mahajan, Arty
 IC-56218 Balwan Singh, Inf
 IC-56219 Veerandra Tiwari, Inf
 IC-56220 Vijay Kumar Misra, Arty
 IC-56221 Lalit Consul, AD/Arty
 IC-56222 Joginder Singh, Inf
 IC-56223 Chandra Pal Singh Khatri, Inf
 IC-56225 Kuldeep Singh, ASC
 IC-56226 Dazii Thole Anthony, Inf
 IC-56227 Ajay Kumar, AD/Arty
 IC-56228 Jayant Singh Dhaka, Sigs

IC-56229 Praveen Yadav, Inf
 IC-56230 Sushant Yadav, Inf
 IC-56232 Hitesh R K Kala, Arty
 IC-56233 Suresh Shukla, Arty
 IC-56234 Balendu Bhushan Singh Pandir, ASC
 IC-56235 Vikas Tomar, EME
 IC-56236 Hirde Preet Singh, Inf
 IC-56237 Akshay Sah, Inf
 IC-56238 Lal Remruata Oinam, Inf
 IC-56239 Gagan Harjai, AC
 IC-56240 Ajay Kumar Dharwal, EME
 IC-56241 Deepak Kumar Vashist, Inf
 IC-56242 Aibanjop Sooting, Inf
 IC-56243 Raj Kumar Chib, Inf
 IC-56244 Lalit Kashyap, AC
 IC-56245 Mandeep Singh Sekhon, Inf
 IC-56246 Shatrughan Singh, AOC
 IC-56248 Kehar Singh, Inf
 IC-56249 Siddhartha S Surve, Inf
 IC-56250 Jeetendra Kharka, Mech. Inf.
 IC-56251 Kunal S Surve, Inf
 IC-56252 Rajeev Dwivedi, ASC
 IC-56253 Manoj Kumar Jha, Arty
 IC-56254 Dhiraj Bhimwal, Arty
 IC-56255 Naveen Kumar C, Arty
 IC-56258 Jagdish, ASC
 IC-56259 Jitendra Tyagi, Inf
 IC-56260 Vinay Alvin Datt, Arty
 IC-56261 Manmohan Singh, Arty
 IC-56262 Sankalp Kumar, Inf
 IC-56264 Thongepatil Kaustubh Dattaji Rao, Inf
 IC-56265 Prakhar Umakant Tiwari, Mech. Inf.
 IC-56266 Sanjay M Ghule, Engrs
 IC-56267 Rohit Thakur, Inf
 IC-56268 Nitin Sahai, Arty
 IC-56269 Sanjay Singh, Inf
 IC-56270 Pankaj Fotedar, Inf
 IC-56271 Badal Malik, AC
 IC-56273 Nikhil Pareek, Int

IC-56274 Tushar Yadav, Arty
 IC-56275 Arvind Nain, ASC
 IC-56277 Subhashish Banerjee, Arty
 IC-56278 Amit Yadav, AD Arty
 IC-56279 Sameer Verma, AC
 IC-56280 Manish, Arty
 IC-56281 Anshuman Tripathi, Inf
 IC-56282 Aditya Chauhan, Inf
 IC-56283 Deepak Gautam, ASC
 IC-56284 Shashi Dhar S, Inf
 IC-56286 Mayank Khare, Inf
 IC-56288 Jyoti Prakash, AD Arty
 IC-56289 Vishnu Shanker, Arty
 IC-56290 Rajeev Kumar, EME
 IC-56292 Chander Bhan Singh Dhankher, Arty
 IC-56293 Umesh Kumar Singh, Inf
 IC-56294 Ankur Kulin, Arty
 IC-56295 Adarsh Pratap Singh, Arty
 IC-56297 Somjeet Sengupta, Inf
 IC-56298 K Swaminathan, Arty
 IC-56299 Satpal Kesri, Engrs
 IC-56300 Lalit Kumar Sharma, AOC
 IC-56301 V Deepak Venkat Ramaia, Inf
 IC-56302 Udayaditya Mukherjee, Arty

—06 Nov 2003.

IC-64279 Siripurapu Satyanarayana, EME
 IC-64280 Paokholun Khongsai, EME
 IC-64281 Ranvir Grewal, Engrs
 IC-64282 A Suhel Khan, Sigs
 IC-64283 Jasvinder Singh, Sigs
 IC-64284 More Amol, EME
 IC-64286 Bhaskar Sengupta, AD Arty
 IC-64288 Munish Sethi, Engrs
 IC-64289 Shashank Singh, Engrs
 IC-64290 Dhiraj Gupta, EME
 IC-64291 Dheeraj Kumar Singh, EME
 IC-64292 Saurabh Setia, Sigs
 IC-64293 Vikram Singh, Engrs
 IC-64294 Devender Jeet Chauhan, Sigs
 IC-64295 Shailinder Paul Bector, EME

IC-64297 Sushil Kumar Subhash Lavand, EME	IC-64341 Sunil Kumar Udeek, EME
IC-64298 K Sandeep, EME	IC-64342 Mukesh Bhardwaj, Engrs
IC-64299 Vikas, Arty	IC-64343 Piyush Pant, EME
IC-64300 Paramjit Singh, Arty	IC-64344 Tigmanshu, Engrs
IC-64301 Nitin Narayan Ghule, Engrs	IC-64345 Shouvik Sengupta, Engrs
IC-64302 Jassar SM, Engrs	IC-64346 Pinaki Banik, AC
IC-64304 Mohamed Zabiulla, Sigs	IC-64347 Vakil Kuntal Ashok, Engrs
IC-64305 Anindya Ray, Engrs	IC-64348 Sai Shankar P, Sigs
IC-64306 Abhishek Acharya, Sigs	IC-64349 Vikram Tiwari, Sigs
IC-64307 Prabhat Deswal, Sigs	IC-64350 Kaushlendra, AD Arty
IC-64308 Prashant, Sigs	IC-64351 Ritesh Kumar Singh, Engrs
IC-64309 Purailatpam Devakinandan Sharma, Sigs	IC-64352 Jaspreet Singh, Sigs
IC-64310 Mathew N Thomas, Sigs	IC-64353 Amit Bisht, Arty
IC-64311 Ashish Dhingra, Sigs	IC-64354 Hariharan M, EME
IC-64313 Vishal Pathak, Engrs	IC-64355 Maneabhay Ashok, Engrs
IC-64314 Akshay Bhatnagar, Sigs	IC-64356 Vinod Kumar Tapre, Engrs
IC-64315 C Martin Biritto, Arty	IC-64358 Junior Mutum, Engrs
IC-64316 Bhide Kedar Dattatraya, EME	IC-64359 Salunkhe Sanjay Bal Krushna, EME
IC-64317 Wandare Ashish Annaso, AD Arty	IC-64360 Amit Sharma, EME
IC-64318 Menonranjit Aravindan, Engrs	IC-64361 Bhuskat Hemchandra Panjabrao, Engrs
IC-64319 Akshay Kumar Singh, EME	IC-64362 Chiprikar Sachin Bapusaheb, EME
IC-64321 Anujay Pateriya, EME	IC-64363 Rittantra Singh, EME
IC-64322 Rohit Kadian, Engrs	IC-64364 Ranvijay Singh, Engrs
IC-64323 Vivek Prakadan, Sigs	IC-64365 Nagender Sharma, AC
IC-64324 Abhimanyu Varma, Engrs	IC-64366 Vimal Sharma, EME
IC-64325 Gorevishal Vishwas, Arty	IC-64367 Irfan Khan, EME
IC-64326 Virat Malik, Sigs	IC-64368 Saravanan, Engrs
IC-64327 Venkatesh C, Arty	IC-64369 Prabhjyot Singh Tur, EME
IC-64328 E Muralidharan, Arty	IC-64370 Balasubramanianv, EME
IC-64329 Siva Kumar, Sigs	IC-64371 R Sridhar, Arty
IC-64330 Pawar Rahul Ramesh, EME	IC-64372 Mathew Chacko, Sigs
IC-64331 Munish Pal Singh, EME	IC-64373 Varun Bansal, AC
IC-64332 Bhandurge Onkar Chandrakant, Engrs	IC-64374 Pundkar Shyam Kumar Rambhau, Arty
IC-64333 Nitin Dubey, Engrs	IC-64375 Saurabh Jagaro, Engrs
IC-64334 Joravar Singh, Arty	IC-64376 Rakesh Yadav, Engrs
IC-64335 Vivek Kumar Singh, EME	IC-64377 Vijay Shyam Kasturi, EME
IC-64336 Akshaya Panigrahi, AC	IC-64378 Bardeskar Jeevan Bastu, Arty
IC-64337 Shakti Singh, Arty	IC-64379 Piyush Thapa, Arty
IC-64338 Gijre Ketan Suresh, Arty	IC-64380 Jaspreet Singh Makkarh, Int
IC-64339 Gaurav Mohan, Arty	IC-64381 Shishir Pandey, Sigs
IC-64340 Sachin Jain, Arty	IC-64382 Soibam Luckyboy Singh, Arty

IC-64383 Subhro Banerjee, Engrs

IC-64385 Navjot Singh Sanghu, EME

IC-64386 Dhapade Bhupendra Chandrakishor, Engrs

IC-64388 Mayank Jain, Arty

IC-64389 Suresh Kumar Ray, Sigs

IC-64390 Kshitij Kumar Jain, AC

IC-64391 Santosh Kumar, AD Arty

IC-64392 Shishir Kumar, AC

—16 Dec 2004.

Lt to be Capt

(Special List)

Sl. No., Rank, Name, Arm and Date of Substantive Rank

4740 Lt Rajbir Singh, TEO AD Arty—05 July 2003 with seniority from 14 Jan 2000 without effect on pay and allowances.

SHORT SERVICE COMMISSION

Lt to be Capt

WS No. Name and Arm

WS-00375 Jadhav Geeta Shamrao, Int

—06 Mar 2004.

WS-00548 Julie Mol K, Int

—07 Mar 2004.

AJAY GOEL

Dy Dir

MS-8A

(AIR BRANCH)

No. 29, dated the 12th December 2005.—The President is pleased to make the following substantive promotion:—

INDIAN AIR FORCE

ADM BRANCH

To be Substantive Air CMDE (ADM Branch)

A/A/C P J Joseph (13223), ADM—01 May 2004

LGS BRANCH

To be Substantive Air CMDE

A/A/C SR Chinni (Retd) (12344), LGS—01 Mar 2004

A/A/C JBS Boparai (13108), LGS—01 Nov 2004

A/A/C S Sriram (13408), LGS—01 Nov 2004

A/A/C A Mohanty (13414), LGS—01 Mar 2005

To be Substantive Gp Capt

Gp Capt JS Aulakh (Actg) (15363), LGS—01 Sep 2004

(His name will appear below Gp Capt YK Negi (15351), LGS in the Combined Gradation list).

ACCTS BRANCH

To be Substantive Gp Capt

Gp Capt C V Subramanian (Actg) (14982), Accts—01 Sep 2005

MANJIT SINGH

Dy. Director of Personnel (Officers) 2(B)

(ARMY BRANCH)

No. 30, dated the 13th December 2005.—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 04.12.2001 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Flt Lt (On Prob)

Shivani Mahajan (MS-13472P) (MR-07933X) (AF-25566), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 01.02.1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 20.05.2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 27.08.2004 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (On Prob)

Ashok Kumar (MS-13814X) (MR-08087F), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 13.07.1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 31.03.2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 22.03.2005 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (On Prob)

Ram Krishna Singh (MS-13796H) (MR-08204F), AMC—18 Jan 2000 with seniority for pay and promotion w.e.f. 18.07.1997. (This includes 24 months of antedate of seniority for Post Graduate Qualification [MS (Gen Surgery)] and 06 months for Hospital Appointment, which will count

for pension and not for gratuity) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.10.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Srinivas Dasari (MS-13784L) (MR-08205K), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 10.07.1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 23.09.2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Fatiek Chandra Hansda (MS-13904Y) (MR-08198Y), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 01.11.1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 05.06.2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Sumit Kumar De (MS-13713K) (MR-08200L), AMC—14.10.1999 with seniority for pay and promotion w.e.f. 14.04.1999. (This includes 06 months of antedate of seniority for House Appointment which will count for pension not for gratuity) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 24.04.2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Vijay Singh Kathait (MS-14304H) (MR-08222K), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 20.02.2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 04.10.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAfMS (Pers)

ARMY BRANCH CORRIGENDUM

No. 31, dated the 13th December 2005.—In Ministry of Defence Gazette Notification No. — dated— published in

the Gazette of India on 15 Aug 1998 under the heading "Regular Army"—Army Medical Corps (Permanent Commission) Sub Heading Major to Lt Col against the name of Susnigdho Mazumdar (MR-05958L) :—

For—26 Dec 97

Read—26 Dec 97

(Notional seniority wef 30 May 97 which will not count for pay and allowances).

In Ministry of Defence Gazette Notification No. dated published in the Gazette of India on 07 Jul 1990 under the heading "Regular Army"—Army Medical Corps (Permanent Commission) Sub Heading Capt to Major against the name of Susnigdho Mazumdar (MR-05958L) :—

For—15 Feb 1989 with seniority from 26 Dec 1988

Read—15 Feb 1989 with seniority from 26 Dec 1988

(Notional seniority wef 30 May 88 which will not count for pay and allowances).

In Ministry of Defence Gazette Notification No. dated published in the Gazette of India on 07 Jul 1990 under the heading "Regular Army"—Army Medical Corps (Permanent Commission) Sub Heading To be Capt against the name of Susnigdho Mazumdar (MR-05958L) :—

For—With seniority for pay and promotion from 26 Dec 83 (this includes 6 months antedate for Hospital Appointment which will count for pension but not for gratuity).

Read—With seniority for pay and promotion from 26 Dec 83 (this includes 6 months antedate for Hospital Appointment which will count for pension but not for gratuity).

(Notional seniority wef 30 May 83 which will not count for pay and allowances).

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAfMS (Pers)